



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23—मार्च 1, 2013 (फाल्गुन 4, 1934)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23—MARCH 1, 2013 (PHALGUNA 4, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

मुंबई, दिनांक 22 जनवरी 2013

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गए और भारत सरकार के राजपत्र सं. 228 में दिसम्बर 01, 2007 को प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के विनियम 14 के अनुसार दिसम्बर, 2012 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची, खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई-400008 को सूचित करें :--

सूची

ऋण का नाम	प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य रुपये/ग्राम	जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया था	किस तिथि से ब्याज	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	कार्यालयीन आदेश की तिथि और संख्या
1	2	3	4	5	6	7
10% ऋण, 2014 (जीपी नोट)	जेपी000011	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	30.05.1983	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	जेएस-1/12 दिनांक 07.09.2012 के

1	2	3	4	5	6	7
10% ऋण, 2014 (जीपी नोट)	जेपी000011	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	30.05.1983	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	जेएस-1/12 दिनांक 07.09.2012 के
-वही-	जेपी000012	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000013	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000014	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000015	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000016	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000017	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000018	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000019	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-
-वही-	जेपी000020	रु. 1,00,000/-	झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	-वही-	-वही-	-वही-

श्रीकांत हमीने
प्रबंधक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया
नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई/2013--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि काउंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि, इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) और फाइनल की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर भारतीय समयानुसार अपराह्न 2.00 से 5.00 बजे होगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अनुसूची 'जी' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) की परीक्षा (केवल इंस्टीट्यूट के सदस्यों के लिए) भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा में पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं।
इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा :--

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 28-ई (3) के अन्तर्गत है, के प्रावधानों के अनुसार)

ग्रुप-I	3, 5, 7 और 9 मई, 2013
ग्रुप-II	11, 13 और 15 मई, 2013

फाइनल परीक्षा :-- (पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31 (ii) के अन्तर्गत है, के प्रावधानों के अनुसार)

ग्रुप-I	2, 4, 6 और 8 मई, 2013
ग्रुप-II	10, 12, 14 और 16 मई, 2013

इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :--

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 की "अनुसूची जी" के प्रावधानों के अनुसार)

माड्यूल 1 से 4	10, 12, 14 और 16 मई, 2013
----------------	---------------------------

(परीक्षा का समय :--दोपहर 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

परीक्षा केन्द्र :--

(1) (भारत में स्थित) परीक्षा केन्द्र :-- (सभी परीक्षाओं के लिये)

1. आगरा	41. ईरोड	81. मुरादाबाद	121. श्रीगंगानगर
2. अहमदाबाद	42. फरीदाबाद	82. मुम्बई	122. सूरत
3. अहमदनगर	43. गाँधीधाम	83. मुजफ्फरनगर	123. सुरेन्द्रनगर
4. अजमेर	44. गाजियाबाद	84. मापुसा (गोवा)	124. थाने
5. अकोला	45. गोरखपुर	85. मडगांव (गोवा)	125. तिरुवनंतपुरम
6. अलापुजा	46. गुन्डूर	86. मैसूर	126. श्रीसूर
7. अलीगढ़	47. गुडगांव	87. नागपुर	127. तिनसुकिया
8. इलाहाबाद	48. गुवाहाटी	88. नांदेड	128. तिरुचीरापल्ली
9. अलवर	49. ग्वालियर	89. नासिक	129. तिरुपति
10. अम्बाला	50. हिसार	90. नैल्लोर	130. त्रिपुर
11. अमरावती	51. हुबली	91. नोएडा	131. टूटीकोरन
12. अमृतसर	52. हैदराबाद	92. नवसारी	132. उदयपुर
13. आनन्द	53. इंदौर	93. पालघाट	133. उडुपी
14. आसनसोल	54. जबलपुर	94. पाली मारवार	134. उज्जैन
15. औरंगाबाद	55. जयपुर	95. पानीपत	135. वदोदरा
16. बंगलोर	56. जालन्धर	96. पनवेल	136. वापी
17. बरेली	57. जलगांव	97. पटना	137. वाराणसी
18. भटिण्डा	58. जम्मू	98. पटियाला	138. वेल्लौर
19. ब्यावर	59. जामनगर	99. पिम्परी-चिंचवाड़	139. विजयवाड़ा
20. बेलगांव	60. जमशेदपुर	100. पाण्डिचेरी	140. विशाखापटनम्
21. बेल्लारी	61. जोधपुर	101. पूणे	141. यमुना नगर
22. बेरहमपुर	62. जौंद	102. रायपुर	
23. भरूच	63. काकीनाडा	103. राजामहेंद्रवारम	(2) विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :--
24. भावनगर	64. कानपुर	104. राजकोट	केवल इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक
25. भीलवाड़ा	65. करनाल	105. रांची	सक्षमता परीक्षा) एवं फाइनल परीक्षाओं
26. भिवानी	66. किशनगढ़	106. रतलाम	के लिये
27. भोपाल	67. कोल्लम	107. रेवाड़ी	1. आबुधाबी
28. भुवनेश्वर	68. कोल्हापुर	108. रोहतक	2. दुबई
29. भुज	69. कोलकाता	109. राउरकेला	3. काठमांडू
30. बीकानेर	70. कोटा	110. सहारनपुर	4. मस्कट
31. बिलासपुर	71. कोट्टायम	111. सेलम	
32. चंडीगढ़	72. कोझीखोड़	112. सम्बलपुर	
33. चेन्नई	73. कुंभाकोनम	113. सांगली	
34. कोयम्बटूर	74. लातूर	114. सतारा	
35. कटक	75. लखनऊ	115. शिमला	
36. देहरादून	76. लुधियाना	116. सीकर	
37. दिल्ली/नई दिल्ली	77. मदुरई	117. सिलीगुड़ी	
38. धनबाद	78. मंगलोर	118. सिरसा	
39. दुर्ग	79. मथुरा	119. सोलापुर	
40. ईरनाकुलम	80. मेरठ	120. सोनीपत	

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी सूचीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "सचिव" दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में देय होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

इन परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र <http://icaiaexam.icaai.org> पर मुफ्त भर सकते हैं। (अर्थात् इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) एवं फाइनल परीक्षार्थियों के लिये अगर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे गये हो तो 500/- रु. आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जायेगा) अन्यथा निर्देशित फार्म पर जिसकी कॉपी अपर सचिव (परीक्षा) दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से 500/- रु. आवेदन शुल्क के साथ इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) एवं फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षा के लिये आवेदन पत्र 100/- रु. प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नगद भुगतान करने पर 06 फरवरी, 2013 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

परीक्षा आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ किसी भी सूचीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव(परीक्षा) के कार्यालय में 27 फरवरी, 2013 तक पहुंच जाये। विद्यार्थी परीक्षाओं के आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेन्द्रित कार्यालयों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर व पूना में 27 फरवरी, 2013 के बाद 06 मार्च, 2013 तक 500/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 06 मार्च, 2013 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेन्द्रित कार्यालयों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 6 मार्च, 2013 तक विलम्ब शुल्क के साथ स्वयं आकर भी दिया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा लेने की सलाह दी जाती है।

पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा अर्थात् इंस्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षा - इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा के आवेदन पत्र केवल इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन को लोकप्रिय बनाने हेतु, इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) एवं फाइनल परीक्षा के परीक्षार्थी जो कि <http://icaiaexam.icaai.org> पर दिनांक 6 फरवरी, 2013 से 27 फरवरी, 2013 तक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान अपने वीजा अथवा मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा करते हैं, तो उनसे आवेदन पत्र शुल्क 500/- रु. नहीं लिया जायेगा। इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा) एवं फाइनल परीक्षा के परीक्षार्थी 28 फरवरी, 2013 से 6 मार्च, 2013 तक 500/- रु. विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है :--

इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा :--

	शुल्क
दोनों ग्रुपों के लिये/इकाई 9	1600/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिए/इकाई 1 से 8	1000/- रुपये
विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए	350/- यू. एस. डॉलर
काठमाण्डू (नेपाल)	2250/- रुपये भारतीय मुद्रा
फाइनल परीक्षा :--	शुल्क
दोनों ग्रुपों के लिये	2250/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिये	1250/- रुपये
विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए	400/- यू. एस. डॉलर
काठमाण्डू (नेपाल)	3000/- रुपये भारतीय मुद्रा
इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :--	शुल्क
इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.)	1000/- रुपये

दुबई/आबुधाबी/मस्कट परीक्षा केन्द्र से बैठने वाले इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) और फाइनल के परीक्षार्थियों को यू.एस. डॉलर 350 और यू.एस. डॉलर 400 क्रमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या एक ईकाई में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र में बैठने वाले इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय मुद्रा में रुपये 2250/- और रुपये 3000/- क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या एक ईकाई में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता

इण्टरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा प्रदान की जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर केवल अंग्रेजी में ही लिखना है।

जी. सोमाशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. एन-12/2/13/2010-यो. एवं विकास--कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित कर्मचारी राज्य बीमा, (साधारण) विनियम, 1950 में संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि के तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस तिथि को राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, की प्रतियां जन-सामान्य को उपलब्ध करवाई जाती हैं;

1. उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम विचार करेगा।

2. आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हो, श्री बी. के. साहू, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 (ई-मेल:ins-comm.esic@nic.in) को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 में;

1. विनियम 76-ख में, शब्द "5.00 रु. प्रतिदिन" के स्थान पर "10.00 रु. प्रतिदिन" और शब्द "30,000/- रु. के स्थान पर शब्द "60,000/- रु." प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. निम्नलिखित नया विनियम 110 अंतर्निविष्ट किया जाएगा, नामतः--

विनियम 110 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के सूत्रपात की कार्यान्वयन प्रक्रिया--

इन विनियमों में कुछ भी समाविष्ट होने पर जहां भी ऑन लाईन प्रणाली के प्रकार्य को पुरःस्थापित किया गया है अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन कारखाने/स्थापना और कर्मचारियों का पंजीकरण, अंशदान फाइल करना, चलानों को बनाने, अंशदानों का भुगतान, हितलाभ के लिए दावों की प्रस्तुति और प्रक्रमण और संबंधित प्रक्रिया, जहां कहीं भी आवश्यक हो, आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ, जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया हो, विनियमों के अंतर्गत की जाएगी।

बी. के. साहू
बीमा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

चण्डीगढ़-160017, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

सं. सा.आ.एस.ओ. संख्या अ.के.आ./पंजाब एवं हि.प्र./अधिसूचना/ 1(4)/489--जबकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के प्रावधान उनसे संबंधित निम्न स्थापना पर लागू होने चाहिए :-

कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं मंजूरी की दिनांक
पीएन/37160	शौरी-ई-सोल्यूशंस, डी-24, फेस-1, मोहाली	01.04.2009

अतः उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उपर्युक्त स्थापना पर उसके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से लागू करता है।

एस. के. खन्ना
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पं. एवं हि.प्र.)

कोलकाता-700012, दिनांक 16 नवम्बर 2012

सं. 41 यू. 13/12 पीटीएमआर/1/व.रा.चि. आयुक्त/11-12--क.रा.बी. निगम की बैठक दिनांक 25.04.1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क.रा.बी. विनियम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में सन्निहित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू. 13/12/13/2005-चि. 1 पी टी एम आर दिनांक 09.09.2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस. एस. एम. सी./एस. एम. सी. को प्रत्यायोजित की गई है। अद्योहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्याग्रहण नहीं करते, दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है।

डॉ. का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. ए. वार	दिनांक 01.12.2012 से दिनांक 30.11.2013 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक	शिलांग, बिरनीहाट

एस. के. चौधुरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पू.क्षे.)

दिनांक 10 जनवरी 2013

सं. 41 यू. 13/12 पीटीएमआर/1/व.रा.चि. आयुक्त/11-12--क.रा.बी. निगम की बैठक दिनांक 25.04.1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क.रा.बी. विनियम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में सन्निहित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू. 13/12/13/2005-चि. 1 पी टी एम आर दिनांक 09.09.2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस. एस. एम. सी./एस. एम. सी. को प्रत्यायोजित की गई है। अद्योहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्याग्रहण नहीं करते, दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है।

डॉ. का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. विश्वजीत सेन	दिनांक 10.01.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण करने तक	तिनसुकिया (असम)

एस. के. चौधुरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पू.क्षे.)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. ICWA/586/16/2009--विश्व मामलों से सम्बन्धित भारतीय परिषद् अधिनियम 2001 की धारा 15 (1) तथा धारा 7(2)(c), विश्व मामलों से सम्बन्धित भारतीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम 2003 के साथ पठित, के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के तहत गठित परिषद् एतद्वारा श्री राजीव कुमार भाटिया (भारतीय विदेश सेवा-1964), को महानिदेशक, पदेन, सदस्य सचिव जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष है, के रूप में नियुक्त करती है।

राजेश कुमार शर्मा
उप निदेशक, (आई सी डब्ल्यू ए)
एवं अवर सचिव
विदेश मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058

18 दिसम्बर, 2012

सं. 20-12/2010 -के.पं. (मध्य प्रदेश) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो मध्य प्रदेश राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23(3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में मध्य प्रदेश राज्य रजिस्टर में 09.08.2000 से 31.03.2006 तक क्रम संख्या 175902 आयुर्वेद एवं 23549 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 176130 आयुर्वेद एवं 23640 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 09.08.2000 से 31.03.2006 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (मध्य प्रदेश) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को 30 दिन के अन्दर सूचित किया जाए।

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय पंजिका

मध्य प्रदेश

पार्ट-I आयुर्वेद

क्रम सं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय व उत्तीर्ण वर्ष	पंजीकरण संख्या पता व दिनांक
175902	अमय चौबे बी.पी. चौबे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50564 16/06/2008 गाँव व पत्रालय-घोरा, तह0 मल्हारा, जिला-छत्तरपुर
175903	अमय कुमार मिश्रा रामदेव मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50402 03/04/2008 गाँव व पत्रालय-खाण्ड वाया जयसिंह नगर, तह0 सोहागपुर, जिला-शहडोल
175904	अभिषेक चौबे ओम प्रकाश चौबे	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	50534 27/05/2008 एम.आई.जी. 21, राजीव नगर कॉलोनी शिवजी नगर वार्ड, तिल्ली रोड, सागर
175905	अभिषेक जैन प्रकाश चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50557 16/06/2008 द्वारा अनुपम जैन, अनुपम हार्डवेयर, प्रधानपुरा कोतवाली के पीछे, जिला-टिकमगढ़
175906	अजय कुमार जैन आनंद कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50536 29/05/2008 वार्ड नं. 7, मेन रोड, शाहपुरा भितोनी, जिला-जबलपुर
175907	अजय परमार मोलाराम परमार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50468 17/04/2008 13, मार्केट मोहल्ला, छावनी अगर, मालवा, जिला-शजापुर
175908	अजीत कुमार देवेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2006	50719 01/08/2008 गाँव-लोकीपार, पत्रालय-सिंधपुर जिला
175909	आकांक्षा खरे रोहित रंजन खरे	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50628 09/07/2008 श्री बलदेव प्रसाद खरे कांति निकेतन महालो, नजरबाग, छत्तरपुर

175910	आलोक कुमार सुशील कुमार	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50611 07/07/2008	103, गजानन अपार्टमेंट शेख की बगिया, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर
175911	आलोक श्रीवास्तव महेश चन्द्र श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50586 30/06/2008	वैद्यों वाली गली, राजगढ़ फाटक, जिला-दातिया
175912	अमित गुप्ता अयोध्या प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50584 30/06/2008	मकान नं. 31, गुप्ता फ्लोर मिल सूबेदार कॉलोनी, तिला जमालपुरा, भोपाल
175913	अमित त्रिपाठी आर.सी. त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50680 22/07/2008	कपास मिल, हस्पतालपुर जिला
175914	आनंद भद्रावत भुवन प्रसाद भद्रावत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50674 22/07/2008	द्वारा आर.आर. जाख पुलिस लाइन, बानगंगा रोड, जिला-शहडोल
175915	आनंद कुमार धंदोरिया जगदीश प्रसाद धंदोरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50553 16/06/2008	मोहल्ला करोंदीपुर भांडर, जिला-दातिया
175916	आनंद राहुल जगन्नाथ चौहान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50653 09/07/2008	38, इन्दिरा कॉलोनी, रेलवे फाटक के पास, रतलाम
175917	आंचल कुमार गुप्ता कमलेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50424 03/04/2008	गाँव व पत्रालय-पलोहा बारा, तह0 गदरवारा, नरसिंहपुर
175918	अनिल कुमार जैन रूप चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2005	50723 06/02/2009	स्वराज ट्रेडर्स मेन रोड तेंदुखेरा, जिला-दमोह
175919	अर्चना जैन मगनलाल जैन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., रज्जैन 2008	50706 30/07/2008	एच./3, बागी कॉलोनी, कम सं. 1, गोटेगांव, श्रीधाम जिला

175920	अर्चना प्रजापति बी.एन. प्रजापति	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50626	54, राघवेंद्र नगर, समीप खितौली कोठी, जिला-शिवपुरी	09/07/2008
175921	अर्चना सिंह प्रेम सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50400	शिवम कॉलोनी, बालपुरवा, बंगंगा रोड, मकान नं० 601, वार्ड नं० 32 शहडोल	03/04/2008
175922	अरुण कुमार जैन देवेन्द्र कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2007	50663	अमय ऑटो पार्ट्स राजवंस, जिला सागर	21/07/2008
175923	अरुण कुमार रवि बी.एल.रवि	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50569	रवि सदन, गली नं. 5, उमरी, जिला-सतना	16/06/2008
175924	अरुण कुमार यादव बी.जे. यादव	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50613	द्वारा विकास निगम, 200 शारदा विहार कॉलोनी सिटी सेंटर, ग्वालियर	07/07/2008
175925	अरुण वाघेश्वर हरिशंकर वाघेश्वर	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50700	रोहन वकील के पास, केशवगंज वार्ड, जिला-सागर	30/07/2008
175926	अरविंद कुमार साहू श्रीराम साहू	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50566	ओरछा रोड, पृथ्वीपुर, जिला-टिकमगढ़	16/06/2008
175927	अरविंद कुमार त्रिपाठी अवध नारायण	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50555	96, नई आबादी गली नं० 1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे	16/06/2008
175928	आशा यादव कुबेर सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50620	श्री श्याम सिंह किरार कॉलोनी कम्प्यू, लश्कर, ग्वालियर	07/07/2008
175929	आशीष जैन अशोक कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2007	50521	जैन मंदिर के पास, नेहा नगर मकरोनिया, जिला-सागर	22/05/2008

175930	आशीष जैन हेम चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50676 22/07/2008	जी. 3/568, गुलमोहर कॉलोनी भोपाल
175931	आशीष कुमार शर्मा जगदीश प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50476 17/04/2008	क्वार्टर नं. एच.3, तावा कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद
175932	आशीष कुमार सिंह चेतनाथ सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50478 17/04/2008	डी. 73, न्यू मिनाल रेजीडेन्सी भोपाल
175933	अश्विनी तांडले सुरेश तांडले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50587 30/06/2008	गॉव व पत्रालय-भरवेली, जिला-बालाघाट
175934	अतुल उपाध्याय राजेन्द्र नाथ उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2007	50662 21/07/2008	शांति विहार कॉलोनी राजाखेरी मकरोनिया, जिला-सागर
175935	अविनाश कुमार खरे राम कुमार खरे	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50558 16/06/2008	6/32, कंचनपुरा, स्टेट बैंक के पास, निवाडी, जिला-टिकमगढ़
175936	अविनाश पाटिल मोहन पाटिल	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	50505 03/05/2008	गॉव-माण्डवाडा, तहसील-थीकरी, जिला-बाडवानी
175937	भंवर सिंह कालें राधेश्याम कालें	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50581 30/06/2008	गॉव-मालजीपुरा, पत्रालय-कलवार, तह0 कन्नोड, जिला-देवास
175938	भावना निगवान जग सिंह निगवान	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50708 30/07/2008	14, जवाहर मार्ग, गर्वमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने, जिला-अलीराजपुर
175939	भोजराज पाटीदार घनश्याम पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50572 30/06/2008	गॉव व पत्रालय-पिल्वास, तह0 नलखेडा, जिला-शाजापुर

175940	मूपेन्द्र मणि त्रिपाठी राम प्रसाद त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50435	1/38, महेश नगर, पत्रालय-राजमोहल्ला, जिला-इन्दौर	10/04/2008
175941	मूपेन्द्र सिंह भदोरिया यदुनाथ सिंह भदोरिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50616	ग्राइवेट बस स्टैण्ड के पास, शिवजी नगर, अम्बो, ग्वालियर	07/07/2008
175942	मूपेश घोरमारे शिवचरण घोरमारे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50561	गाँव व पत्रालय-सदरा तहसील लांजी, जिला-बालाघाट	16/06/2008
175943	चन्द्र भान सिंह ठाकुर दशरथ सिंह ठाकुर	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50702	मकान नं. 26, वार्ड नं. 6, सागर कानपुर रोड, पेट्रोल पम्प के पास, बांदा बेलई, सागर	30/07/2008
175944	चन्द्र शेखर जपाले खुश्याल जपाले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50655	छत्रवास के सामने, हॉस्पिटल रोड, उन जिला-खरगोन	09/07/2008
175945	छाया लक्षर प्रदीप लक्षर	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50709	25/574, जवाहर कॉलोनी पुरानी, जिला-शिवपुरी	30/07/2008
175946	दीपक सिंह तोमर कैलाश सिंह तोमर	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50692	सी. 595, आनंद नगर, जिला-ग्वालियर	30/07/2008
175947	दीपशिखा सिंह यादवेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50707	चाणक्यपुरी कॉलोनी, गली नं. 3, पी.एस.आर.टी.सी. डिपो के पीछे, जिला-सतना	30/07/2008
175948	देवेन्द्र कुमार गुरुदयाल	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1992	50721	श्री प्रताप वैद्य एडवोकेट, गाँव व पत्रालय-नूना, तह0 लिंघोरा, जिला-टिकमगढ़	24/12/2008
175949	देवश्री येवलेकर चंद्रकांत येवलेकर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50471	ए 15/2, ई.डब्ल्यू.एस., विक्रम स्कूल के पास, ऋषि नगर, उज्जैन	17/04/2008

175950	धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता धर्मदास गुप्ता	बी.ए.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 2004	50539	बस स्टैण्ड के पास, पृथ्वीपुर, जिला—टिकमगढ़	29/05/2008
175951	धीरज कुमार प्रजापति भगवान दास प्रजापति	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50422	तप्ती बाबा की गुफा, नाला नं. 2, सब्जी मण्डी के पास, मुरैना	03/04/2008
175952	दिनेश बैरवा छोटे लाल पाठक	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50695	212 ए वीना नगर, जिला—इन्दौर	30/07/2008
175953	दीपेन्द्र कुमार बाथम अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50612	मौहल्ला गोलंदाज, बाबा कपूर, जिला—ग्वालियर	07/07/2008
175954	दीपिका अपोरिया राजाराम अपोरिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50684	29, द्वारिकाधीश कॉलोनी, गांधी रोड, ठाठीपुर, जिला—ग्वालियर	30/07/2008
175955	दीपिका जैन अमर चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50588	जैन मंदिर के पास, बरेली, जिला—रायसैन	30/06/2008
175956	दीपशिखा नाहर अशोक नाहर	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50579	125, पिपलरावा तहसील सोनकच्छ, जिला—देवास	30/06/2008
175957	गजेन्द्र प्रसाद शिववंशी डी.पी. शिववंशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2007	50522	पी. 3/2, ऑफिसर क्वार्टर, सी.क्यू.ए. (ओ.एफ.वी.), सेक्टर-1, वेहीकल फैंक्टरी स्टेट, जिला—जबलपुर	22/05/2008
175958	गंगा प्रसाद रजक काशीराम रजक	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50652	छोटी बजारिया, गणेश वार्ड बीना, जिला—सागर	09/07/2008
175959	गिरेन्द्र पवार तूरनसिंह पवार	बी.ए.एम.एस. अमरावती वि.वि., अमरावती 1996	50722	संजीवनी क्लीनिक, तुमसर रोड, गाँव, पत्रालय एवं तह0 कटंगी, जिला—बालाघाट	05/02/2009

175960	गिरिश नारायण पाण्डे ब्रिन्द किशोर पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2003	50601 07/07/2008	एल.आई.जी. 93, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इंगोरिया रोड, नगदा जंक्शन, उज्जैन
175961	गोपाल कृष्ण धाकर दामोदर प्रसाद वर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50559 16/06/2008	गोंधी पेट्रोल पम्प के सामने, कृष्णपुरम कॉलोनी, जिला-शिवपुरी
175962	गोविंद कुमार राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50713 30/07/2008	7/55, महावीर मार्ग, वार्ड सिरीयल नं. 7, काला पत्थर, मात्सी, राजापुर
175963	हरिन्द्र कुमार प्रजापति सकल प्रसाद प्रजापति	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2004	50532 27/05/2008	पत्रालय रविनगर कालरी, झीमर पावस्थर तह0 कोटमा, अनूपपुर
175964	हिना खाम्बरा भगवान दास खाम्बरा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50646 09/07/2008	121, आनंद नगर, रायसेन रोड, जिला-भोपाल
175965	हिना वेद शरद वेद	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50638 09/07/2008	3, छाया नगर, लक्ष्मी नगर के सामने, जिला-उज्जैन
175966	हेमंत मालवीय गंगाराम मालवीय	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50701 30/07/2008	ए 2, तृप्ति विहार, इन्जिनियरिंग कॉलेज के पास, इन्दौर रोड, जिला-उज्जैन
175967	हिरेन्द्र कुमार साहू श्यामलाल साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50651 09/07/2008	गोंव व पत्रालय-बर्मन, तह0 करेली जिला
175968	इन्दिरा शुक्ला जय कुमार शुक्ला	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50668 22/07/2008	द्वारा विनय ड्रग्स हाउस, गोंव व पत्रालय-गंगेव, जिला-रीवा
175969	जय ढाण्डे नारायण ढाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50645 09/07/2008	एल.आई.जी. II 1 बी., सेक्टर सोंगिरि, रायसेन रोड, भोपाल

175970	जयप्रदा वर्मा पी.सी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50619 07/07/2008	15 बी., शकुन्तला दर्पण कॉलोनी थाटीपुर, ग्वालियर
175971	जयश्री सराफ बलराम सराफ	बी.ए.एम.एस. वरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2008	50594 30/06/2008	बालाजी इन्टरप्राइजेज श्रीराम मंदिर मार्केट, हाता, जिला-दमोह
175972	जितेन्द्र कुमार मांझी इन्द्रपाल मांझी	बी.ए.एम.एस. वरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2008	50678 22/07/2008	क्वार्टर नं. सी./106, जमुना कालरी, पत्रालय-जमुना कालरी, जिला-अनूपपुर
175973	जितेन्द्र राव दिनेश चन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50511 19/05/2008	गाँव व पत्रालय-खंचरोड, तह0 बदनावर, जिला-धार
175974	जितेंद्र सोलंकी जगन्नाथ सोलंकी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50682 30/07/2008	गाँव-खांकरी सुल्तान, पत्रालय-इटवा, तह0 तराना, जिला-उज्जैन
175975	ज्योति सिमोलिया एम.एस. सिमोलिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50622 09/07/2008	370, सुरेश नगर, थाटीपुर मुरार, जिला-ग्वालियर
175976	कमलेश धनोतिया जगदीश चन्द्र धनोतिया	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50582 30/06/2008	मेन रोड, राम मंदिर के पास, शामगढ़, जिला-मंदसौर
175977	कमलेश गुप्ता मन्नालाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50603 07/07/2008	मकान नं. 2, बांदिल मेडिकल के पास, बूढ़ा बाजार शनिचरी मोहल्ला, जिला-दातिया
175978	कामता प्रसाद नगरिया प्रमोद कुमार नगरिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50632 09/07/2008	हरिहर रोड, हरपालपुर, जिला-छत्रपुर
175979	कपिल कांत गुप्ता ओम प्रकाश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50563 16/06/2008	120/4, खालका पुरा मुदियान का कुँआ, द्वोइया का पाथला, दातिया

175980	कविता त्रिपाठी जे.पी. त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50600 02/07/2008	506, शिवम् सुन्दरम् नगर, सर्कुलर रोड, जिला
175981	कोशल कुमार यादव भागवत प्रसाद यादव	बी.ए.एम.एस. छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि., कानपुर 1999	50507 03/05/2008	चाकघाट बोर्डर रोड, वार्ड नं. 8, मकान नं. 12, जिला-रीवा
175982	कृपाशंकर शर्मा नरोत्तम शर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50635 09/07/2008	एल.आई.जी. II/131, इन्दिरा नगर अगर रोड, जिला-उज्जैन
175983	कृष्ण नारायण गुप्ता रामेश्वर दयाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50686 30/07/2008	31/3, सरस्वती नगर, आलमपुर भिण्ड
175984	लवित सैम्सन ए.एन. सैम्सन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2004	50523 22/05/2008	25, साकेत नगर, बी.एन.पी. रोड, जिला-देवास
175985	लक्ष्मी मिश्रा ओम प्रकाश मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 1996	50724 10/02/2009	शोभापुर रेलवे फाटक के पास, कंचनपुर, अछारतल, जबलपुर
175986	लोकेन्द्र सिंह नरवारिया नेकराम सिंह	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50688 30/07/2008	नारायण विहार कॉलोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर
175987	मदन लाल पाटीदार बद्री लाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50470 17/04/2008	गाँव खजूरी, तह0 मानसा, जिला-नीमच
175988	मदन मोहन सिंह कुशवाहा धनपति प्रसाद कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50675 22/07/2008	गाँव-मिटोहा, पत्रालय-बरहुला पाटेहरा, जिला-रीवा
175989	महेन्द्र कौशल जगदीश चन्द्र कौशल	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50583 30/06/2008	एम0आई0जी0आई0एच0 11, अनंतशुभ मंगलीक के पीछे, अमेता एस.टी.डी. के सामने, इन्दिरानगर, परिसर, उज्जैन

175990	मानक ध्रुवे गज्जा सिंह ध्रुवे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50497	गोंव व पत्रालय-कैसिया, तह0 शाहपुर, जिला-बैतूल	26/04/2008
175991	मंदीप सिंह माण्डलोई रामचरण सिंह माण्डलोई	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50636	माहरगढ़, जिला-मंदसौर	09/07/2008
175992	मनीष कुमार चौहान गणेश राम चौहान	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50570	न्यास कॉलोनी, शारदा मंदिर के पास, जिला-होशंगाबाद	16/06/2008
175993	मनीष कुमार राय बिमल कुमार राय	बी.ए.एम.एस. विनोबा भावे वि.वि., हजारीबाग 2004	50529	आशालता भवन, कोतवाली रोड, जिला-टिकमगढ़	22/05/2008
175994	मनीष पाटीदार हीरालाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2006	50525	गोंव व पत्रालय-दंशवाज्या, निसारपुर, तह0 कुशी, जिला-धार	22/05/2008
175995	मंजु चौक्से संतराम चौक्से	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50568	बी./7, सकरोदय कॉम्प्लेक्स, तुलसी नगर, जबलपुर	16/06/2008
175996	मनोज विश्वकर्मा राम चन्द्र विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50703	185, श्रीराम कॉलोनी, दाल मिल नागदा के पास, जिला-उज्जैन	30/07/2008
175997	मस्तराम धाकड़ बलराम धाकड़	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50610	गोंव-मरोरा खालसा, पत्रालय-दुल्हारा, तह0 पोहारी, जिला-शिवपुरी	07/07/2008
175998	मेघा ठाकुर सी.एस. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50420	130, जवाहर नगर, राजेन्द्र नगर के पास, कैन्ट रोड, जिला-इन्दौर	03/04/2008
175999	मीनाक्षी गोस्वामी के.बी. गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50629	308, 1-12, डी. परिकल्प टैरेस, गांधी नगर, जिला-ग्वालियर	09/07/2008

176000	मिथिलेश चौरसिया मल्खान चौरसिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50597 02/07/2008	238, शुभम कॉलोनी एस.पी.बंगलों के पीछे, खान कॉलोनी, छिनड़वारा
176001	मिथिलेश जैन शरद जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बैंगलोर 2007	50660 21/07/2008	रचना मेडिकल स्टोर्स मेन रोड, नेहा नगर, मकरोनिया, जिला—सागर
176002	मौहम्मद अरशाद मौहम्मद सलीम	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50697 30/07/2008	घस्सु मंशी मस्जिद के पास, लाल अटारी के पीछे, शुक्रवारी टोनरी, जिला—सागर
176003	मुकेश चन्द्र जायसवाल मोहनलाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50630 09/07/2008	चौइस इलैक्ट्रॉनिक्स, मंगल नगर, धमनोड, तह0 धर्मपुरी, जिला—धार
176004	मुकेश कुमार ताम्रकार छेकोरी लाल ताम्रकार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50677 22/07/2008	बारा रोड, वंदा बेलई, जिला—सागर
176005	नम्रता विजय विजय श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2007	50504 03/05/2008	ई5/25, हबीबगंज, पुलिस स्टेशन के पास, अरेश कॉलोनी, ग्लोबल हॉस्पिटल, भोपाल
176006	नम्रतीता झंझोट एस.के. झंझोट	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50683 30/07/2008	शिवम् सुंदरम् कॉलोनी पी.जी. कॉलेज रोड, जिला
176007	नरेन्द्र द्विवेदी अच्छेलाल द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	50545 06/06/2008	जय स्तम्भ के पास, अजयगढ़, जिला—पन्ना
176008	नरेन्द्र नाथ मिश्रा ब्रिजेन्द्र नाथ मिश्रा	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	50664 22/07/2008	ट्रांसपोर्ट नगर, निर्मल मोटर्स के पीछे, पाधरा, जिला—रीवा
176009	नरेश समनानी किशन चन्द्र समनानी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50689 30/07/2008	रवि भवन, जगताप की गोठ माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर

176010	नवीन सिंघल विशन दयाल सिंघल	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50615 07/07/2008	द्वारा श्री महेन्द्र सिंह, 300 तानसेन नगर जिला-ग्वालियर
176011	नीरज गुप्ता राकेश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50537 29/05/2008	द्वारा अवधेश गुप्ता, 402, नोर्थ सिविल लाइन बयोहार बाघ, हॉस्पिटल, जबलपुर
176012	नीरज पाण्डे रामजीलाल पाण्डे	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50633 09/07/2008	रघुसदन महेन्द्रनगर, नवादा बाग, अटेर रोड, जिला-भिंड
176013	नीता चौरसिया तीरथ प्रसाद चौरसिया	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50640 09/07/2008	नया शास्त्री नगर, साउथ सेक्टर मेडिकल कॉलेज के पास, नागपुर रोड, जबलपुर
176014	निधि ध्रुवे अशोक कुमार ध्रुवे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50501 03/05/2008	जय प्रकाश वार्ड, लखनदोन, जिला-सिवनी
176015	निहारिका सिंह सुरेन्द्र प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50509 19/05/2008	आर. 11, ए. सारिका नगर, दर्पण कॉलोनी थाथीपुर, ग्वालियर
176016	नीलिमा सिंह अर्जुन सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50669 22/07/2008	भरत सिंह, 184, नेहरू कॉलोनी, स्टेशन रोड, जिला-सिहोर
176017	निशि ठाकुर जी.एस. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50538 29/05/2008	जी. 7, नया वारगी हिल्स, जबलपुर
176018	नितिन संधाई लतेश चन्द्र संधाई	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50604 07/07/2008	सिंधाई एण्ड कम्पनी 22, नई सड़क सारंगपुर, जिला-राजगढ़
176019	नितिन उज्जालिया मेरुलाल उज्जालिया	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50403 03/04/2008	उज्जालिया निवास, अम्बिका नगर शुजालपुर मण्डी, जिला-शजापुर

176020	निवेदिता पाटीदार राधेश्याम पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50474 17/04/2008	साई कॉलोनी, पल्सुद, तह0 राजपुर, जिला-बडवानी
176021	पारस नाथ पाठक रजीतराम पाठक	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 1995	50542 03/06/2008	गाँव-देवसार, पत्रालय-जियावन, जिला-सिधौ
176022	प्रभा शर्मा कामता प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50617 07/07/2008	41, गायत्री विहार कॉलोनी ठाथीपुर, मुरुर, ग्वालियर
176023	प्रभात कुमार तिवारी मानसरोवर तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50657 09/07/2008	एफ. 2, श्रीराम कॉलोनी होशंगाबाद रोड, भोपाल
176024	प्रदीप कुमार मधुर तोमर लाल मधुर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50467 17/04/2008	गाँव व पत्रालय-पितरवा, तह0 सोनकच, जिला-देवास
176025	प्रज्ञा पाठक सुयोग पाठक	बी.ए.एम.एस. नागपुर वि.वि., नागपुर 2000	50659 17/07/2008	476, गली नं. 15, शांति नगर, दमोह नाका, जिला-जबलपुर
176026	प्रशान्त पंधारी नाथ गुप्ता पंधारी नाथ गुप्ता	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	50658 09/07/2008	73, मौलाना आजाद मार्ग हाससिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला-बडवानी
176027	प्रवीण कुमार चिरगैया राम दयाल चिरगैया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50631 09/07/2008	ए. 17, अशोक विहार कॉलोनी, तानसेन रोड, जिला-ग्वालियर
176028	प्रेम नारायण बिंदुवा राजाराम बिंदुवा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50696 30/07/2008	गाँव व पत्रालय-अंगोर, जिला
176029	प्रेम सिंह राठौड़ रामबीर सिंह राठौड़	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50432 10/04/2008	चार शहर का नाका, समीप महाराजा मानसिंह कॉलेज, हजीरा, जिला-ग्वालियर

176030	प्रीति पारधी खूखचंद पारधी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50650 09/07/2008	नर्मदा नगर, वार्ड नं. 32, जिला-बालाघाट
176031	प्रियंका चौहान गोविंद कुमार चौहान	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50725 22/02/2009	242, महेश्वेता नगर, जिला-उज्जैन
176032	पुष्पेन्द्र कुमार दीक्षित बाबूलाल दीक्षित	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50421 03/04/2008	88-89, सेक्टर नं. 1, बेसिक स्कूल के पास, नया हरसूद, खाण्डवा
176033	पुष्पराज तिवारी शिवकुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2006	50711 30/07/2008	गोंव व पत्रालय-बरहुला, जिला-रीवा
176034	रचना बुंकर भेरूलाल बुंकर	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50404 03/04/2008	ई. 3, लक्ष्मी निवास, मॉडल टाउन आइसक्रीम फैक्टरी के सामने, देवास रोड, जिला-उज्जैन
176035	रचना जादौन एच.एस.जादौन	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50625 09/07/2008	राम नगर, गली नं. 3, नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर
176036	रचना मधुकर सुमतीलाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50401 03/04/2008	द्वारा दिलीप कुमार केशानिया म.नं. 32, पंजाब कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, जिला-खाण्डवा
176037	रईस खान गफूर खान	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50475 17/04/2008	टैम्पो स्टैण्ड, गोंव व पत्रालय-झोंकर, जिला-राजापुर
176038	रागिनी कोरी टीकाराम कोरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50710 30/07/2008	18 नं. बीडी वाले काकागंज, जिला-सागर
176039	राहुल चौधरी एन.डी. चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50498 26/04/2008	टी. 4, निशान टॉवर पंजाबी बाग, भोपाल

176040	राहुल जैन पी.सी. जैन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50469 17/04/2008	25, लिंक रोड, गोती नगर वार्ड, जिला-सागर
176041	राजेन्द्र कुमार मूलचंद	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2007	50506 03/05/2008	ककुनपुरा, पत्रालय-केथीकर, थाना हरपालपुर, जिला-छत्तपुर
176042	राजेन्द्र कुमार चन्द्रावत एन.एल. चन्द्रावत	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50609 07/07/2008	एन. 42, हनुमान चौक, गोंव-खबासा, तह0 थंडला, जिला-झुबुआ
176043	राजेन्द्र सिंह राजपूत विजय सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50690 30/07/2008	गोंव व पत्रालय-बरुआ, मोतीझील, जिला-ग्वालियर
176044	राजेश कुमार जाठी रमेश चन्द्र जाठी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50672 22/07/2008	311, अमरकुंज कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, शिक्षक नगर, इन्दौर
176045	राजेश कुमार निरंजन लल्लू राम निरंजन	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50562 16/06/2008	श्री शंकर सिंह पटेल सोदा का कुँआ किला गेट, लोहा मण्डी, जिला- ग्वालियर
176046	राजेश कुमार साहू के.एन. साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50585 30/06/2008	रेस्ट हाउस रोड, रूडियाह, जिला-गुना
176047	राजेश सिंह पटेल नारायण सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50598 02/07/2008	शिवाजी कॉलोनी, नाहर गदईपुरा, बिड़ला, जिला-ग्वालियर
176048	राजेशपाल सिंह चंदरैया काशी प्रसाद चंदरैया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50479 17/04/2008	एम.जी. 08, नेहरू नगर पुलिस लाइन, भोपाल
176049	राजीव धाकर बालकिशन धाकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50671 22/07/2008	वार्ड नं. 11, मकान नं. 168, पटेल नगर, जिला- रायसेन

176050	रजनीश चंसोरिया जय नारायण चंसोरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50423	ई.8. 391, त्रिलोचन नगर, त्रिलंगा, भोपाल
176051	राकेश कुमार जायसवाल पूरनलाल जायसवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50712	गॉव व पत्रालय-छिहारी, तह0 भानपुर, जिला-उमरिया
176052	राकेश कुमार राठौड़, रामेशवर राठौड़	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2006	50580	खाकी बाघ, खेरी मोहल्ला नाहरगढ़, सीतामच, मंदसौर
176053	राकेश कुमार शुक्ला छोटेलाल शुक्ला	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2004	50429	श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला, आई.टी.आई. के पीछे, सुंदर नगर बाड़ा बाग पत्रालय, इजीनियरिंग कॉलेज, रीवा
176054	राम मोहन रघुवंशी राघवलाल रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2006	50541	क्वार्टर नं. 61, पुलिस कॉलोनी के पीछे, थाना तहसील बरेली, जिला-रायसेन
176055	रमाशंकर मांझी गदालाल मांझी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50687	नजीर की बगिया, सेवधा, जिला-दतिया
176056	रमित गुप्ता रमेश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50433	विदिशा रोड, दाल मिल के पास, बैरसूया, जिला-भोपाल
176057	रानी राठौड़ रमेश राठौड़	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2006	50560	जे. 101, मार्गव कालोनी, रेलवे लाइन के पास, जिला-गुना
176058	रश्मि झा एल.पी. झा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50685	बी. 10, सूर्य नगर, शब्द, प्रताप आश्रम, ग्वालियर
176059	रत्नेश पटेल श्रीराम निवास पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50656	92, स्नेह नगर, होशंगाबाद रोड, मिश्रोद रेलवे स्टेशन, भोपाल

176060	रविकांत चौड़े नेवालाल चौड़े	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50694	मकान नं. 446, वार्ड नं. 26, पटेल कॉलोनी, अरुण फैशन मेकर के पास, जिला	30/07/2008
176061	रविन्द्र सिंह चौहान शिवराम चौहान	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50691	गॉव व पत्रालय-तलकपुरा, तह0 सेगोंव, जिला-खारगोन	30/07/2008
176062	रविशंकर शुक्ला रामबाबू शुक्ला	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50634	एल.आई.जी. II / 131, इन्दिरा नगर, अगर रोड, जिला-उज्जैन	09/07/2008
176063	रेणुका बासुदेव दलवाय बासुदेव संगप्पा दलवाय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2006	50527	श्री उमेश शंकर मतलावर, फ्लैट नं. 131, वैष्णव डी. सुरेन्द्र पैलेस, भोपाल	22/05/2008
176064	ऋचा नौगराड्या भगवान दास नौगराड्या	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50593	डिसलरी रोड, मौनी मंदिर नौगांव, जिला	30/06/2008
176065	ऋतु राघव यू.एस. राघव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50648	ब्लॉक नं. 2, क्वार्टर नं. 15, नई पी.टी.सी. कॉलोनी, एम.एल.बी. स्कूल के पास, गोपालगंज, सागर	09/07/2008
176066	रितुजा सरोदे स्वयं प्रकाश सरोदे	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50554	बी.-114, आकृति गॉर्डन, नेहरू नगर, भोपाल	16/06/2008
176067	रियंका अग्रवाल ब्रिज किशोर अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50510	श्री परमलाल अग्रवाल (स्वतंत्रता सेनानी), गल्ला मण्डी, जिला-छत्तरपुर	19/05/2008
176068	रियाज अली सईद हसन अली सईद	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50699	रेस्ट हाउस के पास, नया पुरा गोगव, जिला-खारगोन	30/07/2008
176069	संदीप कुमार अहीरवाल बेनी प्रसाद अहीरवाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50670	एम. 39, स्टर्लींग कैसन्स अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल	22/07/2008

176070	संदीप कुमार सोनी नरेन्द्र कुमार सोनी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50500 03/05/2008	एन. एच. 26, नया बस स्टैण्ड, पुलिस स्टेशन के सामने, गौर झामर, जिला-सागर
176071	संदीप वर्मा दीनदयाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50698 30/07/2008	गाँव-हरनावदा, पत्रालय-टोंक खुर्द, जिला-देवास
176072	संगीता अल्वा के.आर. अल्वा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50637 09/07/2008	एम.आई.जी. बी./6, बसंत विहार, इन्दौर रोड, जिला-उज्जैन
176073	संगीता पाटीदार मायाराम पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50473 17/04/2008	54, विश्वसाखा कॉलोनी बिस्तान रोड, सीता मंगल भवन के पास, खारगोन
176074	संजना सिंहोसे काशीराम सिंहोसे	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50552 16/06/2008	मकान नं. 1969, गुप्तेश्वर वार्ड, महनदा गुरु तैग बहादुर खालसा कॉलेज, जबलपुर
176075	संजीव त्यागी आशाराम त्यागी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50431 10/04/2008	बस स्टैण्ड रोड, जिला-भिण्ड
176076	सपना मिश्रा कमलकांत मिश्रा	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2006	50482 17/04/2008	गाँव-चोरा वाया चकघाट पत्रालय चोरा, जिला-रीवा
176077	सपना वर्मा डी.एल. वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50592 30/06/2008	एच. 77/5, इंगल कॉलोनी, जिला-राजगढ़
176078	सरिता सिकरवार नवाब सिंह सिकरवार	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50624 09/07/2008	पानी की टंकी जोरा के पास, जिला-मुरैना
176079	सरिता ठाकरे दीनदयाल ठाकरे	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2006	50481 17.04.2008	रमेश कुमार ठाकरे, गाँव मांगेदरी, पत्रालय-मेडकी, तह0 बारासिक्नी, बालाघाट

176080	सविता पटेल भागवतदीन कुर्मी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50565 16/06/2008	क्वार्टर नं. एन.सी. 32, एम.पी.पी.जी.सी.एल. कॉलोनी, छछाय, अनूपपुर
176081	सीमा आर्या हरप्रसाद आर्या	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50419 03/04/2008	आनंद नगर, बिरला नगर, जिला-ग्वालियर
176082	बाना शोख कल्लू खान शोख	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50419 03/04/2008	3/16, जी.आर.पी. पुलिस लाइन, बिछोली रोड, बिजली नगर के पास, जिला-इन्दौर
176083	शैलेन्द्र सिंह माण्डलोई जगदेव सिंह माण्डलोई	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50705 30/07/2008	ब्लॉक कालोनी, साईगांव, जिला-खारगोन
176084	शैली दीनदयाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50666 22/07/2008	बी.-9, प्रियदर्शिनी निलायम तिलक नगर, ई. 8, एक्सटेंशन, भरत नगर, भोपाल
176085	शाईस्ता हसन सईद सिद्दीकुल हसन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2003	50556 16/06/2008	54, लोक मान्य नगर, जिला-इन्दौर
176086	शांति कुमार वशिष्ठ देवीदयाल वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 1968	50508 19/05/2008	गाँव व पत्रालय-मल्हान, वादा, जिला-होशंगाबाद
176087	शरीफ खान बहादुर खान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50649 09/07/2008	रेलवे पम्प हाउस बिना नाड़ी बिना कढानी, करजा तहसील बीना, सागर
176088	शशिकांत मौर्या आर.बी.मौर्या	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50704 30/07/2008	46, सेक्टर बी., अन्नपूर्णा नगर, इन्दौर
176089	शीतल गुप्ता सुभाष चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50426 03/04/2008	नई ऑफिसर कॉलोनी, चमेली की बाघी, जिला-खारगोन

176090	शीतल जैन सुरेश कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50425 03/04/2008	36, आनन्द टैक्सटाइल, रतिलास स्टोर्स के सामने, चौक बाजार, जिला—बुरहानपुर
176091	शिखा अग्रवाल आर.के. अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50618 07/07/2008	3/99, कृष्णा मवन, राजघाट कॉलोनी, जिला—दातिया
176092	शिखा करखुर अनूप कुमार करखुर	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50621 07/07/2008	छत्री नगर, वार्ड नं. 5, फाटक बहार, जिला—मुरैना
176093	शिव कुमार साहू निर्मल कुमार साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50654 09/07/2008	रातौड़ मार्ग, कृष्ण कुटीर, बालागंज, जिला—होशंगाबाद
176094	श्रेनिक जैन पी.सी. जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलोर 2007	50661 21/07/2008	1473, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, जिला—सागर
176095	श्रीकृष्ण सिंह कुशवाहा रामगोपाल सिंह कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50551 16/06/2008	एम.एस. रोड, प्रेम नगर, जोराखुर्द, जिला—मुरैना
176096	शुचिता सिंह बी.एस. गौड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50647 09/07/2008	शिवालय 14 बी., अनुपम नगर, यूनिवर्सिटी रोड, जिला—ग्वालियर
176097	शुक्लादास गंगा नारायण दास	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलोर 2004	50528 22/05/2008	आर.सी. कॉम्प्लेक्स, एच. नं. 308, दमोह नाका, परिजात बिल्डिंग, जिला—जबलपुर
176098	श्वेता दीवान करण अहीरवार	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50567 16/06/2008	जूनियर एच.आइ.जी., 66 ए/10, धनवंतरि नगर मेडिकल कॉलेज, गदघा, जबलपुर
176099	श्वेता शर्मा शशांक शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50596 02/07/2008	द्वारा के.एम. उपाध्याय, मेन रोड, लालबर्सा, जिला—बालाघाट

176100	श्वेता थापक कमलाकांत थापक	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50714 30/07/2008	बस स्टैण्ड के पास, मोहल्ला-बैनीसागर, जिला-पन्ना
176101	स्मिता गुप्ता शिवराम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50627 09/07/2008	राईस एण्ड दाल मिल, जवाहर गंज डाबड़ा, जिला-ग्वालियर
176102	सूजा नैथ्यर ए.डी. राजगोपालन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50667 22/07/2008	राज निवास, एच. 24 ए., सेक्टर सोनागिरि, भोपाल
176103	सुलोचना अर्से पारसराम अर्से	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50715 30/07/2008	गॉव-जलगाँव, पत्रालय-तालकपुरा, तह0 सेगाँव, जिला-खारगोन
176104	सुमी जैन मनोज कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50589 30/06/2008	ए. 56, पदमनाभ नगर, सुभाष फाटक के पास, भोपाल
176105	सुनिल कुमार वर्मा देवकी नंदन वर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50693 30/07/2008	हरपालपुर थाना के पीछे, जिला
176106	सुनिता रघुवंशी आर.एस. रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50591 30/06/2008	श्रीकृष्ण कॉलोनी, मकान नं. 123, जिला-विदिशा
176107	सुरेन्द्र कुमार अहीरवार राम प्रकाश अहीरवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50641 09/07/2008	आजाद गंज बाईपास रोड, बड़ा तलाब के पास, निवाड़ी
176108	सुरेश ठाकुर बारेसिंह ठाकुर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50673 22/07/2008	गॉव-कारी, पत्रालय-पिप्लास, तह0 एवं जिला- बडवानी
176109	स्वदेश गुप्ता राजीव गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50679 22/07/2008	सदर बाजार, गोहाद, जिला-भिंड

176110	स्वाति कटारे विश्वनाथ कटारे	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2006	50665 22/07/2008	प्रचार्य पं. शिवशक्तिलाल शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, काटजू नगर, रतलाम
176111	सईद दानिश मीर सईद इरशाद मीर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50449 17/04/2008	324, दानिश मंजिल दाडदपुरा, जिला-बुरहानपुर
176112	तरेन्द्र कुमार दहारिया ओंकार प्रसाद दहारिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2008	50720 04/12/2008	गाँव व पत्रालय-इल्कलहारा, तह0 परसिया जिला
176113	उपदेश राजोरिया मोलाराम राजोरिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50606 07/07/2008	3/15, बैस्क दर्पण कॉलोनी थारीपुर, जिला-ग्वालियर
176114	वर्षा चौकसे एस.एल. चौकसे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50577 30/06/2008	रतन दिलबागी नारायण फोटो स्टूडियो, काँचघर, मकान नं. 3223, जिला-जबलपुर
176115	वर्षा गुप्ता दिनेश कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50578 30/06/2008	राव साहब की हवेली, 160, छोटा बाजार, जिला-दतिया
176116	वर्षा सिंह ओम प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50472 17/04/2008	375, लोकमान्य नगर, जिला-इन्दौर
176117	विजय कुमार जायसवाल रंछोड़ प्रसाद जायसवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50499 26/04/2008	गाँव व पत्रालय-सिहंदा, जिला-पूर्वी निमद, खाण्डवा
176118	विकास कटारे राम बाबू कटारे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2008	50595 30/06/2008	साकेत नगर, कलाबाग गंज, बसोदा, जिला-विदिशा
176119	विकास खरे चन्द्र बहादुर खरे	बी.ए.एम.एस. नागपुर वि.वि., नागपुर 1997	50718 30/07/2008	नई वारसकर कॉलोनी, मोती वार्ड कोठी बाजार, जिला-बेतूल

176120	विकास निगम ब्रिजभूषण निगम	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50608	200. शारदा विहार कॉलोनी, नई हाई कोर्ट के पास, सिटी सेंटर, जिला-ग्वालियर
176121	विकास शर्मा एस.बी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50607	एम.आई.जी. दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर
176122	विक्रम सिंह श्रीराम मदकारिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50614	हेम सिंह की परादे, लश्कर, जिला-ग्वालियर
176123	विनोद कुमार यादव राम चन्द्र यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बेगलोर 2006	50526	गाँव-जामी, पत्रालय-मालवार, तह0 बयवारा, जिला-राजगढ़
176124	विरेन्द्र कोरकु राजाराम कोरकु	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	50605	फोरेस्ट कॉलोनी, खिन्नी नाका, जिला-शिवपुरी
176125	विरेन्द्र सिंह दोनेरिया राम किशन दोनेरिया	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	50639	मुंशी बाबु की गली, दत्तपुरा, जिला-मुरैना
176126	विरेन्द्र सिंह शाक्या राम सिंह शाक्या	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50550	डी. 13, राज होम्स मिनाल एन्कलेव, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल
176127	विरेन्द्र तिवारी कृष्ण तिवारी	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2004	50396	भार्गव ताल के पीछे, कस्तूरबा वार्ड, छिन्दवाड़ा चौक, जिला-सिवनी
176128	विशाखा मेश्राम जीवनदास मेश्राम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50477	वार्ड नं. 12, छतेरा रोड शितला मंदिर, कटंगी, जिला-बालाघाट
176129	विष्णु पाटीदार दयानन्द पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50599	गाँव व पत्रालय-महतवाड़ा, तह0 महेश्वर, जिला- खारगोंव
176130	यति रघुवंशी आर.सी. रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50590	बी. 206, रामेश्वरम बाग, मुगलिया, जिला-भोपाल

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश
पार्ट- II -यूनानी

क्रम सं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय व उत्तीर्ण वर्ष	पंजीकरण संख्या व दिनांक	पता
23549	आदिल शफी मोहम्मद शफी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50448 17/04/2008	बी. 64, इन्दिरा कॉलोनी, जिला-बुरहानपुर
23550	अब्दुल वहाब मोहम्मद यूसुफ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50716 30/07/2008	द्वारा प्राचार्य यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जिला-बुरहानपुर
23551	अबरार अहमद हसन उद्दीन	बी.यू.एम.एस. बाबा भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि. मुजफ्फरपुर 2005	50602 07/07/2008	नेशनल हाईवे रोड नं. 78, नयागाँव, तोला
23552	अफफान समी राय समी मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50487 26/04/2008	गाँव व पत्रालय-बहादुरपुर, तह0 एवं जिला-बुरहानपुर
23553	अजीम अहमद अब्दुल खालीक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50544 04/06/2008	पठान काम्लैक्स, दरगाह मैदान के सामने, खजराना
23554	अमन शहीद मशूद हुसैन सिद्दिकी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50413 03/04/2008	पठान काम्लैक्स, दरगाह के सामने, इकरा पब्लिक स्कूल के ऊपर, खजराना
23555	अमीन बागवान मोहम्मद हनीफ बागवान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50455 17/04/2008	पत्थर बिल्डिंग, दाउदपुरा
23556	अमीता तावड़ेकर श्याम तावड़ेकर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50462 17/04/2008	सरदार मुस्कृते का बाबा, महाजनपेठ

23557	अमरीन खानम मशकूर उल्ला खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50405 03/04/2008	शीतला माता मंदिर के सामने, काजीपुरा, अष्टा
23558	अशफाकुर रहमान शफीकुर रहमान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50530 24/05/2008	स्टेट बैंक गली में शनवारा गेट के सामने
23559	आतिब सिद्दिकी एम.ए. सिद्दिकी	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50517 19/05/2008	70, अर्शी इलैक्ट्रोनिक्स, लक्ष्मी नगर, बी.एन.पी. रोड
23560	चांद मियां मुनावर उल्लाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50437 10/04/2008	नौशाद इलैक्ट्रोनिक्स, पुराना थाना रोड, गांधी पार्क, अष्टा
23561	फरहा नाज अब्दुल राशीद खान	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50398 03/04/2008	80, लाला लाजपत राय कॉलोनी, बाघ दिलकुशा रायसेन रोड
23562	फूरकान शैख शैख बिस्मिल्लाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50439 17/04/2008	द्वारा डा0, बी.ए. शैख, सलाई वाली मस्जिद शाहा बाजार, नया मोहल्ला
23563	गजाला अंजुम आबिद हुसैन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50464 17/04/2008	204, धार रोड, जिला हॉस्पिटल के सामने
23564	गुलाम कादिर अब्दुल्लाह	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50575 30/06/2008	बी. 49, हाजसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा
23565	गुलरेज कुरेशी मुश्ताक अहमद कुरेशी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50411 03/04/2008	38, जूना पीठ, बडवाली चौकी, लकी कोचिंग क्लासेज
23566	हिदायत अहमद एजाज अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50446 17/04/2008	सेक्टर ए 56, ग्रीन पार्क कॉलोनी, धार रोड

23567	हिना कौसर अब्दुल वाहीद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50406 03/04/2008	346/22, चार खम्भा, गोहलपुर
23568	इंसाफ अहमद अंसारी इकबाल मोहम्मद अंसारी	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50496 26/04/2008	अंसार मंजिल पटेल वाड़ी, सारंगपुर
23569	इक्तेदार अंसारी मौहम्मद इसरार अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50415 03/04/2008	28, अंसारी कॉलोनी लंगपुरा, अष्टा
23570	इरफान खान नवाज खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50515 19/05/2008	मौहल्ला काजीपुरा, भवन नं. 32, ईरानी हाउस के पास
23571	जाफिर कुरेशी जिआउद्दीन कुरेशी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	51450 17/04/2008	46, हाजी कॉलोनी, खजराना
23572	काफिल अहमद आमिर अहमद	बी.यू.एम.एस. मुस्लिम वि.वि., अलीगढ़ 2007	50480 17/04/2008	खजराना संचार नगर, जिला-इन्दौर
23573	कहकाश खान अब्दुल कयूम खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50461 17/04/2008	64/34, अब्दुल रहमान खान दरोगा मार्ग, नयामतपुरा
23574	खान रुमनाना परवानी सईद खालीक अली	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2005	50428 10/04/2008	एम.ए. 26, वतसला विहार, सिविल लाइन स्टेडियम के पास
23575	खुरशीद अहमद ए.बी. गनी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50408 03/04/2008	द्वारा के.ए. सईद, कुमार स्टुडियो, परदेसीपुरा
23576	खुटीजा मंसूरी अस्मान मनी मंसूरी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50503 03/05/2008	खिल्जी मेंशन होली चौक शामगढ़ गोंव, शामगोंव, तह0 गरोथ

23577	मसारत जहाँ मौहम्मद रईस खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50407 03/04/2008	मस्जिद नई बस्ती कुरवाई
23578	मिर्जा जावेद अहमद मिर्जा सिकंदर अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50642 09/07/2008	मकान नं. 107, शेर शाह सूरी नगर, झलारिया रोड, खजराना 48, खिजराबाद कालोनी, खजराना
23579	मौहम्मद आलीम शौख मौहम्मद वइश	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50576 30/06/2008	
23580	मौहम्मद आरिफ अंसारी महबूब हसन अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50456 17/04/2008	तिलक हॉल नया मौहल्ला
23581	मौहम्मद आसिफ खान नियामतुल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50451 17/04/2008	गली नं. 14, मकान नं. 600, बाईरसिया रोड आरिफ नगर
23582	मौहम्मद आजाद अहमद वशीर आलम	बी.यू.एम.एस. छत्रपति साहू महाराज वि.वि., कानपुर 2007	50535 28/05/2008	द्वारा अमानुल्लाह एडवोकेट, गाँव व पत्रालय-टायनदर
23583	मौहम्मद फेजान अनवर अब्दुल राजिक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50547 11/06/2008	48, खिजराबाद कालोनी, खजराना
23584	मौहम्मद इरफान अंसारी मौहम्मद अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50445 17/04/2008	139, चन्द्रकला, जिला-बुरहानपुर
23585	मौहम्मद मोहतेशिम शेख हनीफ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50681 30/07/2008	द्वारा शेख फरीद जे. 2, सिद्दीकी नगर, आजाद नगर
23586	मौहम्मद शबान शाह मौहम्मद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50452 17/04/2008	गुल्ला हयाती कॉम्प्लेक्स, बुधवारा रोड, दाउदपुरा

23587	मौहम्मद शदाब मौहम्मद इरशाद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50438 17/04/2008	मौहम्मद हुसैन हैदर अली, हमदर्द दवाखाना, पान मण्डी
23588	मौहम्मद शफीम तमीजुद्दीन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50491 26/04/2008	नया मौहल्ला, सलायवाली मस्जिद के पास
23589	मौहम्मद यासीर खान मौहम्मद बाबू खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50450 17/04/2008	सिटी सेंटर काम्लैक्स फ्लैट नं. टी 2, थाना तलैया, सुल्तानिया रोड
23590	मौहम्मद जुबेर अंसारी मौहम्मद इस्माइल अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50492 26/04/2008	106/ए., लक्ष्मी नगर, बी.एन.पी. रोड
23591	मौहम्मद मूसब मौहम्मद याकूब	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50417 03/04/2008	सैन्ट्रल कौफी हाउस, जी.पी.ओ. 84 के सामने, ऊषागंज
23592	मौहम्मद शाहिद अंसारी मौहम्मद हनीफ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50444 17/04/2008	नया मौहल्ला, सलायवाली मस्जिद के पास
23593	मौहम्मद यूसुफ जमाल शकील अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50441 17/04/2008	लोहार मण्डी, दीक्षित गली
23594	मुमताज अहमद खालीक अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50485 26/04/2008	द्वारा गजल पी.सी.ओ. 196, खिजराबाद कॉलोनी, खजराना
23595	नफीस अहमद मौहम्मद साजीद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50443 17/04/2008	गुल्ला हयाती मस्जिद, दाउदपुरा
23596	नाहिद खानम मौहम्मद इस्माइल	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2005	50643 09/07/2008	बैरी मैदान, चिश्ती खान की मस्जिद, कमन के बगल में

23597	नजमा बी. नाजीर खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50490 26/04/2008	नेहरू नगर नं. 2, गली नं. 2, शौकारपुरा
23598	निलेश जायसवाल यशवंत लाल जायसवाल	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50494 26/04/2008	प्रेरणा मेडिकल मुसखेड़ी, मेन रोड
23599	निलोफर खान रहमान खान	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2007	50516 19/05/2008	मकान नं. 632, केसर बंगला, एलसेंट स्कूल के पास, ईदगढ़
23600	निलोफर नरावला यूसुफ अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50465 17/04/2008	चन्द्रकला छोटी याकूब की हवेली, जिला-बुरहानपुर
23601	नूरजहाँ अंसारी अब्दुल राशिद अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50463 17/04/2008	मकान नं. 135, वार्ड करामक 27, कली फाटक के पास, दाउदपुरा
23602	परवेज आलम खान नजीबुल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50410 03/04/2008	द्वारा का सईद, परदेसीपुरा, 41, कमार स्टूडियो के पास
23603	पवन जेठा सोमनाथ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50447 17/04/2008	बड़े बालाजी मंदिर के पास, महाजनपथ
23604	प्रमोद सागर राजाराम सागर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50512 19/05/2008	गाँव व पत्रालय-बनमाड़ा तह0 एवं जिला-बुरहानपुर
23605	रफीक खान मौहम्मद खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50574 30/06/2008	40, विंदीयारा मार्ग मस्जिद, बैरी मैदान
23606	राहिला कादरी मौहम्मद हुसैन कादरी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50548 11/06/2008	1/302, रविनगर, खजराना रोड

23607	रिजवान अहमद अब्दुल अजीज	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50440 17/04/2008	मुल्ला हयाती मस्जिद, दाउदपुरा बुधवाड़ा रोड
23608	रिजवाना मौहम्मद सोहराब	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50434 10/04/2008	सिंचाई कॉलोनी, शिकारपुरा
23609	सादिया तलाट तनवीर अहमद	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2007	50520 21/05/2008	478. मान तलेय्या कुंजघाय मस्जिद
23610	सालमा सुल्ताना शेख इशाक अहमद शेख	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50514 19/05/2008	136. खिजराबाद कॉलोनी, खजराना
23611	सलमान अनवर अनवारुल हक	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50414 03/04/2008	48. खिजराबाद कालोनी, खजराना
23612	सावेद अहमद अंसारी शमशेर अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50573 30/06/2008	मुल्ला हयाती काम्लैक्स, दाउदपुरा, बुधवाड़ा रोड
23613	शबिना बानो अंसारी मौहम्मद इकबाल अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50531 26/05/2008	हाफिरपुर पत्थर कुंआ, जिला-बुरहानपुर
23614	शाहीन मंसूरी गुलाम हुसैन मंसूरी	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2007	50549 16/06/2008	द्वारा श्री जैड.एच. सहारक शिक्षक, मकान नं. 645 ए. ब्लॉक, गली नं. 50, नरियल खेड़ा
23615	शाहनवाज शेख नौशाद शेख	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2007	50436 10/04/2008	73. रज्जत अली खान मार्ग, देवास दर्पण प्रेस
23616	शाजिया फातमा रिजवी सईद गुलाम हैदर रिजवी	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2007	50399 03/04/2008	मकान नं. 15, मुस्कान टॉकिज के पीछे, विद्या विकास स्कूल के पास, गरम गधा रोड

23617	शाजिया गौधी फिरोज गौधी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50466 17/04/2008	टाईप 3, क्वार्टर नं. 3, कस्टम एंव सैन्ट्रल एक्साइज ऑफिसर्स कॉलोनी, रेजीडेन्सी एरिया
23618	शकील अहमद सफदर मौहम्मद	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., मोपाल 2007	50519 21/05/2008	मकान नं. 378, सेंट बिन स्कूल के पीछे, हुसैनी चौक, आजाद नगर, इन्दौर
23619	शकील अहमद नागोरी मुबारक हुसैन नागोरी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50488 26/04/2008	183, शौफी नागोरी कॉलोनी, नया फाइन आर्ट टेलर के पास, महीदपुर
23620	शेख अब्दुल खालीक अब्दुल हमीद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50571 18/06/2008	मौलाना शेख हबीब, गॉव व पत्रालय-बैदिया, तह0 बाड़वाह
23621	शेख इदरीस शेख छोटु	बी.यू.एम.एस. डा. हरिसिंह गौड़ वि.वि., सागर 2007	50495 26/04/2008	कदारिया स्कूल परिसर, नागझिरी
23622	शेख इमरान शेख लुकमान	बी.यू.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे 2005	50427 10/04/2008	53, खिजराबाद कॉलोनी, खजराना
23623	शेख महबूब आलम मौहम्मद हनीफ शेख	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50546 11/06/2008	48, खिजराबाद कालोनी, खजराना
23624	शेख सरफराज नवाज अब्दुल सत्तार	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50489 26/04/2008	44, राज प्रसाद भार्गव मार्ग, जामा मस्जिद रोड
23625	शेख अनीस शेख अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50416 03/04/2008	43, हातमपुरा इनामबाड़ा के पास, जिला-खाण्डवा
23626	सोनल पालीवाल श्रीगोपाल पालीवाल	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50486 26/04/2008	ए./40, इन्दिरा कॉलोनी, बुरहानपुर
23627	सईद आसीम अली सईद कौसर अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50409 03/04/2008	41, कुमार स्टूडियो के पास, श्री के.ए. सईद परदेसीपुरा
23628	सईद ईजहार अली सईद ईफतेखार अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50717 30/07/2008	काजीपुरा दशहरा मैदान रोड, रफ़ीक सेठ का बाड़ा के सामने, अष्टा

23629	सईद मरीयम अली सईद नसीर अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50459 17/04/2008	खान का वार्ड, जिला—बुरहानपुर
23630	सईद उबेड़ अहमद सईद बकार अहमद	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50453 17/04/2008	बैरी मैदान, मदरसा के पास
23631	सईदा आयशा अंजुम शेर अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2000	50540 02/06/2008	सईद आसीफ अली, नई ज्योति कॉलोनी, एस.पी.एम. हॉस्पिटल के पीछे
23632	सईदा जैनाब अली सईद नासिर अली	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50460 17/04/2008	खान का वार्ड, जिला—बुरहानपुर
23633	ताहिरा बेगम सईद राहत मीर	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50493 26/04/2008	चन्द्रकला, जिला—बुरहानपुर
23634	ताजीन खान नसीम अहमद खान	बी.यू.एम.एस. बरकतुल्लाह वि.वि., भोपाल 2008	50644 09/07/2008	मकान नं. 5, रफिकिया स्कूल रोड, एयरटेल टॉवर बिल्डिंग चौकी, मस्जिद फरीद खान
23635	तवरेज अहमद अंसारी शफीक अंसारी	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50412 03/04/2008	सूर्या कॉटेज, 3/1, स्नेहलता गंज
23636	तोसिफ शेख अब्दुल रउफ	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50418 03/04/2008	1/3, नजर अली मार्ग, मिल्कीपुरा
23637	योगेश कांकरे पुण्डलीक कांकरे	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50518 21/05/2008	गाँव व पत्रालय—बनभाड़ा तह0 एवं जिला—बुरहानपुर
23638	जाहीद हुसैन शौकत हुसैन	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50502 03/05/2008	मकान नं. 20, बुहानुद्दीन ओलिया मार्ग, चन्द्रकला
23639	जुबेर खान जावेद खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50458 17/04/2008	घौली बाबा अड्डे की मस्जिद, जिला—बुरहानपुर

23640	जुल्फेकार अली खान ईनाम उल्लाह खान	बी.यू.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50457 17/04/2008	लोहार मण्डी, दीक्षित गली
प्रेम राज शर्मा रजिस्ट्रार				

सं. 20-12/2010 -के.पं. (मध्य प्रदेश) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है जो मध्य प्रदेश राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23(3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा सबित किया जा सकेगा।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में मध्य प्रदेश राज्य रजिस्टर में 09.08.2006 से 31.03.2010 तक क्रम संख्या 175233 आयुर्वेद एवं 23524 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 175794 आयुर्वेद एवं 23548 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 09.08.2006 से 31.03.2010 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (मध्य प्रदेश) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को 30 दिन के अन्दर सूचित किया जाए।

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश
पार्ट-1

क्रम सं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय व उत्तीर्ण वर्ष	पंजीकरण संख्या व पंजीयन तिथि	पता
175233	आरती बर्मन शंकर लाल बर्मन	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2007	51073 19/11/09	गाँव व पत्रालय दशरामन तह0 सिहोरा, जिला- जबलपुर
175234	आरती भगोरिया बी.एल. भगोरिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि. भोपाल 2008	50733 4/6/2009	ए2/57, सागर ईस्टेट्स अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल
175235	अभिदीप हजारी सुशील हजारी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	51257 7/12/2009	वार्ड करमंक 1, राहिल जिला-सागर
175236	अभिदीप सिंघल पदम कुमार सिंघल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51271 21/12/09	80/24, सुबेदार वार्ड माधिस बीडी ब्रांच, जिला-सागर
175237	अमिलाषा शर्मा पदम कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50922 6/11/2009	136, कृष्णा कॉलोनी जिला-विदिशा
175238	अमिलाषा शुक्ला एस.एन. शुक्ला	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50795 11/8/2009	एल.आई.जी. 730, धंवत्तरि नगर, पत्रालय गधा, जिला- जबलपुर
175239	अमिराम चौरसिया शोभाराम चौरसिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51343 12/3/2010	भोपाल रोड मरखेडी सड़क, गाँव व पत्रालय मरदानपुर सिहोरा जिला-सागर
175240	अभिषेक दुबे प्रकाश दुबे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	51272 23/12/09	प्राथमिक बालक शाला चमेली चौक, रवि शंकर वार्ड सागर
175241	अभिषेक गोयल लाडली प्रसाद गोयल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51050 18/11/09	होटल फूलगंज के सामने, ए.बी. रोड, कोलारस, जिला- शिवपुरी

175242	अभिषेक त्यागी नरेश चन्द्र त्यागी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51234 30/11/09	मकान नं.6, नीलगंगा कॉलोनी जिला-उज्जैन
175243	अबसार खान मुल्तानी अजीज मुल्तानी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51059 18/11/09	332, चौक बाजार जगोती तह.-महीदपुर, जिला-उज्जैन
175244	आदील अहमद कादरी अतीक अहमद कादरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51232 30/11/09	70, जाट मोहल्ला राजगड़ जिला-राजगड़, भवारा
175245	आदित्य मट्ट मवानी शंकर मट्ट	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50912 5/11/2009	60-61, बी शीतल नगर, एम.आर. 10 रोड, इन्दौर
175246	अजय कांत कौरव अशोक कौरव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51107 23/11/09	श्रीजीपुरम कॉलोनी, लम्बा काम्देक्स, करेली, जिला-नरसिंगपुर
175247	अजय कुमार अवस्थी सरस्वती प्रसाद अवस्थी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50743 29/06/09	106, महाबली नगर कोलर रोड, भोपाल
175248	अजय कुमार सोनी गोपाल कृष्ण सोनी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50805 20/08/09	44, जवाहर मार्ग, मेन रोड साम्बर मारुति मंदिर के सामने, जिला-इन्दौर
175249	अजय कुमार सोनी राम कुमार सोनी	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नासिक	50936 10/11/2009	आमगाओ (बादा) तह. करेली, जिला-नरसिंगपुर
175250	अजय कुमार उपाध्याय मथुरा प्रसाद उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51021 16/11/09	गाँव व पत्रालय उदयपुर, तहसील गधा कोटा, जिला-सागर
175251	अजय प्रकाश परिहार शिवराम परिहार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50823 31/08/09	गाँव-लोहारिया, पत्रालय बघोली, बैतूल बाजार, तहसील/जिला-बैतूल
175253	अजेन्द्र कुमार गुप्ता केदारी लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51099 20/11/09	गर्ग मेडिकल स्टोर्स बेराड, जिला-शिवपुरी

175254	अजीत कुमार पाण्डे अरुण कुमार पाण्डे	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2008	51320 5/2/2010	हनुमान मंदिर के पीछे, चन्द्रपुर रोड, चकघाट, जिला—रीवा
175255	अकांक्षा ओझा कृष्ण कुमार ओझा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2009	51303 29/01/10	33. प्रियदर्शिनी परामाउण्ड, होशंगाबाद रोड, मोपाल
175256	अकांक्षा पटवा सतीश पटवा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51123 23/11/09	60. बी. आशीर्वाद कॉलोनी कोलार रोड, बंजारी, मोपाल
175257	अखिलेश गोस्वामी सीताराम गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51025 16/11/09	मधुबन कॉलोनी कुंदेश्वर रोड, जिला—टिकमगढ़
175258	अखिलेश परिहार देवराज सिंह परिहार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51125 23/11/09	65. श्रीराम नगर, नेमावर रोड पालडा, जिला—इन्दौर
175259	अखिलेश प्रताप सिंह ए.के. सिंह परिहार	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि. उज्जैन 2008	51315 4/2/2010	कोटा हाउस, गायत्री नगर, नागोड जिला—सतना
175260	अखिलेश राजपूत सुरेन्द्र सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2007	51075 19/11/09	श्री सूरज सिंह परमार कपास मिल हरपलपुर, जिला—छत्रपुर
175261	अखिलेश सिंह राजपूत गंभीर सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50833 7/9/2009	गाँव—जोडकया, पत्रालय बाघोली, तह. एवं जिला—बैतूल
175262	अंबरिश कुमार चौधरी श्रीराम कुमार चौधरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50935 10/11/2009	गाँव एवं पत्रालय—कुमराय तह. गंधोकोटा, जिला—सागर
175263	अमित कुमार गोलहानी बलराम गोलहानी	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51277 29/12/09	कायाकल्प क्लीनिक के पीछे, मस्जिद लख्नादिन, सिवनी
175264	अमित कुमार सोनी श्याम किशोर सोनी	बी.ए.एम.एस. का. सि.द. सं वि.वि. दरभंगा 2006	51347 25/03/10	नरेया मोहल्ला, सुभाष प्रेस के पास, हिमाचल गली, टिकमगढ़

175265	अमित कुमार उपाध्याय राम प्रकाश उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. पं. रविशंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2008	51258 7/12/2009	गोंव चौराहा पत्रालय एवं तह. मझगवान, जिला-सतना
175266	अमित कुमार उत्तरदी गुरुमुख दास उत्तरदी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50845 25/09/09	शालीमार मेडिकल सी कांति कृपलानी नगर, जिला-इन्दौर
175267	अमित पाण्डे कमलेश्वर पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50798 17/08/09	गोंव नकदवार खुर्द पत्रालय नकझवार कलां तह. सिहावल, जिला- सिधौ
175268	अमित सिंघल अजीत सिंघल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51293 15/01/10	गायित्री चिल्ड्रन स्कूल यू 41 के पास, सिसोदिया कॉलोनी, गुना
175269	अमित उपाध्याय अशोक कुमार उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	50979 12/11/2009	मकान नं. 3/136, नरमदा कॉलोनी प्लोतनगज गदरवार, नरसिंहपुर
175270	अमिता वर्मा आइ.डी. वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51086 20/11/09	मकान नं. 84, पुर्वा रेलवे कॉलोनी के नजदीक, रेलवे हॉस्पिटल, बीना, जिला-सागर
175271	अमोल डोंगरे के.एस. डोंगरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51237 30/11/09	एस 641, नेहरू नगर, जिला-भोपाल
175272	अनामिका स्नेही मुन्ना लाल जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51264 10/12/2009	केनरा बैंक, गौर मूर्ति के पास, जिला-सागर
175273	अनंतराम पटेल मैयाराम पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50916 5/11/2009	नई कृषि उपज के पीछे सागर नाका, हिरदेपुर, दामोह
175274	अनिल धुर्वे तुलाराम धुर्वे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50829 5/9/2009	गोंव-धोबावर, पत्राचार नेजहर, तह. विचिया, जिला-मंडला
175275	अनिरुद्ध चौहान टी.एस. चौहान	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर 2008	50980 12/11/2009	डी.2, मेन रोड धंवन्तरि नगर, जबलपुर

175276	अनिता कुमार विश्वास अरविंद विश्वास	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50968	हटपुरा झण्डा चौक, अगर मलवा, जिला—शजापुर	11/11/2009
175277	अंजलि उपाध्याय शशिकांत उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50964	813 वार्ड सीरियल नं. 31, श्याम विहार कॉलोनी, जिला—मुरैना	11/11/2009
175278	अंकित खरे राज किशोर खरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50876	शास्त्री नगर, ओरछा, जिला—टिकमगढ़	26/10/09
175279	अंकित शर्मा हरिओम शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50775	गाँव व पत्रालय, तह. नातेरन, जिला—विदिशा	28/07/09
175280	अंकुर चोरे पुरुषोत्तम चोरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50780	30, इन्द्रप्रस्थ सिविल लाइन्स, मालाखेडी रोड, होशंगाबाद	28/07/09
175281	अंकुर दिक्षित विनीद कुमार दिक्षित	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50816	एफ. 83/19, तुलसी नगर, भोपाल	31/08/09
175282	अंशु जैन अशोक कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51108	पोरुष सदन अहमदपुर रोड, जिला—विदिशा	23/11/09
175283	अंशु मालविया लक्ष्मी नारायण मालविया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51204	गाँव व पत्रालय—रानीपुर, तह. व जिला—बैतूल	27/11/09
175284	अंशुमाला गजमिये एस.वी. गजमिये	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50736	जे. 359, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल	11/6/2009
175285	अनुराधा सिंह सुमन राज बहादुर सुमन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51203	रोशन भवन के पीछे, बी. बजारिया शिवजी वॉर्ड, बीना, जिला—सागर	27/11/09
175286	अनुरूचि जादौन घनश्याम लाल जादौन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50984	425, व्यंकटेश विहार कॉलोनी, एरोड्रम रोड, जिला—इंदौर	12/11/2009

175287	अनुश्री तोमर विक्रम सिंह तोमर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50986 12/11/2009	इन्दिरा नेत्र चिकित्सालय, केमपरा खुराय, जिला-सागर
175288	अर्चना चौहान शिवराम चौहान	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50898 04/11/09	गाँव- बहरामपुर टेमा, तह. एवं जिला- खारगाँव
175289	अर्चना धुर्वे राम प्रसाद धुर्वे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2007	50789 6/8/2009	ओम निवास, विजहिया कटरा रोड, मांडला
175290	अर्चना सिंह इन्द्रजीत सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51181 25/11/09	3/30, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गायत्री मंदिर शहडोल के पीछे
175291	अर्चना वर्मा मोलाराम वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51322 8/2/2010	57/2, पुराना मलेरिया ऑफिस, आनंद नगर, जिला-खांडवा
175292	अरूण कुमार दाथोरे राममाउ दाथोरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50987 12/11/2009	चिलोलीथाना पत्रालय एवं तह. बहनसेधी, जिला- बैतूल
175293	अरूण कुमार राठोड़ राजाराम राठोड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50771 28/07/09	गाँव एवं पत्रालय-सरसाई, जिला-मिण्ड
175294	अरूण पाटीदार महेश पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2009	50973 12/11/2009	ई-7, एम.पी.ई.बी. गिड कॉलोनी, बडवाह, जिला-खारगोन
175295	अरविंद कुमार जैन सी.सी. जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51338 3/3/2010	89, दुर्गा नगर, विदिशा, जिला- विदिशा
175296	अरविंद कुमार पटेल रामदास पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	51121 23/11/09	श्री भानु सिंह अम्बेडकर, तिराहा कानूनगो कॉलोनी बीना, सागर
175297	आशा सोलंकी मागीलाल सोलंकी	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50929 6/11/2009	गाँव-विरला, पत्रालय तालकपुरा, तह. सेगौंव, जिला- खारगोन

175298	आशा सूर्या विनोद सूर्या	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51005	उमिया हॉस्पिटल नेवरी, तह. बागली, जिला-देवास	13/11/09
175299	आशीष बोभा नन्दलाल बोभा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन, 2008	51014	मकान नं. एम-11/3, न्यू इन्दिरा नगर, नीमच, जिला-नीमच	16/11/09
175300	आशीष जैन राज कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51233	1508, शंकराचार्य नगर, स्टेशन क्षेत्र के पीछे, बजारिया, भोपाल	30/11/09
175301	आशीष कुमार गुप्ता राम सेवक गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51069	श्री मों दुर्गा बोर वैल्स, भेन रोड, हरपालपुर, जिला- सागर	19/11/09
175302	आशीष कुमार जैन उत्तम चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50956	नगर पंचायत के सामने, कार्यालय खारगापुर, जिला- टिकमगढ़	11/11/2009
175303	आशीष कुमार जैन अशोक कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51281	बड़े जैन मंदिर के पास, काचाहारी रोड, बांदा, जिला-सागर	6/1/2010
175304	आशीष कुमार वंसकर शंकर लाल वंसकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50955	जनपद पंचायत के पास, आमला जिला- बैतूल	11/11/2009
175305	आशीष मिश्रा सुशील मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50807	पुरेन्द्र टॉकीज के पास, शिक्षक कॉलोनी, डाबरा, ग्वालियर	20/08/09
175306	आशीष शर्मा विष्णु प्रसाद शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50923	श्री वी.पी. शर्मा पब्लिक स्कूल द्वारा, सदर बैतूल, जिला- टिकमगढ़	6/11/2009
175307	आशीष सोनी लखन लाल सोनी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51049	गाँव-धिल्ला, तह. पृथ्वीपुर, जिला- टिकमगढ़	18/11/09
175308	आशीष तिवारी जे.पी. तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51169	388, तिवाड़ी गली, भगत सिंह वॉर्ड, जिला-सागर	25/11/09

175309	अशोक कुमार कुशवाहा केशव प्रसाद कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. का. सि. द. सं वि. वि. दरभंगा 2005	51340 9/3/2010	क्यू. नं. बी/159, जमुना, माइनर्स पत्रालय जमुना काली, अनूपपुर
175310	अशोक लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	50958 11/11/2009	231, अमोदिया, गॉव व पत्रालय, अमोदिया, तह0- सरदारपुर, जिला- धार
175311	अशोक बोरसी रामदास बोरसी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि. वि., इन्दौर, 2008	51052 18/11/09	मकान नं. 78, धीरज नगर, रिंग रोड, बौराहा, जिला-इन्दौर
175312	आशुतोष कुमार पाण्डे केदार प्रसाद पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	50803 18/08/09	गॉव व पत्रालय-किल्था, वाया जटवारा, जिला-सतना
175313	अश्विनी वरुण मुरलीधर वरुण	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	50895 4/11/2009	35, जवाहर नगर, नीमच, जिला-नीमच
175314	अतुल पाण्डे ब्रिज भुषण पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	50792 7/8/2009	मकान नं. 72, अंकित परिवार नयापुरा, कोलर रोड, भोपाल
175315	अतुल शर्मा रेखी राम शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	51001 13/11/09	नाका चन्द्रविदिनी गली नं. 1, राम नगर, लश्कर, ग्वालियर
175316	अविनाश ठाकरे गुलाबराव ठाकरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	50831 7/9/2009	जाम रोड, उमनाला, जिला-छिंदवारा
175317	अवनीश शर्मा मदन लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि. वि., भोपाल 2008	51031 16/11/09	ढोली बुआ का पुल, हुंडाराम चौधरी का बाड़ा, लोहरगढ़, ग्वालियर
175318	बादर सिंह बासकल राम सिंह बासकल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि. वि., इन्दौर, 2008	50844 18/09/09	गॉव-पचखेड़ा, पत्रालय-बगल्ला, जिला-धार
175319	बालेन्दु मोली शुक्ला कन्दलत शुक्ला	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि. वि., जबलपुर, 2007	51312 3/2/2010	वादा हाउस, बजरंग नगर, जिला-रीवा

175320	बन्दना मण्डलोई हरिसिंह मण्डलोई	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50899	15 मिश्रा नगर, एफ.एन. 203, सूर्या अपार्टमेंट अन्पूरुर्णा, रोड, इन्दौर
175321	बसंत तुरकर भारत लाल तुरकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50953	गोंव-तेकारी, पत्रालय बादगोंव, तह. वारासिवनी, जिला- बालाघाट
175322	भाग सिंह कुशवाहा कैलाश चन्द्र कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50938	भारतीय विद्या निकेतन, माध्यमिक विद्यालय, भीतरवा, जिला-ग्वालियर
175323	भगत सिंह अजमेर सिंह	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51023	मकान नं. 381, सुरेश नगर, थाथीपुर मुरर, जिला-ग्वालियर
175324	भगवती प्रसाद गुप्ता चंदु लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2007	50813	पुरानी सब्जी मण्डी रोड, पार्क गली 2 के पास, केलारस, जिला- मुरैना
175325	भाय्यश्री पवरा चन्द्र सिंह पवरा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50791	13, विनायक परिसर, ई-8, शाहपुरा, भोपाल
175326	भरत जैन दिनेश जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	51335	आयुर्वेद औषधालय, 89, माधव क्लब रोड, जिला- रुर्जन
175327	भारती मिश्रा प्रदीप कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51274	ई एन. 2/9, चार ईमली भोपाल
175328	भारती साहु एम.पी. साहु	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51178	प्रधानपुरा मोहल्ला जटारा, जिला- टिकमगढ़
175329	भारती तांतुवल पी.एल. कोरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51310	शक्ति नगर, मकरोनिया, जिला-सागर
175330	भावना रावत संतोष कुमार रावत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50825	एम.आई.जी. 135, शांति बिहार कौलोनी, मकरोनिया, जिला- सागर

175331	भूपेन्द्र कुमार राठोड़ रामेश्वर राठोड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50868	कालीजी चौक राजेन्द्र वॉर्ड, बैतूल बाजार, बैतूल	13/10/09
175332	भूपेन्द्र वैद्य रंगलाल वैद्य	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51350	एम.आई.जी. 2, विश्वकर्मा नगर, बरसिया रोड कारोड, भोपाल	25/03/10
175333	बिजेता वारंगे अविनाश वारंगे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51098	एन 2 614-616, हबीबगंज मेल, भोपाल	20/11/09
175334	ब्रिज मोहन बजरेतिया परसादी लाल बजरेतिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51046	मकान नं. 369/29, रैसपुरा, जिला-शिवपुरी	18/11/09
175335	ब्रिजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव हरगोविंद श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50966	गाँव एवं पत्रालय असवार तह. लहर, जिला-बिहिंद	11/11/2009
175336	चंद्र कांत अहीरवार ब्रिजलाल अहीरवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50903	मधुवर शाह वॉर्ड नं. 4, मनोरमा कॉलोनी, जिला-सागर	4/11/2009
175337	चन्द्र मोहन धाकड़ जगदीश प्रसाद धाकड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50937	राम निवास चतुर्वेदी पेती चौराहा किले अंदर, जिला- विदिशा	10/11/2009
175338	चन्द्र प्रकाश पाटीदार सियाराम जी पाटीदार	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि. उज्जैन, 2007	50939	गाँव व पत्रालय-कचनरिया, तह. तराना, जिला- उज्जैन	10/11/2009
175339	चेतन भारद्वाज मनोहर लाल भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50849	116, इन्दिरापुरी कॉलोनी, कृष्णागंज, माहु, जिला- इन्दौर	30/09/09
175340	चेतन कुमार तिककुस नीलकांथ तिककुस	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51091	बी.एम. 157, नेहरू नगर, पुलिस लाइन के पास, भोपाल	20/11/09
175341	चेतन पाटीदार गोपाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51149	224, पटेल मार्ग सुसरी, तह-कुक्शी, जिला-धार	24/11/09

175342	चेतन सोनोन राव साहेब सोनोन	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50977 12/11/2009	87, मराठी मोहल्ला जिला-इन्दौर
175343	छविकांत बाघमारे बी.पी. बाघमारे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51220 27/11/09	अधनेर रोड, बडोरा चौक, बैतूल, जिला-बैतूल
175344	छाया दुबे महेश दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51224 27/11/09	महेशवरी मुहल हटवारी तोरी बाडा बाजारए, जिला-सागर
175345	छाया पीसे मधुकर पीसे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50962 11/11/2009	श्री एम.एम. पीसे अनुभागिया कृषि विस्तार अधिकारी, मुल्लत बैतूल
175346	दाल भंजन सिंह तोमर रमेश सिंह तोमर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50965 11/11/2009	28, राम नगर मुराद, जिला-ग्यालियर
175347	दर्पण गांगिल राजेश गांगिल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50777 28/07/09	125, गांगिल भवन, जीवाजी गंज घारी ब्लॉक, जिला-मुरैना
175348	दीपक अग्निहोत्री महादेव प्रसाद अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51147 24/11/09	ए.एम. 53, इन्डस्ट्रियल सिटी, निश्तपुरा, जिला-भोपाल
175349	दीपक सिंह ठाकुर मथुरा प्रसाद ठाकुर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50897 4/11/2009	कंचन स्कूल, शास्त्री बॉर्ड जिला- सागर
175350	देल्मन कुमार पनीका उदय लाल पनीका	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51068 19/11/09	अमन चौक, लोडिंग ड्रल पत्राचार कोटमा कालरी, जिला- अनूपपुर
175351	देवेन्द्र छयला महेन्द्र कुमार छयला	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51198 27/11/09	एन.एम.आर.सी. 78 न्यू मिनल रेजीडेन्सी, जे.के. रोड गोविंदपुरा, जिला-अनूपपुर
175352	देवेन्द्र हकीम हुकुम चन्द हकीम	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51066 19/11/09	आसोग्य सदन गोंधी चौक, जिला-बुरहानपुर

175353	देवेन्द्र कुमार चौधरी बाल मुकुन्द चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51171 25/11/09	बी. एम. 157, नेहरू नगर, मोपाल
175354	देवेन्द्र कुमार निरंजन अमृत लाल निरंजन	बी.ए.एम.एस. पं० रविशंकर शुक्ला वि.वि., रायपुर 2009	51078 20/11/09	श्री रामजी लाल मिश्रा, पुराना पन्ना नाका, जिला—छतरपुर
175355	धारिका सचदेवा पवन कुमार सचदेवा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51259 8/12/2009	14/277, भारतकुटी, कृष्णपुरम कॉलोनी, जिला—शिवपुरी
175356	धर्मोन्द्र कुमार चौधरी रेवती रमन चौधरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50920 6/11/2009	गाँव एवं पोस्ट—कुमराय, तह. गधाकोटा, जिला—सागर
175357	धीरेन्द्र वर्मा गया प्रसाद अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51061 18/11/09	दिसलेरी रोड, वार्ड नं. 15, छतरपुर
175358	दिलीप चोहान मंगद सिंह चोहान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50879 26/10/09	गाँव एवं पत्रालय—फटा तह. अलीराजपुर, जिला—अलीराजपुर
175359	दिनेश कर्मा कन्हैया लाल कर्मा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50911 5/11/2009	सुतार मोहल्ला, गाँव रिगनोड, रेलवे स्टेशन रोड, पत्रालय बरेही, जिला—धार
175360	दिनेश कुमार मिश्रा अशोक कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बनारस हिन्दू वि.वि., वाराणसी 2005	50882 27/10/09	मिश्रा पोली क्लीनिक के सामने, कोर्ट मंघन, जिला—सिंगरोली
175361	दिनेश कुमार राजपूत राजेन्द्र सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50731 19/05/09	ए. 63, आदित्यपुरम, मिड रोड, जिला—ग्वालियर
175362	दिपाली मेशराम खेम चन्द्र मेशराम	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50940 10/11/2009	गाँव—मिरगपुर जिला—बालाघाट
175363	दिप्ति धारीवाल सुभाष धारीवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50983 12/11/2009	25, महादेव कॉलोनी, वॉर्ड नं. 6, महीदपुर सिटी, जिला—उज्जैन

175364	दिति किंकर एस.के. किंकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51028 16/11/09	09, मंधाता कॉलोनी, टी.बी.सेनाटोरियम के पास, चिंदवारा
175365	दिति ठाकुर एल.एस. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51188 27/11/09	242, कृष्ण गंज वॉर्ड जिला-सागर
175366	दिव्या पाण्डोले नरेश कुमार पाण्डोले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50774 28/07/09	जी. 44, सी.एल. कॉलोनी, जहाँगीराबाद, भोपाल
175367	दिवाकर राव कदम जगन्नाथ राव कदम	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50851 30/09/09	35 एम.आई.जी. सावरकर नगर, जिला-धार
175368	दुमा रोहिनी कुमार डी.एस.एन. मूर्ति	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51164 25/11/09	क्वा.नं. 23712 रेलवे फिल्टर पम्प, जिला-शहडोल
175369	दुर्गा पवार मंगाराम पवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51301 28/01/10	गाँव-बाडीखुर्द, पत्रालय-भाग्यपुर, तह. भगवानपुरा, जिला-खारगोन
175370	दुर्गेश संधिया राम सल्या संधिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51165 25/11/09	थापक मोहल्ला, पुरानी बस्ती, जिला-मिंड
175371	एकता साहु गणेश प्रसाद साहु	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51030 16/11/09	मंधाता कॉलोनी, टी.बी.सेनाटोरियम के पास, जिला-छिन्दवाड़ा
175372	एकता शर्मा प्रमोद कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51244 30/11/09	शांति कॉलोनी बरारीपुरा, जिला-छिन्दवाड़ा
175373	गजराज सिंह पटेल साहब सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51285 6/1/2010	डा. हंसराज सिंह द्वारा, जिला-नरसिंहपुर
175374	गरिमा जैन नरेन्द्र कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51214 27/11/09	86, आशीर्वाद भवन, रविशंकर वॉर्ड, चमेली, जिला-सागर

175375	गरिमा मंडलोल जगदीश चन्द्र मंडलोल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50896 4/11/2009	15 मिश्रा नगर, एफ.एन. 203, सूर्या अपार्टमेंट, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर
175376	गरिमा पाण्डे नरेश पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50814 27/08/09	नेमा कॉलोनी, तिलक वॉर्ड, देवरी जिला-सागर
175377	गरिमा राठोड़ एस.पी.एस. राठोड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50809 24/08/09	एम.आइ.जी., डी 14 अयोध्या नगर, मोपाल
175378	गौरव बहेरूआ ईश्वर दास बहेरूआ	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51013 16/11/09	वॉर्ड नं. 1, जय प्रकाश नगर, दिवान कॉलोनी, ईतारसी जिला-होशंगाबाद □
175379	गौरव जैन पदम चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50732 3/6/2009	जैन भाजी शोप, कटरा बाजार, सागर
175380	गौरव जोशी जय प्रकाश जोशी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50826 4/9/2009	7 जे.पी. रोड, धार, जिला-धार
175381	गौरव मालविया के.सी. मालविया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50748 2/7/2009	92, जैन नगर, लालघाटी, मोपाल
175382	गौरव पारधी सूरज लाल पारधी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51105 23/11/09	गॉव-जराही, पत्रालय एवं तह.-कीमापुर, जिला-बलागहाट
175383	गौरव पटफोड़े सुखदेव पटफोड़े	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51012 16/11/09	देशबन्धु वॉर्ड, तिकरी, जिला-बैतूल
175384	गौरव वर्मा प्रकाश चन्द्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1977	50788 4/8/2009	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पत्रालय-सेमरी, हरचन्द, तह.-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद
175385	गौतमी चौधरी एस.सी. चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51194 27/11/09	कम्पाउन्डर कॉलोनी, वॉर्ड नं. 7, बैयहार, जिला-बालाघात

175386	गीता जाटव लज्जाराम जाटव	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2008	51054 18/11/09	श्री भगवान सिंह, कार्यालय, सहायक मूभि, सरकेशन, जिला-शजापुर
175387	गिरिराज प्रसाद गुप्ता चेतराम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51344 12/3/2010	गॉव एवं पत्रालय-श्यामपुर, तह.-विजयपुर, जिला-शजापुर
175388	गोपाल माल्विया अंबाराम माल्विया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51195 27/11/09	गॉव-दोखेड़ी, पत्रालय-बडकुममेड़, तह. एवं जिला-उज्जैन
175389	गोविंद प्रसाद साहू शिवदीन साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50786 30/07/09	गॉव व पत्रालय-साईखेड़ा, तह. मुल्लाल, जिला-बैतूल
175390	गोविंद प्रसाद शर्मा बनवारी लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर, 2007	50839 14/09/09	ग्रेड-II, कार्यालय, कॉलेक्ट्रेट, मुरैना
175391	गोविंद शरण द्विवेदी कृष्ण कांत द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50824 31/08/09	गॉव व पत्रालय-कुलुही, जिला-सतना
175392	गुल्योर अहमद गुल मोहम्मद	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50944 10/11/2009	संकट मोचन चौराहा, एम.पी. इग.वैक्स विजय राघवगढ़, जिला-कटनी
175393	गुंजन जैन तेज कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51109 23/11/09	14, महावीर नगर, सेक्टर रोड, जिला-उज्जैन
175394	हरेन्द्र कुमार पटेल बालगोविंद पटेल	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	50740 11/6/2009	गॉव व पत्रालय-अंजानिया, रंग ऑफिस के पास, जिला-माण्डला
175395	हेमा बेले सूरत लाल बेले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51207 27/11/09	ई.8, गुलमोहर एक्सटेंशन, मकान नं. 120, वाइसरॉय पार्क, भोपाल
175396	हेमा माण्डलोई शिव सिंह माण्डलोई	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51215 27/11/09	2148, डी.सेक्टर, सुदामा नगर, जिला-इन्दौर

175397	हेमंत सिंह रॉय विरेन्द्र कुमार रॉय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50954 11/11/2009	थाना कोलगांवा, पुलिस कॉलोनी, जिला-सतना
175398	हीरल सुधार मन्नालाल सुधार	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2007	50873 26/10/09	श्री दीपक जोशी, 40 राजस्व कॉलोनी साइलाना, जिला-रतलाम
175399	हितेश निराले भीकाजी निराले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51339 4/3/2010	गाँव-साईखेड़ा, पत्रालय-लोनारा, तह.एवं जिला-खारगोन
175400	टैदेश विश्वकर्मा सनद कुमार विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51094 20/11/09	गाँव व पत्रालय-विनपरा, तह. निवाड़ी, जिला-टिकमगढ़
175401	इरफान खान अय्यूब खान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51245 30/11/09	50/1, नया हरि फाटक, महाकल मार्ग, नई दिल्ली दरबार के सामने, उज्जैन
175402	ईश्वर चन्द्र पुरिया हरक चन्द्र पुरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2007	50902 4/11/2009	गाँव-रोशनी, तह. चनेरा, नया हरसूद, जिला-खांडवा
175403	इस्लाम मोहम्मद खान हमोद खान	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51170 25/11/09	गाँव व पत्रालय-नंदनवाड़ा, तह. जटारा, वाया मोहनगढ़, जिला-टिकमगढ़
175404	जगदीश प्रसाद पुरन लाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2010	51345 12/3/2010	गणेश गंज मार्ग बुहगीपुरा, जिला-विदिशा
175405	जगदीश सहाय बैजनाथ सहाय	बी.ए.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1984	50739 11/6/2009	एम.आई.जी.सी. 141, इन्दिरा कॉलोनी, जिला-बुरहनपुर
175406	जय बाबू अहिरवार रामचरण अहिरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50734 11/6/2009	खारी फाटक बहार, मकान नं. 236, विदिशा
175407	जय मावना वर्मा एस.के. वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51219 27/11/09	श्री कोमल चन्द्र जैन बाजार चौक, लखनादोन, जिला-सिवनी

175408	जय श्री वारसकर एस.आर. वारसकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51082	एस. 137, नेहरू नगर, भोपाल
175409	जयन्ती लाल पाटीदार शोभा राम पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51036	गॉव व पत्रालय-पिप्लरवा, तह. कुकशी, जिला-धार
175410	जितेन्द्र कुमार पाठक मन्नु लाल पाठक	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51003	श्री विहार कॉलोनी, गली नं० 3, कच्चाहारी के पीछे, दातिया
175411	जितेन्द्र मोहन वर्मा लाल दास वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51070	महेन्द्र प्रताप नगर, गली नं. 5, सताई रोड, जिला-छतरपुर
175412	जितेन्द्र सोनवाने सीताराम सोनवाने	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51197	संमति हॉस्पिटल शनि मंदिर, रोड फुव्वारा चौक, बुरहानपुर
175413	ज्योति धाकड़ लक्ष्मी कांत धाकड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51153	न्यास कॉलोनी, ई.डब्ल्यू एस० 338-339 इतारसी, जिला-होशंगाबाद
175414	ज्योति धाकड़ बी.एम. प्यासी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51196	माया सदन, विराट नगर के पीछे, पश्चिमी सतना
175415	ज्योति दुबे गुलाब प्रसाद दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	511289	साकेत स्कूल के पीछे, दुर्गा नगर, जिला-विदिशा
175416	ज्योति जैन जैनपाल जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51290	कन्नोड रोड आस्ता, जिला-सिंहार
175417	कल्पना महेश्वरी राजेश महेश्वरी	बी.ए.एम.एस. नागपुर वि.वि., नागपुर, 1985	51348	156.157, स्कीम नं. 114, पार्ट 1, ए.बी. रोड, इन्दौर
175418	कमल सिंह परिहार प्रेम सिंह परिहार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51033	गॉव व पत्रालय-नगजहिरी, तह. एवं जिला-खारगोन -

175419	कमलेश चांदसोर देवराव चांदसोर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50888 29/10/09	अम्बेडकर वॉर्ड 13, बसोदी, मोहल्ला टिकारी, जिला-बैतूल
175420	कमलेश कुमार रघुवंशी हरि सिंह रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर 2008	50834 8/9/2009	353, सवारंकर कॉलोनी, मेघे-टॉकिज, जिला-विदिशा
175421	कमलेश मुझायदा रुखदु सिंह मुझायदा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51258 28/01/10	गॉव-मैसल्या नयापुरा, पत्रालय-तलवाडा, तह. कुक्शी, जिला-धार
175422	काति कुशवाहा अशोक कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. का. सिं. द. सं वि.वि. दर्भंगा 2005	51341 9/3/2010	क्वा नं. बी / 159, जमुना, माइनेर्स पत्रालय जमुना, कालरी, अनूपपुर
175423	करन दवे किरण दवे	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50947 10/11/2009	138, फदनीस कॉलोनी, ए.बी. रोड, जिला-इन्दौर
175424	कविता अग्रवाल मुन्नालाल अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. पूना वि.वि. पूना 1999	50742 25/06/09	अग्रवाल क्लीनिक, मस्जिद रोड, मकान नं. 125, तह. खिरकिया, जिला-हरदा
175425	कविता चौधरी रामचरण चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50735 11/6/2009	खारी फाटक बहार, रविदास धर्मशाला, मकान नं. 236, विदिशा
175426	कविता रायकँवर अलख प्रकाश रायकँवर	बी.ए.एम.एस. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., श्रीनगर 2006	50856 5/10/2009	महर्षि विद्या मंदिर के पास, द्वारका नगर, जिला-रीवा
175427	केशव गोलिया मेहताब सिंह गोलिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50799 17/08/09	प्रेमकुंज एम.आई.जी. 98 श्री रामेश्वरम एक्सटेंशन, बगमुगालिया भोपाल
175428	केशव सिंह राजपूत नन्धूराम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50905 4/11/2009	उदय सिंह वोहरे, किरार कॉलोनी, कांपु रोड, लक्ष्कर, जिला-ग्वालियर
175429	खूम सिंह मोरी सूरला मोरी	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51096 20/11/09	मोहल्ला वैदात्तोर, गॉव- फिफवाडा, पत्रालय-गजगोटा, तह-कुक्शी, जिला-धार

175430	खुराबू रतनेरे महेश रतनेरे	बी.ए.एम.एस. छत्रपति साहू महाराज वि.वि., कानपुर, 2005	51324 8/2/2010	49 सेक्टर ए. स्टाइस नं. 4, स्कीम नं. 78 आरण्या नगर, इन्दौर
175431	किरण पटेल प्रभाकर पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51065 19/11/09	बड़े बालाजी शर्मा गणेश मंदिर की गली, महाजन पेथ
175432	कीर्ति पटेल एस.एल. पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50835 14/09/09	वॉर्ड नं. 4, फुटेरा मुक्तिधाम के पास, हटा नाका दामोह
175433	कोकिला रानी सारीवान ज्ञान चन्द्र सारीवान	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि. ग्वालियर, 2007	51116 23/11/09	रेलवे स्टेशन के सामने, जेठारी, जिला-अनूपपुर
175434	कोसलेन्द्र प्रसाद मिश्रा राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2007	51267 14/12/09	ए. 16, अंशुल विहार, चिमनी प्लॉट, टनागपुर रोड के पीछे होटल गुल्जार, जबलपुर
175435	कुलदीप सावरकर हेमराज सावरकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51228 27/11/09	गॉव, पत्रालय एवं तह-सामीय, जिला-छिन्दवाड़ा
175436	कुलदीप सिंह नागावे मोती लाल नागावे	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51185 26/11/09	सुधा सदन, मोजपुरिया पछोर, राजगढ़
175437	कुशल यादव लक्ष्मण सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50759 14/07/09	बगल खाना के पीछे, छोटा बाजार, जिला-दातिया
175438	ललिता जामरे गिल्दार जामरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50804 19/08/09	गॉव-लिम्बी, पत्रालय-पटी तह. एवं जिला-बादवानी
175439	लक्ष्मी कांत पाण्डे तुलसीदास पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50852 5/10/2009	गॉव एवं पत्रालय-गोवारी, तह. मेहर, जिला-सतना
175440	लक्ष्मी नारायण माण्डवी सियाराम माण्डवी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51263 10/12/2009	श्री एच.आर. गजेन्द्र द्वारा, 123 2 सी सकट नगर, हबीबगंज, मोपाल

175441	लीलाधर नाहर यशवत नाहर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50976 12/11/2009	पटेल श्री गाँव व पत्रालय-पीपल रावा, तह. सोंकच, जिला-देवास
175442	लीना सतीजा श्याम सुंदर सतीजा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50764 20/07/09	शांति निकेतन, गुरुनानक वॉर्ड पांधुराना, जिला-छिन्दवाड़ा
175443	लीशम राज राजपूत एस.एस. राजपूत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50909 4/11/2009	मकान नं. 1520/3, नवनिवेश क्लाय, गंगानगर गद्दा, जबलपुर
175444	लोकेन्द्र नाहर, सुभाष चन्द्र नाहर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50978 12/11/2009	गाँव व पत्रालय-पीपलरावा, तह.-सोनकछ, जिला-देवास
175445	लोकेन्द्र सोलंकी प्रेम नारायण सोलंकी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51146 24/11/09	एम. आई.जी 86, इन्दिरा नगर, जिला-उज्जैन
175446	मदन वासकले कुरुछिया जी. वासकले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51114 23/11/09	गाँव-करनपुर, पत्रालय-भटकी, तह-पांसेमल, जिला-बड़वानी
175447	मधुलिका रावल रतन लाल रावल	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन, 2007	51024 16/11/09	94, एम.बी. नगर, जिला-स्तलाम
175448	मधुसूदन शर्मा महेश चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50802 18/08/09	नये थाने के सामने, बसंत नगर, जीरा, जिला-मुरैना
175449	माधवी शर्मा रमेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51193 27/11/09	शिवाजी वॉर्ड, मकान नं. 282, रीठा फाटक रोड, बजारिया, जिला-विदिशा
175450	महेन्द्र कुमार बागरी राम बिहारी बागरी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50827 4/9/2009	मकान नं.7, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75, पल्ला रोड, नागोड, जिला-सतना
175451	महेन्द्र कुमार धानक रतन लाल धानक	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51192 27/11/09	23, अम्बिका नगर, बंगाली चौराहा, जिला-इन्दौर

175452	महेन्द्र सिंह किरार जगदीश सिंह किरार	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50812 26/08/09	मोहल्ला, वॉर्ड नं. 10, मकान नं. 238, गली 3, अम्बाह, जिला-मुरैना
175453	महेन्द्र तिवारी राम आसरे तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50967 11/11/2009	विरेंद्र कॉलोनी, नोगोन, जिला-छतरपुर
175454	महेश बोरालिया मंगीलाल बोरालिया	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर, 2007	50893 3/11/2009	26 भगत सिंह नगर, संवर रोड, जिला-इन्दौर
175455	महेश धांगर वक्शी राम धांगर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50951 10/11/2009	गाँव-सपुरा, तह. बागली, जिला-देवास
175456	महेश कुमार माहोर राम सहाय माहोर	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2002	51328 15/02/10	मकान नं. 1203, शाहीनका, गढ़ा, जिला-जबलपुर
175457	ममता साहू रामदयाल साहू	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50726 13/05/09	2119, बब्बर की गली मस्ताना चौक, रांझी, जिला-जबलपुर
175458	ममता वर्मा राम सहाय वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50752 7/7/2009	रेलवे क्वार्टर आर.बी. II 87, बी राजधानी कॉलोनी, खांडवा
175459	मनीष हिंडोलिया ओ.पी. हिंडोलिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51352 25/03/10	38, गंज मोहल्ला, जिला-भिट
175460	मनीष कुमार गुप्ता लालाराम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51051 18/11/09	हरिहर रोड, हरपालपुर जिला-छतरपुर
175461	मनीष कुमार जैन रिशब कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51071 19/11/09	142, नगर पालिका क्वार्टरस, उषा कॉलोनी, डाबरा, ग्वालियर
175462	मनीष कुमार मनदुराने गोकुल प्रसाद मनदुराने	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51122 23/11/09	आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पीछे, महावीर वॉर्ड 19, तिकारी बैतूल

175463	मनीष कुमार सावनेर शिव कुमार सावनेर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50761 14/07/09	गोंव-अमलपुरा, पत्रालय-भामगढ़, तह. खाण्डवा, जिला-पूर्वी निमद
175464	मनीष कुर्मी गया प्रसाद कुर्मी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50933 7/11/2009	गोंव-खकारिया, पत्रालय-महाराजपुर तह. देवरी, जिला-सागर
175465	मनीष राय कालु राम राय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50998 12/11/2009	श्री महेन्द्र राय, चौराहा, सुभाष वॉर्ड हटा, जिला-दमोह
175466	मनीषा वर्मा मंगीलाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51242 30/11/09	टाइप III/1, टेलीफोन कॉलोनी, लालघाटी, जिला-शजापुर
175467	मंजु लता पनीका संत राम पनीका	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51090 20/11/09	बी.एम. 157, नेहरू नगर पुलिस लाइन, भोपाल
175468	मनोहर लाल मेनारिया कन्हैया लाल मेनारिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51100 20/11/09	गोंव-बबरेचा, पत्रालय-लहुसा, तह. एवं जिला-मण्डसोर
175469	मनोज अहीरवार पी.आर. अहीरवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2007	51129 23/11/09	सी. 8, पुलिस वायरलेस कॉलोनी, कम्पु, एस.ए.एफ. ग्वालियर
175470	मनोज कुमार चौरसिया राम नाथ चौरसिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50971 11/11/2009	कुंज बिहारी जी मंदिर, मोहल्ला खरगापुर, जिला-टिकमगढ़
175471	मनोज सिंह रघुवंशी छत्रसाल सिंह रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50863 13/10/09	गोंव व पत्रालय-वंकनगन पुर, तह. चौराय, जिला-छिन्दवाड़ा
175472	मनोज वानखेड़े कन्हैया लाल वानखेड़े	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50885 27/10/09	कुक्शी रोड, सिधवा, तह. मनावर, जिला-धार
175473	मयंक परसाई राजेन्द्र परसाई	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51041 17/11/09	1/4, पटेल मार्ग, जम्बुगली, तह. कुक्शी, जिला-धार

175474	मेधा चौधरी एस.के. चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50811	एम.आई.जी. 1/1/15, इन्दिरा नगर, बारा समन क्लीड, रीवा	24/08/09
175475	मीना सिंह रवि प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. लखनऊ वि.वि., लखनऊ 2008	50787	सी. 124, न्यू मिलन रेजीडेन्सी, जे. के. रोड, मोपाल	30/07/09
175476	मीनाक्षी कुमार एस.एस. कुमार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51115	216, कौशल नगर, मैरोपुर, जिला-मोपाल	23/11/09
175477	मेघना मसीह अरविंद मसीह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50890	मकान नं. 3114, विजय नगर, छप्पर रामपुर,	31/10/09
175478	मिथलेश कुमार मण्डल योगेन्द्र कुमार मण्डल	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर, 2008	50821	मकान नं. 20, विजय नगर, अमखो, लक्कर, ग्वालियर	31/08/09
175479	मोहम्मद इमराम मुबारक अली	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50753	रवि सदन, गली नं. 5, उमरी, जिला-सतना	13/07/09
175480	मोहम्मद मुदस्सिर मोहम्मद फारुक	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50901	225, दक्षिण मिलोनीगंज, मसूराबाद, जिला-जबलपुर	4/11/2009
175481	मोनिका उमरे के.के. उमरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51151	एस.डी. 563, एस.बी.आई. के पास, मध्य विकास मण्डल, सामी, बैतूल	24/11/09
175482	मुकेश सिंह बनमाली लाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50945	32, चिपेती मोहल्ला, हनुमान मन्दिर, मन्दर, जिला-दातिया	10/11/2009
175483	मुकुल कुमार नेमा मदन गोपाल नेमा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50919	नेमा मेडिकल स्टोर्स, मॉकट राहली तह. राहली, सागर	5/11/2009
175484	मुन्ना लाल मुकल बाबुलाल मुकल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50999	गाँव-करोडिया खुर्द, पत्रालय-नागपुर, तह.-मनावर, जिला-धार	12/11/2009

175485	मुरलीधर महेश्वरी कैलाश चन्द्र महेश्वरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50857 7/10/2009	हैड पत्रालय-चकलवी, तह. नसखयला गंज, जिला-सिहोर
175486	नलिन राठोड़ मधुसूदन राठोड़	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51008 13/11/09	बसंत क्लोथ स्टोर 15, महात्मा गोंधी मार्ग, बदवाह, जिला-खारगोन
175487	नम्रता शाह जगदीश शाह	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50783 30/07/09	सरस्वती भवन, शनवारा, रोड जय स्तंभ, बुरहानपुर
175488	नन्दिनी अहीरवार कमलेश अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51217 27/11/09	मकान नं. 12, स्नेह नगर, होशंगाबाद रोड, जिला-भोपाल
175489	नरेन्द्र सिसोदिया राम सिंह सिसोदिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50910 5/11/2009	गाँव-तितरनिया, तह0 झिमिया, जिला-खारगोन
175490	नरेन्द्र सूर्यवंशी नंदलाल सूर्यवंशी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51040 17/11/09	46, राजेन्द्र मॉर्ग, ताल, जिला-रतलाम
175491	नरेश सिंह बघेल द्वारिका प्रसाद बघेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51067 19/11/09	राम नगर मुडिया, पहार लक्ष्कर, ग्वालियर
175492	नसीब खान नसीरुद्दीन खान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51092 20/11/09	7/403, अल्लाबक्श कॉलोनी, बोडाबाघ, जिला-रीवा
175493	नवोदित राठोड़ एस.एन. राठोड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	51239 30/11/09	चन्द्र शेखर वॉर्ड, तिकासी लिंक रोड, जिला-बैतूल
175494	नाजिया खान अब्दुल नैझम खान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51060 18/11/09	5/1, कोट मोहल्ला अहिल्या, बाई मार्ग, जिला-उज्जैन
175495	नीलम श्रीवास्तव कौशल किशोर श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50738 11/6/2009	208, वसुन्धरा सुरेन्द्र पैलेस, जिला-भोपाल

175496	नीरज कुमार पाली एन.के. पाली	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51150 24/11/09	सी-10, अमिलाषा मिनल रेजीडेन्सी, फेज 1, गोविंदपुरा, भोपाल
175497	नीरज शर्मा शिव कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50959 11/11/2009	3/19, भदोरिया की खिरकी, दोमे बाबा की गली, जिला-दातिया
175498	नीरज विश्वकर्मा नंद किशोर विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51231 30/11/09	त्रिलोकी नगर, रेलवे स्टेशन के पीछे, जिला-छिन्दवाड़ा
175499	नीतू चौधरी एम.एल. चौधरी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	51287 8/1/2010	राजपाल चौक, मिश्रा कॉलोनी, जिला-छिन्दवाड़ा
175500	नीतू गुप्ता कपीलदेव गुप्ता	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51256 7/12/2009	एम.एस. बर्दान मिनरल्स, महाराणा प्रताप वॉर्ड, कॉलेक्ट्रेट कटनी
175501	नीतू मोंगिया हेमराज सिंह मोंगिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50883 27/10/09	गॉव-बिल्डिखिया, पत्रालय-कोलुआ, रैसान रोड, भोपाल
175502	नीतू वर्मा संतलाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51148 24/11/09	जीवन ज्योति कॉलोनी, गोपाल गली नं. 1, जिला-सतना
175503	नेहा गर्ग शरद गर्ग	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51221 27/11/09	कन्या धावरी स्कूल, धवारी मोहल्ला, जिला-सतना
175504	नेहा जैन विमल कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51225 27/11/09	नथुराम विमल कुमार जैन, सिहोरा, जिला-सागर
175505	निधि अग्रवाल नारायण दास अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50797 17/08/09	न्यू हाउसिंग बोर्ड, एम.आई.जी., 25, रेवा होटल, शाहदोल
175506	निधि दुबे आर.पी. दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51084 20/11/09	ए. 60, छत्रसाल नगर, फेज 1, इन्द्रपुरी, भोपाल

175507	निधि गुप्ता केशव प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. सम्पूर्णनिन्द संस्कृत वि.वि., वाराणसी 2007	51238	ए-11, प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, जिला-मंदसौर
175508	निधि सिंघल राजकुमार सिंघल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51262	राजकुमार सिंघल, करल वाले, लक्ष्मीपुरा, इतवारा बाजार, जिला-सागर
175509	निकिता जयसवाल एम.एल. जयसवाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51316	जी. 3/328, फ्लेट नं. 205, सिल्वर टयूलिप गुल्मोहर, भोपाल
175510	निलेश सोनी ओमकार प्रसाद सोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50921	सोनी मेटल मार्ट, मेन रोड, बस स्टैण्ड के पीछे, जिला-जबलपुर
175511	निर्मला चौहान शिव राम चौहान	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50822	चांदनी चौक, सेगांव, तह-सेगांव, जिला-खारगोन
175512	निशा मदोरिया के.पी.एस. मडोरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50963	बी 97, पुशकर कॉलोनी, गोले का मंदिर, जिला-ग्वालियर
175513	निशा गौतम एन.एल. अहीरवार	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51247	जी. 171, रेगल होम एक्सटेंशन, अक्कपुरी खजूरीकलों रोड, भोपाल
175514	निशांत जैन सुभाष चंद्र जैन	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51253	हनुमान लाल 519, हनुमान मंदिर, जबलपुर
175515	नितेश कुमार व्यास विनय व्यास	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	51174	मकान नं. 11, गली नं. 2, इब्राहिमगंज, भोपाल
175516	नितिका अग्रवाल सुरेश अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, 2008	50836	18, महावीर नगर, 304, वी. सागर अपार्टमेंट, कांडिया रोड, इन्दौर
175517	नितिन अवस्थी अरुण अवस्थी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50832	गाँव-जडोक्या, पत्रालय बघोली, तह. व जिला-बैतूल

175518	नितिन कुमार रघुवंशी राम सिंह रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51269 17/12/09	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेला ग्राउण्ड के पास, जिला-अशोक नगर
175519	नितिन मोरे हर प्रसाद सेन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50784 30/07/09	महावीर कॉलोनी, पुराना पन्ना नाका के पास, जिला-छतरपुर
175520	नितिन पाण्डे सी.एल. पाण्डे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50837 14/09/09	वॉर्ड नं. 11, रंगे ऑफ., वंदा बेलाय, जिला-सागर
175521	नितिन टेकरे राम कुमार टेकरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51077 20/11/09	गाँव-चोरबदा, लहगहुआ, पत्रालय-समा नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा
175522	नितिन तिवारी चन्द्र शेखर तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51273 23/12/09	मकान नं. 378, एच.आइ.जी. फेज-II, अयोध्या नगर, भोपाल
175523	ओम मिश्रा ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51288 11/11/2010	गाँव-अगडल, पत्रालय-चोरहटा, जिला-रीवा
175524	ओवेद अहमद अंसारी मुमताज अहमद अंसारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51126 23/11/09	51, सरदार एजेन्सी, गोहालपुर, जिला-जबलपुर
175525	पंकज मसोदकर गुलाब राव मसोदकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50949 10/11/2009	पंकज ऑटो पार्ट्स, बडोरा चौक, जिला-बैतूल
175526	पंकज रजोरिया ठाकुर दास रजोरिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50950 10/11/2009	न्यू कॉलोनी 1/215 विरला नगर, जिला-ग्वालियर
175527	पंकज शिवहारे महेश कुमार शिहारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50810 24/08/09	267, शिवपुरी पोली क्लीनिक एवं पैथोलोजी झांसी तिराहा, शिवपुरी
175528	प्रमल सिंह सिसोदिया रघुवीर सिंह सिसोदिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51080 20/11/09	डी.के. 1/2, दानिशकुंज, कोलर रोड, भोपाल

175529	प्रमेन्द्र अहीरवार एन. पी. अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50781	ई-2, सी.एस.डी एवं वर्कशोप, भडभाडा रोड, मोपाल	29/07/09
175530	पारुल गोस्वामी चन्द्र शेखर गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51296	एफ. 49/22, दक्षिण टी.टी. नगर, मोपाल	21/01/10
175531	पारुल खारे आर.पी. खारे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51306	ब्रांच मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक, हैड ब्रांच, जिला- पन्ना	29/01/10
175532	पीयूष गुप्ता मधुर प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51333	बताशा मर्चेंट झंडा बाजार, जिला-कटनी	24/02/10
175533	पूजा अग्निहोत्री विद्युत मुषण अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि. उज्जैन, 2007	51331	के.पी. तिवाड़ी, 23/85, बड़ी दरगाह के पीछे, अमाहिया रीवा	15/02/10
175534	पूनम अखण्ड पी. एल. अखण्ड	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51351	एल.आई.जी. 19 भारती निकेतन, गोविंदपुरा, मोपाल	25/03/10
175535	पूनम चौधरी शोभाराम चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51088	एच.आई.जी. 80, फाइन एवेन्यू, फेज-1, नयापुरा, कोलर रोड, मोपाल	20/11/09
175536	पूनम तिवाड़ी मदन मोहन तिवाड़ी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50794	सी-548, पुष्पा नगर क्लाय, महामल का बाग के पास, मोपाल	11/8/2009
175537	प्राची अग्निहोत्री सुभाष अग्निहोत्री	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51130	5, सिविल लाइन्स इन्दिरा कॉलोनी, पीरम्बरा के पास, मंदिर सागर	23/11/09
175538	प्राची जैन सुरेश चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51168	एल.आई.जी. 123/124, मिशन कम्पाउण्ड, वॉर्ड नं. 5, लहर, जिला-दामोह	25/11/09
175539	प्रदीप गुप्ता राम भगत गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51009	मेन मार्केट, पत्रालय के पास, जिला-उमरिया	13/11/09

175540	प्रदीप कुमार गौतम कृष्ण कुमार गौतम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51057	सिविल लाइन कोर्ट के पास, नागोड़, जिला-सतना
175541	प्रदीप कुमार महोदिया नथु लाल महोदिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50815	गॉव व पत्रालय-खालेसर रोड महरोय, जिला-उमरिया
175542	प्रदीप सिंह सोलंकी महिपाल सिंह सोलंकी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50830	गॉव व पत्रालय-गरोली, तह. नौगोन, जिला-छत्रपुर
175543	प्रदयुम्न जोशी श्रीकृष्ण जोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50861	विरिंदवान कॉलोनी, ए.बी. रोड, खालघट, तह. धरमपुरी, जिला-धार
175544	प्रज्ञान केशव प्रसाद त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51250	बी 11/11, महानंदा नगर, जिला-उज्जैन
175545	प्रसन्न जैन कोमल चन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50918	मकान नं. 205, धनलक्ष्मी अपार्टमेंट, प्रदेशीपुरा चौराहा, इन्दौर
175546	प्रशांत पटेल पुरुषोत्तम लाल कुर्मी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51292	ई-63 नेहरू नगर, भोपाल
175547	प्रशांत तिवारी सुखदेव प्रसाद तिवारी	बी.ए.एम.एस. भारती विद्यापीठ पुने 2007	51282	एफ-1, शक्ति अपार्टमेंट राइट टाउन, गेट नं. 4, जबलपुर
175548	प्रतिभा गजमिये रघुनाथ गजमिये	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51172	इन्दिरा गॉंधी वॉर्ड नं. 15, सरकारी हास्पिटल सोनसार, जिला-वन्डवारा
175549	प्रतीक्षा भांगे महेन्द्र भांगे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51200	सयाना शंकर के पास, पंधामा, जिला- छिन्दवाड़ा
175550	प्रतिभा डामौर जोसफ डामौर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51119	ए-2, मंगल विहार कॉलोनी, राजीव नगर, जिला-रतलाम

175551	प्रवीन कुमार डांगे अजबराव डांगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50796 12/8/2009	सुपर ई 714 मथारदेव क्लाइ सामी, जिला-बैतूल
175552	प्रवेश भारद्वाज दिनेश कुमार भारद्वाज	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50843 16/09/09	ऑफिसर्स कॉलोनी, जिला-थांडला, जिला-झुआ
175553	प्रवेश श्रीवास्तव ओ.पी. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51144 24/11/09	नानाजी वाली गली, वॉर्ड नं. 2, फ्रीगंज गंजबसोदा, जिला-विदिशा
175554	प्रेम लता परमार रोकर सिंह परमार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50960 11/11/2009	ई.डब्ल्यू.एस. 383, इन्दिरा नगर, मदिप, जिला-रायसेन
175555	प्रेम नारायण अहीरवार रघुवर प्रसाद	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, 2007	50917 5/11/2009	गाँव-चवावली पत्रालय-पेठाराम, जिला-टिकमगढ़
175556	प्रेम नारायण सिंह ठाकुर खिलन सिंह ठाकुर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50892 3/11/2009	शिवाजी स्कूल, इन्दिरा कॉलोनी सिविल वॉर्ड नं. 2, दामोह
175557	प्रेम शंकर घोरमारे गोकुल प्रसाद घोरमारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51280 6/1/2010	गाँव व पत्रालय-बडोरा, जिला-बैतूल
175558	प्रितेश खरते सुमेर सिंह खरते	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51034 16/11/09	बी-14 गोरीधाम कॉलोनी, जिला-खारगोन
175559	प्रीति चन्देरिया संतोष कुमार चन्देरिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51128 23/11/09	ई.ई. 413, दीन दयाल नगर, जिला-ग्वालियर
175560	प्रीति शिल्पी रेवाराम शिल्पी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51208 27/11/09	एच.आई.जी. 3, 543, अरविंद विहार, बगमुगलिया, जिला-भोपाल
175561	प्रितु तिवारी गणेश कुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50746 2/7/2009	गाँव- सोराहिया, पत्रालय-गोंदरी, जिला-रीवा

175562	प्रिया श्रीवास्तव आर.के. श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, 2008	51236 30/11/09	1573, नेपियर टारन, गृह विज्ञान, कोल रोड, जिला-बैतूल
175563	प्रियंका धुर्वे गोपाल सिंह धुर्वे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51020 16/11/09	प्रतिक सदन राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज, जिला-बैतूल
175564	प्रियंका गुप्ता रमेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51249 1/12/2009	2 ए. तिलक नगर, एन.के. हॉस्पिटल, जावरा चौपति रोड, जिला-रतलाम
175565	प्रियंका झारवाड़े बी.आर. झारवाड़े	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50982 12/11/2009	चित्र टाइप के पास, चन्द्र शेखर वॉर्ड, जिला-बैतूल
175566	प्रियंका खरे रामरतन खरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51309 3/2/2010	220, चित्रांशु कॉलोनी, मार रोड, जिला-टिकमगढ़
175567	प्रियंका शर्मा हरिओम शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50755 14/07/09	प्रियंका मेडिकल स्टोर्स, शुजलपुर मण्डी, जिला-शाजापुर
175568	प्रियंका तिवारी संतोष कुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51251 4/12/2009	शिवराज सिंह कॉलोनी तिल्ली, जिला-सागर
175569	प्रियंका जाकरा मोहन लाल जाकरा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51064 19/11/09	124, पुष्प कुंज आराधना कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल
175570	पुष्पेंद्र कुमार सोनी धर्म दास सोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50942 10/11/2009	हनुमान गंज सोनी मोहल्ला, मानपुर, जिला-उमरिया
175571	राघवेन्द्र कुमार दुबे विनोद कुमार दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50773 28/07/09	17 बटालियन के पीछे, 3 गेट, इटावा रोड, मिण्ड
175572	रागिनी शर्मा राम प्रकाश शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50855 5/10/2009	ए.जी.एच. 2, कृषि विभाग, परिसर देहात थाना रोड, जिला-विदिशा

32

175573	राहुल बंसोड पी.एस. बंसोड	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50776	मिल्द्री डेरी फॉर्म, मण्डला रोड, जिला-जबलपुर	28/07/09
175574	राहुल गुप्ता रमेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51187	श्री बाबू लाल गोंधी रोड, टिगेल्ला दरोगा वाली गली, दातिया	27/11/09
175575	राहुल जाडिया जगदीश प्रसाद जाडिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50730	सी-294, शाहपुरा सी. सेक्टर, आयुषमान के सामने, मोपाल	19/05/09
175576	राज कुमार पटेल गजोधर पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	51136	नई कृषि उपज मण्डी के पास, सागर नाका, जिला-दामोह	24/11/09
175577	राज कुमार पाटीदार बद्रीलाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	51209	पाटीदार रैस्टोरेन्ट बी. स्टैण्ड सिंघाना, तह. मनावर, जिला-धार	27/11/09
175578	राजेन्द्र भाई ठाकुर परम लाल ठाकुर	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, 2008	50894	कांजी हाउस वाली गली गोंव व पत्रालय-वारा, तह. वंदा, बेलाय, जिला-सागर	3/11/2009
175579	राजेन्द्र कुमार आर्य लल्लू प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50972	गोंव व पत्रालय-सोहनवाल अपराहरी, टोला, जिला-सतना	12/11/2009
175580	राजेश आंकरे सी. एस. आंकरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50931	63, गोमती कॉलोनी, नेहरू नगर, मोपाल	6/11/2009
175581	राजेश जोगी जीवन राम जोगी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51038	16/2, तेजपुर गडवाडी राजेन्द्र नगर, जिला-इन्दौर	17/11/09
175582	राजेश सिंह केशव सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51035	पत्रालय-हरदुआ थाना, बड़ी सेमरिया, तह. सिरमौर, जिला-रीवा	16/11/09
175583	राजेश सिंह मदोरिया धीरेन्द्र प्रताप सिंह मदोरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50860	सूर्य रोशनी लिमिटेड, मलनपुर, जिला-मिण्ड	12/10/2009

175584	राजेश सिंह यादव राम प्रसाद यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50878	वॉर्ड नं. 12, गोहाडी, गेट गोहाड, जिला-भिण्ड	26/10/09
175585	राजकुमार पटेल राजेन्द्र सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51275	गॉव व पत्रालय-खेरूआ, तह. गदरवारा, जिला-नरसिंहपुर	23/12/09
175586	राजकुमार रघुवंशी प्रयाग सिंह रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51145	हरिओम किराना स्टोर्स, बेलोट, बाईपास रोड, गंज बसोदा, विदिशा	24/11/09
175587	राजकुमार परिहार ए.आर. परिहार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51246	47, सिद्धार्थ नगर, इटावा उज्जैन रोड, जिला-देवास	1/12/2009
175588	राजरानी अग्रवाल सुनील अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. नागपुर वि.वि., नागपुर 1990	50768	जिंदल डायग्नोस्टिक, नेहरू रोड, बुधवारी बाजार, जिला-सिवनी	23/07/09
175589	राकेश कुमार मौर्य सुंदर लाल मौर्य	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51154	मकान नं. 34, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बी.यू. कैम्पस, जिला-मोपाल	24/11/09
175590	राकेश पाटीदार बाबूलाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	51210	गॉव लोहारी, तह. कासराबाद, जिला-खारगोन	27/11/09
175591	राखी चौधरी गोकुल प्रसाद चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51202	अहमद नगर, गोपालगंज, जिला-सागर	27/11/09
175592	राम कुमार पटेल नर्मदा प्रसाद पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51135	नई नल मण्डी के पास, सागर नाका, जिला-दामोह	24/11/09
175593	रमेश प्रसाद गुप्ता सिपाही साहू	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2008	51079	क्यू.नं. सी/19, कपिलवाधरा, पत्रालय-बिजुरी, जिला-अनूपपुर	20/11/09
175594	रंजना राय विष्णु प्रसाद राय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51102	एच-77, शहनशाह गॉर्डन, गेविंदपुरा, मोपाल	20/11/09

175595	रानु जैन प्रकाश चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51111 23/11/09	द्वारा महावीर जनरल स्टोर्स, खारी फाटक के बाहर, विदिशा
175596	रतन प्रिया श्रीवास्तव सुबोध श्रीवास्तव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51161 25/11/09	50, कमला भवन के पीछे, नत्थु खेड़ी, जिला-गुना
175597	रतन सिंह धुर्वे गरिबा सिंह धुर्वे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50866 13/10/09	गाँव बाइपास, पत्रालय-धवतरि, तह. एवं जिला-दिंदोरी
175598	रत्नाकर पाण्डे लाल बिहारी पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2007	50741 25/06/09	गाँव-मामराहा, पत्रालय-देवराहा, तह. रामनगर, जिला-सतना
175599	रत्नेश तिवाड़ी रघुनंदन तिवाड़ी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51229 27/11/09	एल.आई.जी. 40, राजीव नगर कॉलोनी, शिवाजी बॉर्ड, जिला-सागर
175600	रवेन्द्र सिंह शिवाधर सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50847 30/09/09	गाँव व पत्रालय-आवेर, जिला-सतना
175601	रवि प्रकाश सिंह ओम प्रकाश सिंह	बी.ए.एम.एस. कानपुर वि.वि. कानपुर 1992	50785 30/07/09	सी-124, न्यू मिलन रेजीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल
175602	रविन्द्र कुमार बबली दशरथ प्रसाद बबली	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51297 21/01/10	विश्वेश्वरिया समिति, कैम्पस समन, एन.एच. 7, जिला-रीवा
175603	रविराज सिंह परिहार नागेन्द्र सिंह परिहार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51103 20/11/09	गाँव व पत्रालय-अम्कुल थाना जासो, तह.-नागोड, जिला-सतना
175604	रीना गुप्ता श्याम लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51166 25/11/09	श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, गॉंधी चौक, जिला-शिवपुरी
175605	रीना जैन महेन्द्र कुमार जैन (थगगन)	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51056 18/11/09	थगगन कृषि सेवा केन्द्र, प्रधानपुरा, जिला-टिकमगढ़

175606	रेखा गुप्ता मानु प्रताप गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50737 11/6/2009	गोंव-गजनया, बाड़ा मलहरा, जिला-छत्रपुर
175607	रेखा राउत शंकर राव राउत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50870 14/10/09	राउत गोंदा चौक, इटारसी रोड सदर, जिला-बैतूल
175608	रेखा स्वादु अवध राम स्वादु	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50991 12/11/2009	मकान नं. 154, सी. संगम गॉर्डन, फेज-2, खजूरीकलॉ, पिपलानी मेल मोपाल
175609	रेणुका देवी अहीरवार दयाराम अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51241 30/11/09	एच.आइ.जी. 19, शिव कल्प कॉलोनी, अयोध्या बाईपास रोड, मोपाल
175610	रेणुका कोरवाटे जगदेव कोरवाटे	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51235 30/11/09	46 ए.पी.आर. कॉलोनी विल्हारी रोड, मण्डला रोड, जिला-जबलपुर
175611	ऋचा धुर्वे आर.पी. धुर्वे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51032 16/11/09	ओम निवास, कंछेडी कॉलोनी के पीछे, विछिया कटरा रोड, मण्डला
175612	ऋचा द्विवेदी मदन मोहन द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51260 08/12/09	ए.सी.एफ. रिसर्च एवं एक्सटेंशन, वन विभाग, जिला-रीवा
175613	ऋचा पाटीदार बद्रीलाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. दवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51326 9/2/2010	14, वेद व्यास कॉलोनी, जिला-स्तलाम
175614	रिमझिम पटेल मंगल सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51299 28/01/10	मकान नं. 636/1 ए, सुदामा नगर, अमनपुर, जिला-जबलपुर
175615	ऋषि कुमार यादव शिव चरण यादव	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50927 6/11/2009	बोर्ड नं. 3, यादव क्लाइ, तेडुखेड़ा, जिला-दामोह
175616	ऋषि मिश्रा नरेन्द्र कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51045 18/11/09	346, रोहित नगर, फेज 1 ई, जिला-मोपाल

175617	रीता मालवीय शंकर लाल मालवीय	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50772 28/07/09	विजय लक्ष्मी निवास, मेघनाथ चौक, तिकरी, बैतूल
175618	रितेश बाडस्कर नेमराज बाडस्कर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50765 20/07/09	एस. शिवम सुंदरम नगर, पी. जी. कोल, रोड, जिला—छिन्दवाड़ा
175619	रितेश कुमार पाटीदार बी. आर. पाटीदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	51349 25/03/10	संजीवनी हास्पिटल, सिरला, जिला—धार
175620	ऋतु ठाकुर रघुवीर सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51159 25/11/09	3/23, दक्तार कॉलोनी, मडमडा रोड, भोपाल
175621	ऋतुराज वर्मा शरद चन्द्र वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50848 30/09/09	31, रामा कॉलोनी, जिला—खाण्डवा
175622	रुही मिश्रा शिव नारायण मिश्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51127 23/11/09	993, स्कीम नं. 51, संगम नगर के पास, जिला—इन्दौर
175623	रूपेन्द्र सिंह कौशल विजय सिंह कौशल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51268 14/12/09	172, ऋषि विहार हवा बंगला रोड, जिला—इन्दौर
175624	सचिन चौहान बाबूलाल चौहान	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50952 10/11/2009	3059, ई सेक्टर, सुदामा नगर, जिला—इन्दौर
175625	सचिन कुमार जैन ज्ञान चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51058 18/11/09	गाँव व पत्रालय—सहसाइ, मंगावली, जिला—अशोक नगर
175626	सचिन कुमार सावनेर शिव कुमार सावनेर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50760 14/07/09	गाँव—अमलपुरा, पत्रालय—भामगढ़, तह.—खण्डवा, जिला—पूर्वी निमद
175627	सचिन्द्र सिंह घुरीया बी.एस. घुरीया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50770 28/07/09	58, आदित्य नगर चर्च, मॉल रोडा, मुरार, जिला—ग्वालियर

175628	साधना पवार गंगाराम पवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51300 28/01/10	गॉव-बड़ी खुर्द, पत्रालय-भाग्यपुरा, तह.- भगवानपुरा, जिला-खारगोन
175629	सजीत सोमन के.एन. सोमन	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50840 14/09/09	सुखचैन वॉर्ड देवरी कलॉ, इन्दौर
175630	समा लोदी नसरुल्लाह खान लोदी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51134 24/11/09	डी. 16/220, के.बी. सब स्टेशन, खाण्डवा रोड, इन्दौर
175631	समीक्षा सरपोत नरेन्द्र सरपोत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51201 27/11/09	सुबे की गोथ, कैलाश टॉकीज, लश्कर, ग्वालियर
175632	समीम खान अमीन खान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51276 23/12/09	60/18, बस स्टैण्ड के पीछे, वॉर्ड नं० 18, बलपूर्वा, जिला-शहडोल
175633	समीर सुनेरी तेजलाल सुनेरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50877 26/10/09	एम.पी. हालसिंग बोर्ड कॉलोनी, एल.आई.जी. 18, जिला-बालाघाट
175634	संध्या द्विवेदी अश्विनी कुमार द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50850 30/09/09	आनंद नगर नीम चौराहा, बोदाबाग, जिला-रीवा
175635	संध्या साहू रामेश्वर प्रसाद साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51055 18/11/09	100, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, चूना भटटी, कोलार रोड, भोपाल
175636	संध्या वर्मा जागेश्वर दयाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	50928 6/11/2009	द्वारा श्री विकास वर्मा बी-3, आनंद नगर, भोपाल
175637	संदीप कुमार खानकरे राम सहाय खानकरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50867 13/10/09	गॉव-खापा, पत्रालय-पुराली, अथनेर, तह.-मैसदेही, जिला-बैतूल
175638	संदीप कुमार साहू नित्य गोपाल साहू	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50941 10/11/2009	सेली चौका रोड, तह.-गदरवारा, जिला-नरसिंहपुर

175639	संदीप राणे बालकृष्णन राणे	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50946	4 बिज विहार कॉलोनी, जिला-खारगोन	10/11/2009
175640	संदीपिनी उइके राम उइके	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51218	बारघाट रोड, फूटातप्ता, कंहीवाडा, सिवनी	27/11/09
175641	संगीता नामदेव राम सुशील नामदेव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50767	गाँव व पत्रालय-चंसुरा, तह.-मानपुर, जिला-उमरिया	20/7/09
175642	संगीता पाण्डे शिवराज पाण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51223	एम.आई.जी. 752, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला-मुरैना	27/11/09
175643	संगीता परमार चंपालाल परमार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50925	806, सुदामा नगर, जिला-इन्दौर	6/11/2009
175644	संजय बघेल पन्ना लाल बघेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50900	187 ए, प्रजापत नगर, नील कंठेश्वर मंदिर, इंदौर	4/11/2009
175645	संजय कुमार कुरेचिया सरदार कुरेचिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51199	मकान नं. 639, पुरुषोत्तम नगर, सेमरा गेट, भोपाल	27/11/09
175646	संजय पटेल काडवाजी पटेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50913	पटेल मेडिकल स्टोर्स, जवाहर मार्ग, सनावाद, जिला-खारगोन	5/11/2009
175647	संजीव कुमार दवारिया, रतिलाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51110	270 लाल बहादुर शास्त्री नगर, 5 पूरनपुरा, जिला-विदिशा	23/11/09
175648	संतोष कुमार कौशल सीताराम कौशल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50818	मकान नं. 146, गली नं. 2, ट्रैक्टर ऑफ. मोहनगिरि, विदिशा	31/08/09
175649	संतोष कुमार सिंह माउ राम कर्मवंशी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51043	गली नं. 1, उमरी, पत्रालय-महदेवा, जिला-सतना	18/11/09

175650	सपन दुबे अनिल दुबे	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51279 6/1/2010	गॉव-कास्ताज, पत्रालय-सिंघपुर(बादा), तह.-करेली, जिला-नरसिंहपुर
175651	सपना अहीरवार पी.एन. अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51087 20/11/09	मकान नं. 34, राजीव वॉर्ड, बीना, जिला-सागर
175652	सपना गुप्ता श्याम गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50756 14/07/09	वॉर्ड नं. 3, बोरास रोड, उदयपुरा, जिला-रायसैन
175653	सारिका नाग धर्मवीर सिंह नाग	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51319 5/2/2010	झारका नगर, गली नं. 1, जिला-सिवनी
175654	सारिका सिंह सत्येन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51158 25/11/09	कोमल सिंह राजपूत, कबीर वॉर्ड, खुराय, सागर
175655	सतीश दुबे दयावंत दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51291 18/01/10	क्वार्टर नं. 5/50, विजुरी स्टेट कॉलोनी, हॉस्पिटल के पास, अनूपपुर
175656	सतीश कुमार पटेल साधा गुलाब पटेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51062 18/11/09	मकान नं. 6/333, बंसघाट बस स्टैण्ड, जिला-रीवा
175657	सतीश पटवा किशोरी शरन पटवा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50758 14/07/09	एस. विद्या मंदिर के पीछे, भारतगढ़, जिला-दातिया
175658	सत्य नारायण पाटीदार शालगराम पाटीदार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51177 25/11/09	गॉव व पत्रालय-खोकर कलों, तह.-कलापीपल, जिला-शाजापुर
175659	सत्य प्रकाश गुप्ता मिश्रीलाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51278 1/1/2010	केशरी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चाकघाट, जिला-रीवा
175660	सत्येंद्र कुमार पनिका राम मनोहर पनिका	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51016 16/11/09	गॉव, पत्रालय एवं तह.-सराय, जिला-सिंगरोली

175661	सविता अहीरवार बी.एस. अहीरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50754 14/07/09	मकान नं. 67, रोहतास नगर, खजूरी रोड, पिपलानी, भोपाल
175662	सविता डाबर एम.एल. डाबर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50948 10/11/2009	6/10, देवालय मार्ग, जोबत, जिला-अलीराजपुर
175663	सायरा बानो अब्दुल रज्जाक	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51089 20/11/09	दुकान नं. 616, राजा निखिल, बिदिंग मोहम्मद, जिला-जबलपुर
175664	रोबिन अग्रवाल महेश अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51026 16/11/09	सदर बाजार, सेवदा, जिला-दातिया
175665	सीमा जैन अशोक कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50924 6/11/2009	हितेन्द्र कुंज, कृष्णापुरम कॉलोनी, जिला-शिवपुरी
175666	सीमा कोरी टी.आर. कोरी	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51162 25/11/09	जी. 10, तावा कॉलोनी, जिला-होशंगाबाद
175667	सीमा मिश्रा राजेश मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51255 7/12/2009	सलुजा हॉस्पिटल 2, पुतलीघाट, शाहजहाँनबा, भोपाल
175668	सीमा पाडियार ब्रिजेश कुमार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51093 20/11/09	151, डा. अम्बेडकर नगर, जिला-इन्दौर
175669	सीमा पाटीदार मदन लाल पाटीदार	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51004 13/11/09	पुरानी बैंक ऑफ इंडिया, नेवरी, बगली मार्ग, हातपिपलिया, जिला-देवास
175670	शाहिद हुसैन बिसिल्लाह अंसारी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51132 23/11/09	मकान नं. 661/1, नई बस्ती गोहलपुर, जिला-जबलपुर
175671	शैलेश सिंह वंश रूप चौहान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51216 27/11/09	मकान नं. 742, चेरीताल, गुजराती लाल, जबलपुर

175672	शैलेन्द्र सिंह ठाकुर विशाल सिंह ठाकुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51283 6/1/2010	डी.डी.ए. ऑफिस, जसवाड़ी रोड, जिला—खाण्डवा
175673	शैलेन्द्र सिंह नरवारिया रामधन सिंह	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50842 16/09/09	मिंड रोड, महागांव, जिला—भिंड
175674	शरद कुमार वर्मा मनिराज वर्मा	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2004	51286 6/1/2010	क्यू. नं. 5/13, दक्षिण वन मण्डल, फोरेस्ट कॉलोनी, गाँधी चौक शहडोल
175675	शरद सुहाने बी.के. सुहाने	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50820 31/08/09	नया बाजार, मैथोन, जिला—सागर
175676	शेख जुबेर मोईनुद्दीन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., रज्जैन 2008	51039 17/11/09	डा. भारत पटेल, एस. 478, काटजु नगर, जिला—रतलाम
175677	शैलेन्द्र सिंह सिकरवार संतोष सिंह सिकरवार	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50800 17/08/09	श्री जितेन्द्र राव संतोषी मातावाली गली, गाँधी, वॉर्ड बीना, सागर
175678	शिखा खरे मुरारी लाल खरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50751 7/7/2009	मकान नं. 201, प्लीसेंट अपार्टमेंट, ई-7, भोपाल
175679	शिल्पी गुप्ता ओमेश्वर गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50874 26/10/09	भवानी मार्केटिंग सोसाइटी, अनूपगंज सेवधा, जिला—दातिया
175680	शीतल गुप्ता मोहन लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50806 20/08/09	कमल स्टोर्स, 9, न्यू बस स्टैण्ड, पचौर, जिला—राजगढ़
175681	शीतल कुमार सोलंकी लक्ष्मण सिंह सोलंकी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50975 12/11/2009	गॉव-चचरिया पाटी, तह0-सैधवा, जिला—बाडवानी
175682	शीतल प्रकाश व्यास मोहन किशोर व्यास	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50904 4/1/2009	सोकुलेश फोटो स्टूडियो, सदर बाजार, कोलारस, शिवपुरी

175683	शिव कुमार भोला नाथ	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51212 27/11/09	अम्बदा मोहन ऑफिस के पास, तह0-परसिया, छिन्दवाड़ा
175684	शिव कुमार पटेल छकोरी लाल पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51104 20/11/09	गॉव-जरहा, पत्रालय-तामरादेश, जिला-रीवा
175685	शिवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा सुरेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50778 28/07/09	आर. 11/ए. सारिका नगर, थाथीपुर मुरुर, जिला-ग्वालियर
175686	शिवराज सिंह चंदेल जयपाल सिंह चंदेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51027 16/11/09	02, शर्मा कॉलोनी, नर्मदा रोड, बडवाह, जिला-खारगोन
175687	शोमाराम जाट हरचंद जाट	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	50915 5/11/2009	गॉव व पत्रालय-नेवरी, तह0-बागली, जिला-देवास
175688	श्रद्धा जैन संतोष कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि. वि., रज्जैन 2008	51302 29/01/10	सी.बी.एस. कान्वेंट स्कूल, विजय नगर क्लाय, मकरोनिया, जिला-सागर
175689	श्रद्धा तिवारी रमेश कुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50985 12/11/2009	सब सेन्टर पुनासा, जिला-खाण्डवा
175690	श्रवण कुमार शर्मा ब्रिज किशोर शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51063 18/11/09	मकान नं. 267, अम्बेडकर कॉलोनी, सबलगढ़, मुरैना
175691	श्रेया मनोज चौधरी मनोज चौधरी	बी.ए.एम.एस. अमरावती वि.वि., अमरावती, 2008	51308 3/2/2010	आई.डी.बी.आई. बैंक परिसर, शंकरा गेट, जिला-बुरहानपुर
175692	शुचि सोनी आर.पी. सोनी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51189 27/11/09	455, कल्पना नगर, रायसेन रोड, भोपाल
175693	श्वेता बघेल नेमी सिंह बघेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51015 16/11/09	198, पटेल वॉर्ड सदर, बैतूल, जिला-बैतूल

175694	श्वेता जैन जिनेश जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51167 25/11/09	श्री जे.के. जैन 797 पंचशील नगर, जैन मंदिर के पास, भोपाल
175695	श्वेता जामरा भरत सिंह जामरा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51000 12/11/2009	32, कैलाश नगर, इन्दौर रोड, जिला-धार
175696	श्वेता रघुवंशी आर.एस. रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51152 24/11/09	सी.-150, सी. सेक्टर, शाहपुरा, जिला-बैतूल
175697	श्याम सुंदर प्रजापति रामाधीन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50749 2/7/2009	गोंव-हराराय (वेस्ट) पत्रालय-बैधान, जिला-सिंगरोली
175698	सिद्धार्थ चौधरी केशरी चौधरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50846 30/09/09	विधायक कॉलोनी मंदर, जिला-दतिया
175699	स्मिता शर्मा चन्द्र शेखर शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50817 31/08/09	408 बी., रेलवे कॉलोनी, हबीबगंज, शक्ति नगर, भोपाल
175700	स्मृति गुप्ता नथु लाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2007	50727 13/05/09	गायत्री मंदिर के पास, हरदुआ कॉलोनी, नागोड, सतना
175701	स्नेहल ठाकरे वी. आर. ठाकरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50981 12/11/2009	बड़ा चौक, पिपला नारायण, तह-सोनसर, जिला-छिन्दवाड़ा
175702	सोहन पवार हरजी पवार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51133 24/11/09	गोंव-टोंकी, तह-मनावर, जिला-धार
175703	सोनिया जैन संतोष कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50769 28/07/09	106, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल
175704	सौमित्र कुमार गोस्वामी राजेन्द्र कुमार गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51252 4/12/2009	शुभम होटल के पीछे, झुंकु वॉर्ड, देवरी, जिला-सागर

175705	सौमित्र नारायण बुधोलिया राजेन्द्र बुधोलिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51155	मुदियन का कुआँ दावोया का पठला, जिला-दातिया	25/11/09
175706	सौम्या यादव कृष्ण कांत यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50763	123, विनीत कुंज, अकबरपुर कोलार रोड, भोपाल	20/07/09
175707	सौरभ चौरसिया एस.सी. चौरसिया	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50993	2181, साकेत नगर, एम.आर. 4 रोड, जबलपुर	12/11/2009
175708	सौरभ प्रकाश त्रिपाठी दिलीप कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50762	एच.आई.जी. 597, हाउसिंग बोर्ड क्लाय, जिला-मुरैना	20/07/09
175709	सौरभ शर्मा सुमन शर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50750	सुभाष रोड, जौरा, जिला-मुरैना	3/7/2009
175710	सौरभ विक्रम के.एल. विक्रम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51120	हनी ब्यूटी पार्लर, कमांक 30, विदिशा	23/11/09
175711	सौरभ व्यास बसंत कुमार व्यास	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51205	मकान नं. 366, एकता कॉलोनी, स्टेडियम के पास, जिला-सागर	27/11/09
175712	सृष्टि शिवहरे जय नारायण शिवहरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50757	गौतम वॉर्ड मारूपुरा, मोहल्ला, पत्रालय-सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद	14/07/09
175713	सुबोध जैन राजकुमार जैन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50995	ए.बी.एस. स्कूल के पास, मगंज वॉर्ड नं. 4, जिला-दामोह	12/11/2009
175714	सुधा पटेल गजराज सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51085	गॉव-लुहाना, पत्रालय-मिंतला, जिला-सागर	20/11/09
175715	सुधा पटेल छिदामी लाल पटेल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51243	दिवान कॉलोनी, डी-2, जमानी रोड पुरानी, इटारसी, होशंगाबाद	30/11/09

175716	सुलभ खरे सुभाष खरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	50744 29/06/09	कमला मेडिकल हॉल, कटरा बाजार, जिला-सागर
175717	सुलोचना बगाना बलवंत सिंह बगाना	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50934 10/11/2009	भोपाल नाका मुगली रोड, आष्टा, जिला-सिहोर
175718	सुमन अग्रवाल कपूर चन्द्र अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50889 31/10/09	वॉर्ड नं. 10, सरस्वती स्कूल के पीछे, पत्रालय-बारेही, कटनी
175719	सुमित कानूनगो सुनिल कानूनगो	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50766 20/07/09	अनिल ट्रेडर्स सेंथवा, जिला-बडवानी
175720	सुमित सूर्यवंशी सहदेव सिंह सूर्यवंशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51010 16/11/09	उत्तखाना मोहल्ला पानी की टंकी, जिला-छिन्दवाड़ा
175721	सुनिल कुमार पटेल मागवत शरन पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51332 15/02/10	गॉव-छिंदली, पत्रालय-बिजोरी, तह0-देवरी, जिला-सागर
175722	सुनिल कुमार पुण्डे जगन्नाथ पुण्डे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51076 20/11/09	आजाद नगर माईन्स ब्यू. नं. 553, पाथाखेरा, तह-घोडस, डोंगरी, बैतुल
175723	सुनिल तिवारी रमेश कुमार तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गोंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50886 27/10/09	वॉर्ड नं. 6, रेस्ट हाउस, कटनी मैन रोड, अमनगंज, जिला-पन्ना
175724	सुनिता जे. देहरिया आशीष देहरिया	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50875 26/10/09	मुकेश मंसता भवन स्टेशन गंज, जिला-नरसिंहपुर
175725	सूरज अहिरिया रमेश अहिरिया	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51191 27/11/09	40, विराट नगर, मुसाखेड़ी, जिला-इन्दौर
175726	सुरेन्द्र सिंह राजपूत रमेश सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50747 27/2/2009	सिंधिया नगर शब्द प्रताप आश्रम, जिला-ग्वालियर

175727	सुरेन्द्र सिंह यादव राम स्वरूप यादव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50997	श्री गुलाब सिंह पटेल जीवाजी गंज, मुरैना	12/11/2009
175728	सुरेश चौहान मोतीलाल चौहान	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50914	गॉव-देदला, पन्नालय-बोरुद, तह.-मनावर, जिला-धार	5/11/2009
175729	सुशील कुमार मेवालाल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50782	एफ. 83/19, तुलसी नगर, टी.टी. नगर, भोपाल	30/07/09
175730	सुशील कुमार तिवारी कैलाश प्रसाद तिवारी	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51044	सागर रोड, पुरानी तेहरी, जिला-टिकमगढ़	18/11/09
175731	सुषमा ताड़वाड़े प्रभाकर ताड़वाड़े	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51173	द्वारा एच. सी. श्रीवास्तव द्वारा, ई7/577 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	25/11/09
175732	स्वदेश शर्मा चौधरी अक्केश शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गॉंधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50858	गॉव व पन्नालय-कापरगांव, तह.-गदरवारा, जिला-नरसिंहपुर	9/10/2009
175733	स्वतंत्र कुमार परतेती लक्ष्मण प्रसाद परतेती	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50865	बाजार चौक, गंगीवारा, जिला-छिन्दवाड़ा	13/10/09
175734	स्वाति चौहान डी.के. चौहान	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50969	सेक्टर 40, विकास टावर, इन्डिया कॉम्प्लेक्स, नवलखा, जिला-इन्दौर	11/11/2009
175735	स्वाति गुजराथी दिनेश बन्ध गुजराथी	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51254	148, राजपुरा दलियावादा, जिला-बुरहानपुर	5/12/2009
175736	तरुण कुमार दुबे माधव प्रसाद दुबे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51213	नया प्लोट, सेमरी हरचंद, जिला-होशंगाबाद	27/11/09
175737	तरुण पाटीदार महेश पाटीदार	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50974	ए.एम. II, पी.टी. दीनदयाल नगर, सुखालिया, जिला-इन्दौर	12/11/2009

175738	तरुण सिंह राम कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51182 25/11/09	वॉर्ड क्रमांक 32, बाईपास रोड, शहडोल
175739	तेज सिंह ताराम कबल सिंह ताराम	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	51311 3/2/2010	गॉव-नंदा, पत्रालय-अमरपुर, तह0-दिंदोरी, जिला-दिंदोरी
175740	टीनु साहू राम कुमार साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51047 18/11/09	के. 14, बसंत विहार कॉलोनी, जिला-सागर
175741	तृप्ती बंसल निर्मल कुमार बंसल	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51083 20/11/09	इन्दिरा नगर कॉलोनी, चिंताहरन मंदिर के पीछे, जिला-शिवपुरी
175742	तृष्णा विकार धर्मेन्द्र कुमार विकार	बी.ए.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2001	50729 13/05/09	एस.एच. 11, उद्धव दास मेहता, परिसर, नेहरू नगर, भोपाल
175743	त्रिवेणी शंकर योगी अमरनाथ योगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	50745 29/06/09	गॉव-करोदिया, पत्रालय-आगुरली, तह0-बागली, जिला-देवास
175744	त्रिवेणी शौरी एस.एस. शौरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50790 7/8/2009	मकान नं. 13/10, अवधपुरी, पी. II खजूरी कलों, भोपाल
175745	तुलसी राम तुमडाम शंकर तुमडाम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50891 31/10/09	वसन्त्या धाना, पत्रालय-घोड़ा डोंगरी, तह0 एवं जिला-बैतूल
175746	उदय सिंह राठोड़ हरिदास राठोड़	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2007	50841 14/09/09	श्री आर.डी. राठोड़, बी.एम. 142 दीनदयाल नगर, ग्वालियर
175747	उपेन्द्र रघुवंशी विरेन्द्र रघुवंशी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51266 10/12/2009	राजकुमार कॉलोनी, जिला पंचायत के पास, गुना रोड, अशोक नगर
175748	वैभव पंथी कृष्ण दास पंथी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50819 31/08/09	दयाल मेडिकल स्टोर, बियावानी चौराहा, जिला-उज्जैन

175749	वैभव पाटिल रविन्द्र पाटिल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51295 15/01/10	38, सिल्मपुरा, चौराहा, बुरहानपुर, जिला— बुरहानपुर
175750	वैशाली दीक्षित दिनेश दीक्षित	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51007 13/11/09	6 ए. कृषि विहार प्लैट नं. जी.1, अर्थविला अपार्टमेंट, इन्दौर
175751	वन्दना सिंह पटेल मोती सिंह पटेल	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50926 6/11/2009	द्वारा श्री नत्थु लाल पटेल, स्टेशन रोड, मेहर, जिला—सतना
175752	वर्षा सोनी नरेन्द्र कुमार सोनी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51156 25/11/09	एन.एच. 26, बस स्टैंड, गोरक्षमार, जिला—सागर
175753	वरुण वर्मा गिरिश वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50864 13/10/09	सिद्धि विनायक, लिंक रोड, चन्द्र शेखर वार्ड, टिकरी, बैतुल
175754	वेदांग देव गोस्वामी श्री प्रकाश गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर 2007	51160 25/11/09	ई 7/105, अशोक सोसाइटी, अरेश कॉलोनी, भोपाल
175755	विमूति वघेला शिव राम वघेला	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50872 20/10/09	न्यू मास्टर कॉलोनी, सनावाद रोड, जिला—खारगोन
175756	विजय कुमार वर्मा तरुण कुमार वर्मा	बी.ए.एम.एस. पं. रवि शंकर शुक्ला वि.वि. रायपुर 2006	51230 30/11/09	गाँव व पत्रालय—गरोली, तह0—नौगोन, जिला—छत्रपुर
175757	विजय महाजन अशोक महाजन	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51157 25/11/09	आशीष जैन, समिति हास्पिटल, फव्वारा चौक, बुरहानपुर
175758	विजय पटेल राज कुमार पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50970 11/11/2009	श्री डी.पी. पटेल टीन गुल्ली, जिला— दामोह
175759	विजय सिंह मर्सकोले मोहन सिंह मर्सकोले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51211 27/11/09	सिहर पटरोड बलहार, तह0—बलहार, जिला—बालाघाट

175760	विजय मेश्राम नीलकंठ मेश्राम	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51006 13/11/09	सरस्वती नगर, वार्ड नं. 28, जिला-बालाघाट
175761	विजेयता कुलश्रेष्ठ युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन 2008	51112 23/11/09	आर.1, एक्स, स्कीम नं. 71, सेक्टर सी. गुमस्ता नगर, जिला-इन्दौर
175762	विजेन्द्र सिंह कौशिक गणेश सिंह कौशिक	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50994 12/11/2009	ठाकुर दिवार, हनुमान नगर, रसूलिया, जिला-होशंगाबाद
175763	विजेन्द्र विश्वकर्मा नागेश्वर विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51137 24/11/09	85, लक्ष्मी कॉलोनी, बीनपुरा रोड, महिन्द्रपुर, जिला-उज्जैन
175764	विकास राव यूके बी.सी. यूके	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50862 13/10/09	कार्वे कॉलोनी, अंदर दलसागर तालाब, भैरोगंज, सिवनी
175765	विकेश असाती जगदीश प्रसाद असाती	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51042 17/11/09	मंदिर धनुषधारी मंदिर, बड़ागोंव, घसाना, जिला-टिकमगढ़
175766	विकलेश जाटव एम.के. जाटव	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51113 23/11/09	442/7, ग्रामीण विद्युत, मेन गली कालाबाघ, गंजबसोदा विदिशा
175767	विक्रम वागरी परमोले बागरी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50779 28/07/09	कमरा नं.-25, पोस्ट भैट्रिक, मोसम कलाय, मडमाडा रोड, भोपाल
175768	विनय चौहान कैलाश चन्द्र चौहान	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51048 18/11/09	3, हाथीपाला चौराहा, निकट-पत्रालय, जूनियर, इन्जीनियर, जिला-इन्दौर
175769	विनय प्रकाश गुप्ता दुर्गा प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50871 15/10/09	गाहोल कॉलोनी, जिला-कटनी
175770	विनीत सिंह कुशवाहा पुल्लन सिंह कुशवाहा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	50808 22/08/09	कुशवाहा निवास पंच नं. 1, इटावा रोड, जिला-मिड

175771	विनिता गुप्ता जी.डी. गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51097	विनिता पुस्तक सदन हॉस्पिटल रोड, रांगे पिछोर, जिला—शिवपुरी	20/11/09
175772	विनिता महादुले सालिक राम महादुले	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51095	गाँव व पत्रालय—माण्डवी, तह0—अथनेर, जिला—बैतूल	20/11/09
175773	विनिता वाथरे मोहन लाल वाथरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51124	सरदार पटेल पुरा, बॉर्ड नं. 3, पुरानी इटारसी, जिला—होशंगाबाद	23/11/09
175774	विनोद भाटी डा0 ब्रह्म प्रकाश भाटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	51342	ई-95, दीनदयाल नगर, जिला—रतलाम	12/3/2010
175775	विनोद कुमार गुप्ता श्री भगवान गुप्ता	बी.ए.एम.एस. जीवाजी वि.वि., ग्वालियर, 2007	50838	घास मण्डी, जिला—ग्वालियर	14/09/09
175776	विनोद कुमार साहू राम नारायण साहू	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	50996	मेन रोड, अथनेर, तह0—मैसदेही, जिला—बैतूल	12/11/2009
175777	दिपिका ठाकुर बदन लाल ठाकुर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51101	74/4, सांची रोड, डंडापुरा, जिला—विदिशा	20/11/09
175778	विपिन कुमार मालवीय छगनलाल मालवीय	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51053	74/4, नागडा रोड, वालगढ़, जिला—देवास	18/11/09
175779	विपिन कुमार सिंह तोमर नरेन्द्र सिंह तोमर	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	51019	गाँव व पत्रालय—राछड़ तह0—पोरसा, जिला—मुरैना	16/11/09
175780	विशाल गौतम विष्णु प्रसाद गौतम	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., मोपाल 2008	51029	21, पंचवटी विक्रम मार्ग, खांचरोड, जिला—उज्जैन	16/11/09
175781	विशाल कुमार जैन राजेन्द्र कुमार जैन	बी.ए.एम.एस. विक्रम वि.वि., उज्जैन, 2008	51190	बी.-14, हरि हर नगर, साम्बर रोड, जिला—उज्जैन	27/11/09

175782	विशाल सक्सेना, राजेन्द्र कुमार सक्सेना	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51131 23/11/09	रामलीला मैदान के पास, वॉर्ड नं. 5, लहर, जिला—भिंड
175783	विशाल शर्मा सत्यनारायण शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	50887 27/10/09	गाँव—देहरी, तह0—कुकशी, जिला—धार
175784	विशाल शिवहरे नरेन्द्र शिवहरे	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50828 4/9/2009	शिवहरे क्लीनिक, महावीर कोम., नई सड़क, यादव टॉकीज, लश्कर, ग्वालियर
175785	विशाल वर्मा शिव गोपाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50961 11/11/2009	झारका नगर, बुडोरा चौक, जिला—बैतूल
175786	विवेक कुमार जैन दीप चन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. का. सिं.द. सं वि.वि. दरभंगा 2007	50854 5/10/2009	गाँव व पत्रालय—नयाखेरा, जिला—दातिया
175787	विवेक साहु भगवान लाल साहु	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50801 18/08/09	नाक चन्द्रवादिनी गली, लक्ष्कर, नं. 1, जिला—ग्वालियर
175788	ब्रक्शे कुमार राजपूत राम प्रकाश राजपूत	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50990 12/11/2009	आर.—118, रेडियो कॉलोनी पुरानी बदमादा रोड, भोपाल
175789	योगेन्द्र कौरव विरेन्द्र सिंह कौरव	बी.ए.एम.एस. रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर, 2008	50930 6/11/2009	प्लोट नं. जे.3, मकान नं. 817/15 ए, सैनिक सोसाइटी, शक्ति नगर, जिला—जबलपुर
175790	योगेश व्यास उमार्शंकर व्यास	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर 2008	50884 27/10/09	गाँव व पत्रालय—महाराजपुर, पत्रालय—देवरीकलॉ, जिला—सागर
175791	योगेश चौकीकर बलीराम चौकीकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51017 16/11/09	ओल्ड एफ. 329 के पीछे, सेमी, जिला—बैतूल
175792	योगेश कुमार डांगी आत्मा राम डांगी	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	51106 23/11/09	मोहल्ला डांगियाना, निवादी, जिला—टिकमगढ़

175793	योगेश कुमार खातरकर श्री कृष्ण राव खातरकर	बी.ए.एम.एस. बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल 2008	50869	द्वारका नगर, बडोरा चौक, जिला-बैतूल	14/10/09
175794	योगेश कुमार राघव ओम प्रकाश राघव	बी.ए.एम.एस.	51081	मकान नं. 229, वॉर्ड नं. 10, शिवाजी वॉर्ड कन्देली, जिला-नरसिंहपुर	20/11/2009
					प्रेम राज शर्मा रजिस्ट्रार

पार्ट-II यूनानी

क्रम सं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय व उत्तीर्ण वर्ष	पंजीकरण संख्या व दिनांक	पता
23524	आदिल अंसारी मंजूर हुसैन अंसारी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2007	50852 05/10/09	लोहार मण्डी रोड पण्डारी मस्जिद की गली जिला-बुरहानपुर
23525	आरजू खान ए. वहीद खान	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2008	51325 09/02/10	जी. 70/1 मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल
23526	आजमा अशाफाक सय्यद अशाफाक अली	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2010	51321 06/02/10	मकान नं. 59, सी.-सेक्टर, भाग उमराव दुल्लाह, भोपाल
23527	आतीफ सादिक खुशीद आलम	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2008	51314 03/02/10	मकान नं. 199, तोलवारी मस्जिद के पीछे आलोक प्रेस रोड, मुडवारा
23528	बुसरा सिद्दीकी मतीन अहमद	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2008	51317 05/02/10	मकान नं. 8, ईदगाह हिल्स, भोपाल
23529	फयजा फातमा खालिक अहमद	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2007	50793 10/08/09	मकान नं. 54, पत्रालय के पास, धाना रोड, शाहजहाँबाद, भोपाल
23530	गजाला अस्मत मलिक अब्दुल हक	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2008	51329 15/02/10	एस. 2, अल्लमशा अपार्टमेंट, आई.पी. कॉलेज शाहजहाँबाद के पास, भोपाल
23531	मीर अहसान अली जाफरी मीर मोहम्मद अली	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.भोपाल 2008	50943 10/11/09	सिन्धीपुरा रोड जिल्हा-बुरहानपुर

23532	मीर जुबेल अली मीर मुजफ्फर अली	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	51294 15/01/10	70 रेजीमेंट रोड शाहजहाँबाद, मोपाल
23533	मौहम्मद आरिफ अंसारी अब्दुल गन्नान अंसारी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	50859 09/10/09	मकान नं. 163 लल्लू सुनार की गली, लोहार मण्डी, जिला-बुरहानपुर
23534	मौहम्मद साजिद अहमद मौहम्मद मतीन	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	50881 26/10/09	खान की मस्जिद, नया मोहल्ला, जिला-बुरहानपुर
23535	मुनब्बर गौरी माशुक गौरी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51318 05/02/10	मकान नं. 43, गली नं. 5, अहमद अली कॉलोनी, ऐश बाग, स्टेडियम, मोपाल
23536	नाजनीन मंसूरी शेख सब्बीर मंसूरी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51346 19/03/10	जी. 10/121 च्यू 228, क्वार्टर्स, साउथ, टी.टी. नगर, मोपाल
23537	नदीम खान हैदर खान	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	50880 26/10/09	मकान नं. 15, गली नं. 4, अहमद अली कॉलोनी, ऐश बाग, स्टेडियम, मोपाल
23538	निखत परवीन मौहम्मद राशीद मंसूरी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	51072 19/11/09	3272 आदर्श नगर कॉलोनी, आधारताल, जिला-जबलपुर
23539	कुदुश अहमद अब्दुल रज्जाक	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	50932 07/11/09	मोहरगंज के सामने जिला-रायसेन
23540	राजनीति सेंगर घनश्याम सिंह सेंगर	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2001	50989 12/11/09	हाउस नं. आउट ऑफ लोहार, मण्डी गेट, आलमगंज, जिला-बुरहानपुर
23541	रजी फराज खान रियाज खान	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51330 15/02/10	मकान नं. 42, साजिद नगर, करबला रोड, मोपाल

23542	रिजवाना गुल गुल मोहम्मद	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51334 03/03/10	मकान नं. 30, मीर साहब मस्जिद के पास धीरमट, मोपाल
23543	साकिब अहमद सिद्दीकी सब्बीर मौहम्मद सिद्दीकी	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51313 03/02/10	काजीपुरा, जटारा, जिला-टिकमगढ़
23544	शाहीन किश्वर अब्दुल अजीज़ खान	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	50988 12/11/09	एपेक्स एवेन्यु जी.2 (ए), मोतिया पार्क के पीछे, मोती मस्जिद, रेतघाट, मोपाल
23545	शेख अल्मास सैफुद्दीन	बी.यूएम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2007	51327 05/02/10	अल्फेड रिलीफ सेंटर, 191 संजय नगर, जिला-खारगोन
23546	शेख शाजिया बानो शेख फुबाद	बी.यूएम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2004	50728 13/05/09	58, इमलीपुरा, जिला-खाण्डवा मोपाल
23547	शोहेल अहमद खान बशीर अहमद खान	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2008	51240 30/11/09	खेराती बाजार रोड, इन्दोर बेकरी के पीछे, बुरहानपुर
23548	तहसीन जहाँ मौहम्मद शफीक	बी.यूएम.एस. बरकतुल्ला वि.वि.मोपाल 2007	51018 16/11/09	मकान नं. 10, सैफिया कालेज के पीछे, मोपाल

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

सं. 20-22/2012 -के.पं. (पश्चिम बंगाल) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23(3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में पश्चिम बंगाल राज्य रजिस्टर में फरवरी २००६ से फरवरी २०१० तक क्रम संख्या 175795 आयुर्वेद आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 175901 आयुर्वेद सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन फरवरी २००६ से फरवरी २०१० तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (पश्चिम बंगाल) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को ३० दिन के अन्दर सूचित किया जाए ।

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

पश्चिम बंगाल
भाग I आयुवेद

क्र.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
175795	अद्वैतिका पाल दीपक कुमार पाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11770 27.08.09	५८/एच, जेस्सोर रोड (साउथ) पो.आ. हव्यपुर नैर्ध २४ परगना, कोलकाता
175796	अब्दुल हिल कफी मुकुन्ददीन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11751 12.08.09	ग्राम व पो.आ. मणिकचक थाना लाल गोला जिला मुर्शिदाबाद
175797	अभिजीत विश्वास अद्वैत विश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11778 10.09.09	ग्राम, पो.आ. व थाना गंगनापुर नादिया
175798	अभिमान्यु दास अशोक दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11790 17.09.09	६१, जी.एन. मुखर्जी रोड, बंसबेरिया पो.आ. बंसबेरिया, हुगली
175799	अभिषेक घोष साधन च. घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11746 05.08.09	ग्राम धोपाबेरिया पो.आ. गराकुपी थाना नैर्ध २४ परगना
175800	अभिषेक कुमार ओझा अभय शंकर ओझा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11758 20.08.09	७/१, नीलमाधव भट्टाचार्य लेन, कमारहाटी कोलकाता
175801	अफसर अली असगर अली	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11735 26.02.09	ग्राम सिधोजोरा पो.आ. भगवतीपुर थाना चान्दीतला हुगली
175802	अहमद अली अंसारी मोह. गुलाम जीलानी अंसारी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11741 05.08.09	५६ ए/डी ब्लॉक, लाईन नं.४, पो.आ. फोर्ट ग्लोस्टर थाना बौना, हवड़ा

175803	अजय कुमार त्रिपाठी तारक नाथ त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11759 20.08.09	१७, देवदर स्ट्रीट, कोलकता
175804	अजय कुमार त्रिपाठी रविन्द्र कान्त त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11826 06.01.10	६४, माधव बाबू लेन, धुसुरी हावड़ा
175805	अमित कुमार दास सुमंगल दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11771 27.08.09	३८/२, अट्टापारा लेन, थाना सिन्धी कोलकता
175806	अमित कुमार मोंडल नारायण चन्द्र मोंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००९	11731 18.02.09	२७/३६ ई, जयचन्द रोड, पो.आ. खगरा बरहामपुर, मुर्शिदाबाद
175807	अमितव आचार्य तरुण कुमार आचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11782 16.09.09	ग्राम नोना, पो.आ. एवं थाना उलूबेरीया हावड़ा
175808	अनिरुद्ध दीन विश्वास अशोक विश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11814 25.11.09	ग्राम महिसा मुल्लन्दपुर पो.आ. कुमरा काशीपुर नोर्थ २४ परगना
175809	अंजन कुमार चौधरी सुनील कुमार चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11832 18.02.10	दुर्गा नगर पो.आ. मद्राल नोर्थ २४ परगना
175810	अनूपम मुखर्जी अमर मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11788 17.09.09	ग्राम व पो.आ. बूढाटी थाना डोमजूर जिला हावड़ा
175811	अर्नब मुखर्जी मिहीर रंजन मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11822 09.12.09	६६/२, बस्दपारा लेन, पो.आ. आलम बाजार कोलकता
175812	अरविन्द कुमार गुप्ता अशोक कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11760 26.08.09	मारवारिकल चौमाथा हाजीनगर, नोर्थ २४ परगना

175813	अशोक कुमार हल्दर अर्जुन कुमार हल्दर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	117139 17.03.09	ग्राम विवेकानन्द पल्ली पो.आ. व थाना सोनारपुर साउथ २४ परगना, कोलकाता
175814	अजमल बारी मोईनुद्दीन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11743 05.08.09	ग्राम अकुनी (मीरपारा) पो.आ. अकुनी, थाना चान्दीतला हूली
175815	बालादित्य मंडल इजनाथ मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11800 04.11.09	ग्राम शान्तिनगर पो.आ. मदनपुर थाना कल्याणी नादिया
175816	बापी रंक महबुल हक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11784 17.09.09	ग्राम व पो.आ. समोती नगर बाजार, जिला मुर्शिदाबाद
175817	बापी नाथ स्व. रवि नाथ	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००९	11737 16.04.09	ग्राम बासकपारा पो.आ. बोनार्गो नौर्य २४ परगना
175818	बसन्ती माजी सुफल कुमार माजी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11742 05.08.09	ई/५, लेक व्यू पार्क, कोलकाता
175819	बिश्वनाथ प्रमाणिक निरेन प्रमाणिक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11821 02.12.09	ग्राम गणेश्या पो.आ. विवेकानन्दपुर साउथ २४ परगना, कोलकाता
175820	चन्दन कुमार गुप्ता मोहनलाल गुप्ता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11806 18.11.09	११/७, मुस्मान पारा लेन, पो.आ. कदमतला थाना बन्तरा हावड़ा
175821	चारु मिहिर बिश्वास जयन्त कुमार बिश्वास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11736 18.03.09	नवपल्ली बॉयज स्कूल रोड, पो.आ. नवपल्ली नौर्य २४ परगना
175822	चिनमय मंडल चित्तराज मंडल	२००७ बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11823 09.12.09	ग्राम व पो.आ. तंगरा कालोनी, थाना बनार्गो नौर्य २४ परगना

175823	चित्राश्री भट्टाचार्य चन्द्र सेखर भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11835 22.12.09	२०, राजा राममोहन राय, सारणी कोलकाता
175824	कोमिया साह नन्तु कुमार साह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11757 20.08.09	साह बनवत्रा रोड, निकट रायल गेट, पो.आ. गुरियाहट २ कूचबेहार
175825	देव नारायण मैती लक्ष्मी नारायण मैती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11783 17.09.09	५४, श्रीनगर मैन रोड, पो.आ. पंचसायर, थाना सेनारपुर, कोलकाता
175826	देबाज्योति भट्टाचार्य बिमल ज्योति भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11740 05.08.09	ए-२/७८, कल्याणी नादिया, फ्लैट नं.६, पो.आ. कल्याणी नादिया
175827	देवासिष पायक रामलाल पायक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11831 18.02.10	हतीपारा शोरिफ आर.एन. नगर, पो.आ. धुनी, कोलकाता
175828	देबायन बन्दोपाध्याय धीरेन्द्र कृष्ण बन्दोपाध्याय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11761 26.08.09	२, जुबली पार्क ब्रह्मपुर बट्टला पो.आ. ब्रह्मपुर कोलकाता
175829	देबदास मुखर्जी कालीकिंकर मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11828 03.02.10	ग्राम दौलतपुर, पो.आ. चन्दुर अरामबाग, जिला हूगली
175830	देबयेन्दु दास अधिकारी मानस रंजन दास	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11825 16.12.09	५७/५६/१, बक्सारा ग्राम रोड पो.आ. बक्सारा थाना शिबपुर जिला हवड़ा
175831	धीरज कुमार इंदय नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11812 25.11.09	एस.पी. मुखर्जी रोड, तितागढ़ नौर्य २४ परगना
175832	देबयेन्दु सरकार निखिल रंजन सरकार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11810 18.11.09	राजकीय वेस्ट, रामाकृष्ण रोड, पो.आ. एवं जिला बर्दवान

175833	हैदर फरीदुद्दीन परवेज एनामुल कबीर हैदर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11805 18.11.09	ग्राम व पो.आ. अकुनी थाना चान्दीतला हंगली
175834	हरिशंकर पाठक धर्मदेव पाठक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००७	11733 18.02.09	गणपति विहार, ब्लाक नं. १, प्लॉट नं. ३०५, आश्विनी नगर, वेगुडादी
175835	इन्द्राणी बसाक हरिगोपाल बसाक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11769 27.08.09	एफ./ई-७, विद्यासागर फल्ली, साई अपार्टमेंट, कोलकाता
175836	जैयदेव बर्मन जोगज्योति बर्मन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11792 17.09.09	ए-७, ग्राम बासुदेवपुर, पो.आ. खजानचक (जान्दिया) ईस्ट मिदनापुर
175837	कल्याण भौमिक अशोक कुमार भौमिक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11762 26.08.09	ग्राम व पो.आ. कुशनेरी, जिला पश्चिम मिदनापुर
175838	कौशिक सिन्हा गोपाल दास सिन्हा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11803 18.11.09	बी-५/१६, कल्याणी नारिया
175839	कौशिक बसाक कमलेश बसाक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००७	11730 18.02.09	ग्राम श्रीमन टापुर पो.आ. एवं थाना लालगोला, मुर्शिदाबाद
175840	लक्ष्मी कान्तो मंडल स्व. अनिल कुमार मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11797 24.09.09	ग्राम कृपारामपुर पो.आ. बिष्णुपुर पूल, आमतालाछ साउथ २४ पराना
175841	महाश्वेता घोष मनिन्द्र नाथ घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11766 26.08.09	३/६, साहिद मंगल पंडेय सारणी, बर्कापोरे, कोलकाता
175842	मनीष कुमार तिवारी सच्चिदानन्द तिवारी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11829 03.02.10	तारातला सामने क्ली ईस्ट साईड मार्केट, प्लॉट नं. ७, कोलकाता

175843	मनोज कुमार मंडल अभिलाष च. मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11802 05.11.09	ग्राम दुर्गापुर पो.आ. धरमबोरिया थाना हसनाबाद जिला नोर्थ २४ परगना
175844	माधुर बल्लव सुसेन बल्लव	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००९	11738 17.04.09	ग्राम कदागोला पो.आ. रत्नापुर, बांकुरा
175845	मोह. जौदनल अबेदिन मोह. नजीमुद्दीन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11750 12.08.09	ग्राम अम्मा, पो.आ. कालुहा जिला बीरभूम थाना मग्राम
175846	मोह. अब्दुल फ़राह मोल्ला मोह. अकबर अली मोल्ला	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11820 02.12.09	ग्राम पीरपुर, पो.आ. घेरी रायपुर, थाना धोलाहट साउथ २४ परगना
175847	मोह. मोनिस्ल इस्लाम मोह. अब्दुल लतीफ मोल्ला	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11818 02.12.09	भांगर कालेज रोड, साउथ २४ परगना
175848	मिथुन कुमार रॉय गौतम नारायणा रॉय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11793 17.09.09	ग्राम ४ नं. पतियाखावा पो.आ. दक्षिण जे चक्रवाखेती अल्पागुरी
175849	मोहसिन मोंडल असगर अली मोंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11785 17.09.09	ग्राम चपरा रानबन्द रोड पो.आ. बंगालीझी थाना चपरा नादिया
175850	नन्दिनी कपूर सुरेन्द्र नाथ कपूर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11763 26.08.09	३८/३/१, राम तनु बोस लेन, कोलकत्ता
175851	निर्देश कुमार तिवारी मुन्नी लाल तिवारी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11813 25.11.09	३१, आशु बोस लेन, जिला हवड़ा
175852	निर्मल अडक निरंजन अडक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11808 18.11.09	ग्राम चिस्तीपुर वेरी पो.आ. मंगला माम थाना पातशपुर पुर्बा मेदिनीपुर

175853	परिमल महता राधाकृष्ण महता	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11794 23.09.09	ग्राम बाब्दा पो.आ. एवं थाना झाग्राम जिला पश्चिम मेदनीपुर
175854	परिमल सरकार नेपाल सरकार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11744 05.08.09	ग्राम धोमबेरिया पो.आ. गराकुमी थाना बसीरहत नोर्थ २४ परगना
175855	पियूष कुमार द्विवेदी राम नारायण द्विवेदी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11776 10.09.09	ए-४/३ए, हिन्द मोटर्स कालोनी पो.आ. हिन्द मोटर, जिला हूगली
175856	प्रहलाद हैत जाहर लाल हैत	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11815 25.11.09	ग्राम व पो.आ. कुलबतपुर, थाना पुरसुराह वाया तारकेश्वर जिला हूगली
175857	प्रसेनजीत कबिराज प्रसात्ता कुमार कबिराज	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11772 02.09.09	कबिराज भगबन्ध पारा, पो.आ. नमोपारा पुरुलिया जिला पुरुलिया
175858	प्राण कुन्ती दिनेश च. कुन्ती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11756 20.08.09	ग्राम कन्यानगर, पो.आ. कन्यानगर, थाना बिष्णुपुर २४ परगना
175859	प्रवीण झा विनोद झा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11834 07.07.09	१५६, अहरिलोला स्ट्रीट, निकट पो.आ. दूसरा तल, कोलकत्ता
175860	प्रीबीर घोसल सम्भूनाथ घोसल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11755 20.08.09	ग्राम कालीबोना पो.आ. हटबसन्तापुर थाना अरामबाग हूगली
175861	पूजा मंडल पार्थ सार्थी मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11747 05.08.09	ग्राम तिमतला, पो.आ. मसिअन्दापुर थाना हबरा २४ परगना
175862	राजदीप भट्टाचारजी पार्थ प्रतिय भट्टाचारजी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11779 10.09.09	ग्राउण्ड फ्लोर ६, बकिम चन्द्र रोड, हक्रीमपारा सिलीगुरी दार्जिलिंग

175863	राजेश कुमार शुक्ला ओम प्रकाश शुक्ला	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11819 02.12.09	१७, देवोदर स्ट्रीट, कोलकता
175864	राजीव बासु रणजीत कुमार बासु	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11748 05.08.09	ग्राम पल्ला कालोनी नं.२, पो.आ. पल्ला, बर्दवान
175865	रामकृष्ण साह तपस कुमार साह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11786 17.09.09	१६३/१९, बेवाराम चटर्जी रोड, बहला साउथ २४, परगना कोलकता
175866	रितीश गिरी श्याम बिहारी गिरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11804 18.11.09	५३, बी डा. प्रिया नाथ घोष रोड, बल्ली हवड़ा
175867	संजीत कुमार घोष लता धीरेन्द्र नाथ घोष	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11781 10.09.09	ग्राम पूर्वा धनिया पो.आ. मसुन्दा थाना आमदंगा नोर्थ २४ परगना
175868	सान्तनु बसाक लक्ष्मीकान्ता बसाक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11827 13.01.10	२००, ओलादेवी तल्ला पो.आ. एवं थाना नवदीप जिला नादिया
175869	सरूप रुद्र सुधा सिन्धु रुद्र	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11830 03.02.10	ग्राम एवं पो.आ. बाराश्याम बाजार थाना मोनगोलकोटे जिला बर्दवान
175870	सत्येन्द्र तिवारी बाल गोविन्द तिवारी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11824 01.01.09	३१, आशु बोस लैन, हवड़ा
175871	सायनी मन्ना प्रदीप कुमार मन्ना	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11780 10.09.09	नोना (सारदा पल्ली) उलुबोरिया हवड़ा
175872	शाह नवाज कबीर एतुल कबीर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11798 04.11.09	ग्राम जोतचिदम पो.आ. सदीखानस डियर्थ थाना जालंगी जिला मुर्शिदाबाद

175873	शहिरियार हक समसुल हक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11811 18.11.09	ग्राम चक्रमप्रसाद पो.आ. हरे कृष्ण नगर मुर्शिदाबाद
175874	शंकर कुमार प्रमाणिक मनोरंजन प्रमाणिक	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11774 02.09.09	ग्राम व पो.आ. बामनपुर नोर्थ २४ परगना
175875	शर्मिला बन्दोपाध्याय अशोक कुमार बन्दोपाध्याय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11768 26.08.09	ग्राम व पो.आ. खामरचंदी थाना हरिपाल जिला हूगली
175876	शश्वति जोरदार समीर कुमार जोरदार	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००७	11732 18.02.09	५३१/१, आर.बी.सी. रोड, राजबन्दीगढ़ पो.आ. गरिफा २४ परगना
175877	सोनाली मंडल सक्तिपद मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11767 26.08.09	द्वारा सक्तिपदा मंडल, पो.आ. खत्रा नबरूनपल्ली बांकुरा
175878	सोमेश्वर मंडल गोपाल चन्द्र मंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11816 25.11.09	ग्राम इशलापुर पो.आ. मीरपुर थाना नन्दामुमर पुर्वा मेदिनीपुर
175879	सौमित्रा माजी बिजोय कुमार माजी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11752 12.08.09	ग्राम व पो.आ. खदानी जिला हूगली
175880	सौम्या कान्ती भट्टाचार्य सरोज भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11787 17.09.09	खान रोड, चैताली अपार्टमेंट मामकुंडु थाना ब्रह्मेश्वर
175881	सौरादीप पाल गंगाधर पाल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11773 02.09.09	ग्राम अदूरिया, पो.आ. अदूरिया जिला बर्दवान
175882	सुभासिस साह दिलीप कुमार साह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11799 04.11.09	५०/३१, रबिन्द्र एवेन्यू पो.आ. एवं जिला मालदा

175883	सुभाशु मोंडल सुबोध च. मोंडल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11817 26.11.09	१३/१६, गुरुनानक रोड, ए जेन दुर्गापुर, बर्दवान
175884	सुबीर कर्मकर दुर्रुजौय कर्मकर	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11739 05.08.09	ग्राम व पो.आ. हतबसन्तपर थाना अग्रामबाग हूली
175885	सुब्रता देव वर्मा उमेश देव वर्मा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11749 12.08.09	५०/३१, रबिन्द्र एवेन्यू पो.आ. एवं जिला मालडा, मालडा
175886	सुफाजीत भट्टाचार्या स्वप्न कुमार भट्टाचार्या	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11791 17.09.09	ग्राम देवपुर पो.आ. राधाकान्तपुर थाना मेमारी, जिला बर्दवान
175887	सुकल्याण राय सुरेश चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11753 12.08.09	चौमाथा पो.आ. हाजीनगर जिला नोर्थ २४ परगना
175888	सुमन चक्रवर्ती जीवन चक्रवर्ती	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11795 23.09.09	छोटोनियूर पश्चिम पो.आ. (श्रीपल्ली) जिला बर्दवान
175889	सुमना पौल फणिन्द्र किशोर पौल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11754 12.08.09	चौमाथा पो.आ. हाजीनगर जिला नोर्थ २४ परगना
175890	सुरजीत पौल चित्तरंजन पौल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11801 04.11.09	ग्राम भन्दरबोरिया पो.आ. कुल्बोरिया थाना तमलुक पुर्बा मेदिनीपुर
175891	सुषमा तिवारी श्री विजोय तिवारी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11734 18.02.09	म.नं. २४, बी.के.नं.१३ पो.आ. काकीनारा नोर्थ २४, परगना
175892	सुषिता चौधरी देवव्रत चौधरी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11764 26.08.09	२, जुबिली पार्क, ब्रह्मपुर बट्टला पो.आ. ब्रह्मपुर, कोलकत्ता

175893	सुसेवन सेन देवदास सेन	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11796 23.09.09	नूतनगंज सिनेमा रोड, बांकुरा पो.आ. एवं जिला बांकुरा
175894	सुवासिन्स जाना बिष्णुपद जाना	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००९	11729 12.02.09	ग्राम व पो.आ. मधुसूदन चक्र धाना रॉयदीधत जिला साउथ २४ परगना
175895	स्वातिचेखा पांजा रबिन्द्र नाथ पांजा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11765 26.08.09	मदय मोहिरी दुराममोज पारा अब्बुल मौरी अन्दुल हावड़ा
175896	तामल त्रिपुरा हिरेंद्र कुमार त्रिपुरा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11745 05.08.09	ग्राम धोपबेरिया पो.आ. गरकुपी धाना बसीरहत, नॉर्थ २४ परगना
175897	विकाश रमण सहदेव प्रसाद	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11833 21.04.2010	दुर्गानगर पो.आ. मदेरेल, नॉर्थ २४ परगना
175898	विरेंद्र विक्रम सिंह फतेह बहादुर सिंह	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11807 18.11.09	२३६/२, बेलितियस रोड, पो.आ. एवं धाना हावड़ा
175899	विशाल कुमार सहा जवाहर प्रसाद सहा	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11775 02.09.09	४८/२३, प्रेमचन्द्र नगर रोड, पो.आ., कनकिनारा नॉर्थ २४, परगना
175900	जफर इकबाल इकबाल अहमद	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11809 18.11.09	आजादनगर, पो.आ. कुलिल, धाना कुलिल, जिला बर्दवान
175901	जियाउर रहमान फरीदी मोहम्मद तारिक फरीदी	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कलकत्ता २००८	11777 10.09.09	४४, ए.बी. रोड, फिंगपाड़ा, धाना जगतदल नॉर्थ २४, परगना

प्रेम राज शर्मा
रजिस्ट्रार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 47) की धारा 50 की उपधारा (1) में दिए गए अधिकार के तहत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निम्नानुसार संशोधन करता है :--

1. इस अधिनियम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी सामान्य (संशोधित) अधिनियम, 2012 के नाम से जाना जाएगा।
2. यह अधिनियम लागू होने से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी सामान्य अधिनियम, 1961 के विषय में निम्नानुसार परिवर्तन होगा, अर्थात् :--

(i) अधिनियम के सूची में निर्धारित फार्म "ए" और फार्म "बी" के एवज में नया फार्म "ए" तथा फार्म "बी" रखा जाएगा।

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित) - (विनियम 18-फार्म 'ए')

31 मार्च को कार्य समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

1 निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(रु. मिलियन में)

पिछला वर्ष डीआईएफ सीजीएफ	देयता	पिछला वर्ष डीआईएफ सीजीएफ	आस्तियाँ डीआईएफ सीजीएफ
1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)		1. रिजर्व बैंक के पास शेष	
2. अधिशेष (संलग्न राजस्व खाते के अनुसार शेष)		2. मार्गस्थ नकदी	
3. निवेश रिजर्व		3. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
वर्ष के प्रारंभ में शेष			
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत राशि		डीआईएफ	सीजीएफ
वर्ष के अंत में शेष		अंकित मूल्य	
4. निवेश उच्चावचन रिजर्व		बाजार मूल्य	
वर्ष के प्रारंभ में शेष			
वर्ष के अंत में शेष		4. निवेशों पर उपचित ब्याज	
5. सूचित किए गए दावे और स्वीकार परन्तु अदा न किए गए दावे		5. डीआईएफ/सीजीएफ को अग्रिम (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)	
6. सूचित किए गए परन्तु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयता*		6. डीआईएफ/सीजीएफ को अग्रिम (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 27)	
7. भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 26)		7. अन्य आस्तियाँ**	
8. डीआईएफ/सीजीएफ से अग्रिम (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)		8. घाटा (संलग्न राजस्व खाते के अनुसार शेष)	
9. डीआईएफ/सीजीएफ से अग्रिम (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 27)			
10. अदावी बीमाकृत जमाराशियाँ			
11. बैंकों, जिनका बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है की बीमाकृत जमाराशियाँ			
12. अन्य देयताएँ**			
कुल		कुल	

नोट : 1. *निगम को सूचित किए गए परन्तु स्वीकार न किए गए दावों, जिन्हें वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाने के कारण गणना की गई है, से संबंधित अनुमानित देयता सामान्य रूप से अस्वीकार/आहरित करने के कारण सकल दावों के -----प्रतिशत की के समकक्ष की राशि

2. **इन शीर्षों के अंतर्गत उनकी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मद का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित किया जाए।

3. प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकार के संबंध में उपयुक्त नोट और इसके अधीन किए गए प्रावधान को प्रदर्शित किया जाए।

(विनियम 18-फार्म 'ए')

31 मार्च को कार्य समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(रु. मिलियन में)

पिछला वर्ष	देयता	पिछला वर्ष	आस्तियाँ
1. पूँजी : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधानीकृत (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार)		1. नकद	
		i) हाथ में	
		ii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	
2. रिजर्व		2. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
(क) सामान्य रिजर्व		(अंकित मूल्य : रु. -----)	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		(बाजार मूल्य : रु. -----)	
जोड़ें : राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष			
(ख) निवेश रिजर्व		3. निवेशों पर उपचित ब्याज	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		4. डीआईएफ/सीजीएफ को अग्रिम, यदि कोई हो (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 27)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत राशि			
(ग) निवेश उच्चावचन रिजर्व		5. अन्य आस्तियाँ*	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास घटाएं)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत राशि		लेखन सामग्री का स्टॉक	
3. अन्य रिजर्व		पूर्वदत्त व्यय	
4. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		फुटकर देनदार	
कर्मचारी भविष्य निधि			
कर्मचारी उपदान निधि			
अन्य देयताएं*			
कर्मचारी छुट्टी/सेवानिवृत्ति किराया रियायत			
बकाया व्यय			
फुटकर लेनदार			

नोट : 1 *इन शीर्षों के अंतर्गत उसकी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मद का ब्यौरा प्रदर्शित किया जाए।

(फार्म 'बी')

31 मार्च को समाप्त वर्ष का राजस्व खाता

1 निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(रु. मिलियन में)

पिछला वर्ष डीआईएफ सीजीएफ	व्यय	पिछला वर्ष डीआईएफ सीजीएफ डीआईएफ सीजीएफ	आय डीआईएफ सीजीएफ
	दावों के लिए :	निधि	
	(क) वर्ष के दौरान अदा किए गए		
	(ख) स्वीकार परंतु अदा न किए गए		
	जोड़ें : वर्ष के अंत में सूचित किए गए परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयता	निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)	
	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयता	गारंटी शुल्क के द्वारा (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)	
	निवल दावे :	निपटार गए निक्षेप बीमा दावों/अदा किए गए गारंटी दावों से संबंधित वसूली के द्वारा निवेशों से आय के द्वारा*	
	निवेश रिजर्व में जमा निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
	भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम पर ब्याज (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 26) डीआईएफ/सीजीएफ से अग्रिम पर ब्याज (निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)	निवल घाट नीचे लाया गया	
	डीआईएफ/सीजीएफ से अग्रिम पर ब्याज (विस्तार अधिनियम, 1961 की धारा 27)		
	वर्ष के अंत में निधि का शेष		
	नीचे ले जाया गया निवल अधिशेष		
	नीचे लाया गया निवल घाट	नीचे लाए गए निवल अधिशेष के द्वारा	
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष	पिछले वर्ष से आगे लाए गए शेष के द्वारा	
	डीआईएफ/सीजीएफ को अंतरित	डीआईएफ/सीजीएफ से अंतरण के द्वारा	
	आयकर के लिए प्रावधान		
	निवेश उच्चावचन रिजर्व को अंतरित		
	तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	तुलन पत्र में ले जाए गए शेष के द्वारा	

नोट : 1 *केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के विक्रय से होने वाले लाभ/हानि और निवेशों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को मामले के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जाए।

(फार्म 'बी')

31 मार्च को समाप्त वर्ष का राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(रु. मिलियन में)

पिछला वर्ष	व्यय	पिछला वर्ष	आय
	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्यनिधि में अंशदान		अन्य निवेशों से आय के द्वारा*
	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान		डीआईएफ/सीजीएफ को अग्रिम पर ब्याज के द्वारा
	निदेशक और समिति के सदस्यों का शुल्क		विविध प्राप्तियों के द्वारा
	निदेशक और समिति के सदस्यों का यात्रा तथा अन्य भत्ता		आय की तुलना में अधिक व्यय के शेष के द्वारा
	किराया, कर, बीमा प्रकाश व्यवस्था आदि		
	स्थापना-यात्रा और विराम भत्ता		
	मुद्रण और लेखन सामग्री		
	डाक, तार और टेलीफोन		
	लेखापरीक्षक का शुल्क		
	विधि प्रभार		
	निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
	विविध व्यय		
	मूल्यह्रास		
	विज्ञापन		
	व्यय की तुलना में अधिक आय के शेष		
	को नीचे ले जाया गया		
	सामान्य रिजर्व को अंतरित		आय की तुलना में अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया
	निवेश उच्चावचन रिजर्व को अंतरित		
	अन्य रिजर्व को अंतरित (ब्योरा दें)		

नोट : 1 *सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय से होने वाले लाभ/हानि और निवेशों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को मामले के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जाए।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2013

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के भाग 1 एवं 2 (केन्द्रीय गजट में दिनांक 09.10.2004 को प्रकाशित) में अंतर्विष्ट सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को इसके द्वारा यह साधारण सूचना दी जाती है कि उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 के विनियम 9(1) में यथा उपबन्धित उक्त रजिस्टर में अपने नाम बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा।

आवेदन के विहित प्ररूप सहित साधारण सूचनाएं प्रत्येक ऐसे व्यवसायी को, उक्त रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर पंजीकृत डाक के अधीन भेजी जा रही है। रजिस्टर में नाम बनाए रखने के प्ररूप 'च' में आवेदन इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्यक रूप से भर कर मुझे लौटा दिया जाना चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसे डाक द्वारा प्ररूप 'च' प्राप्त नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकता है।

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS)

Mumbai, the 22nd January 2013

In pursuance of Regulation 14 of the Government Securities Regulations, 2007 made by the Reserve Bank of India under Section 32 of the Government Securities Act, 2006 and published in the Gazette No. 228 of December 1, 2007 the following list of securities lost etc., for the month of December 2012, in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just, is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately to the Chief General Manager in-Charge, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculia, Mumbai-400008 :—

List

Nomenclature of the Loan	Security Number	Value in Rs./Greams.	In whose name Issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
10% Loan, 2014 (GP Note)	JP000011	Rs. 1,00,000/-	Jhalawar Kendriya Sahakari Bank Ltd.	30.05.1983	Jhalawar Kendriya Sahakari Bank Ltd.	JS-1/12 dated 07.09.2012
-do-	JP000012	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000013	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000014	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000015	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000016	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000017	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000018	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000019	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	JP000020	Rs. 1,00,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

SHRIKANT HAMINE
Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 19th December 2012

No. 13-CA(Exam)/M/2013—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final examinations will be held from 2.00 PM to 5.00 PM (IST) on each day on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly, Post Qualification Course viz : Insurance and Risk Management (IRM) examination (which is open to the members of the Institute) will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in Schedule "G" of the Chartered Accountants Regulations, 1988, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

INTERMEDIATE (INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE) EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 E(3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I :	3rd, 5th, 7th, & 9th May 2013
Group-II :	11th, 13th, & 15th May 2013

FINAL EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (ii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I :	2nd, 4th, 6th, & 8th May 2013
Group-II :	10th, 12th, 14th & 16th May 2013

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION

[As per provisions contained in "Schedule G" of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV :	10th, 12th, 14th & 16th May 2013
-------------------	----------------------------------

EXAMINATION CENTRES : (FOR ALL EXAMINATIONS)

CITIES IN INDIA

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Agra | 31. Bilaspur | 61. Jind | 91. Nellore |
| 2. Ahmedabad | 32. Chandigarh | 62. Jodhpur | 92. Noida |
| 3. Ahmednagar | 33. Chennai | 63. Kakinada | 93. Palghat |
| 4. Ajmer | 34. Coimbatore | 64. Kanpur | 94. Pali Marwar |
| 5. Akola | 35. Cuttack | 65. Karnal | 95. Panipat |
| 6. Alappuzha | 36. Dehradun | 66. Kishanganrh | 96. Panvel |
| 7. Aligarh | 37. Delhi/New Delhi | 67. Kollam | 97. Patna |
| 8. Allahabad | 38. Dhanbad | 68. Kolhapur | 98. Patiala |
| 9. Alwar | 39. Durg | 69. Kolkata | 99. Pimpri-Chinchwad |
| 10. Ambala | 40. Ernakulam | 70. Kota | 100. Pondicherry |
| 11. Amravati | 41. Erode | 71. Kottayam | 101. Pune |
| 12. Amritsar | 42. Faridabad | 72. Kozhikode | 102. Raipur |
| 13. Anand | 43. Gandhidham | 73. Kumbakonam | 103. Rajamahendravaram |
| 14. Asansol | 44. Ghaziabad | 74. Latur | 104. Rajkot |
| 15. Aurangabad | 45. Gorakhpur | 75. Lucknow | 105. Ranchi |
| 16. Bangalore | 46. Guntur | 76. Ludhiana | 106. Ratlam |
| 17. Bareilly | 47. Gurgaon | 77. Madurai | 107. Rewari |
| 18. Bathinda | 48. Guwahati | 78. Mangalore | 108. Rohtak |
| 19. Beawar | 49. Gwalior | 79. Mapusa (Goa) | 109. Rourkela |
| 20. Belgaum | 50. Hissar | 80. Margao (Goa) | 110. Saharanpur |
| 21. Bellary | 51. Hubli | 81. Mathura | 111. Salem |
| 22. Berhampore | 52. Hyderabad | 82. Meerut | 112. Sambalpur |
| 23. Bharauch | 53. Indore | 83. Moradabad | 113. Sangli |
| 24. Bhavnagar | 54. Jabalpur | 84. Mumbai | 114. Satara |
| 25. Bhilwara | 55. Jaipur | 85. Muzaffarnagar | 115. Shimla |
| 26. Bhiwani | 56. Jalandhar | 86. Mysore | 116. Sikar |
| 27. Bhopal | 57. Jalgaon | 87. Nagpur | 117. Siliguri |
| 28. Bhubaneswar | 58. Jammu | 88. Nanded | 118. Sirsa |
| 29. Bhuj | 59. Jamnagar | 89. Nashik | 119. Solapur |
| 30. Bikaner | 60. Jamshedpur | 90. Navsari | 120. Sonapat |

121. Sri Ganganagar	127. Tinsukia	133. Udupi	139. Vijayawada
122. Surat	128. Tiruchirapalli	134. Ujjain	140. Visakhapatnam
123. Surendranagar	129. Tirupati	135. Vadodara	141. Yamuna Nagar
124. Thane	130. Tirupur	136. Vapi	
125. Thiruvananthapuram	131. Tuticorin	137. Varanasi	
126. Thrissur	132. Udaipur	138. Vellore	

OVERSEAS CENTRES : FOR INTERMEDIATE (INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE) AND FINAL EXAMINATIONS ONLY :—

- (1) Abu Dhabi (2) Dubai (3) Kathmandu (4) Muscat

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Draft may be of any Schedule Bank and should be drawn in favour of The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made either online at <http://icaiaexam.icaai.org> free of cost {i.e. Rs. 500/- for Intermediate (Integrated Professional Competence) & Final candidates for the cost of application form shall not be charged if applications are filled in online} or in the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, 'ICAI BHAWAN', Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 500/- per application form in respect of Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final Examination candidates. The cost of Examination application form for Insurance and Risk Management (IRM) examination is Rs. 100/- per application form. The forms shall also be made available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 6th February, 2013.

Applications together with the prescribed fee by Demand Draft of any Scheduled Bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 27th February, 2013. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 27th February, 2013 and upto 6th March, 2013 with late fee of Rs. 500/-. Applications received after 6th March, 2013 shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 6th March, 2013. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

However, application forms duly completed for the Post Qualification Course Examination i.e. Insurance and Risk Management (IRM) will be received only at the New Delhi office of the Institute.

The candidates who fill up the examination application form online at <http://icaiaexam.icaai.org> from 6th February, 2013 to 27th February, 2013 and remit the fee online by using either VISA or MASTER Credit/Debit Card shall not be charged Rs. 500/- in case of Intermediate (Integrated Professional Competence) AND Final Examinations (i.e. cost of application form fee) in order to popularize filling-in of application form online. The candidates of Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final Examinations can continue to fill in application forms online from 28th February, 2013 to 6th March, 2013 (during which period late fee of Rs. 500/- will have to be paid by them as well).

The fees payable for the various examinations are as under :—

INTERMEDIATE

(INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE) EXAMINATION

For Both the Groups and Unit-9	Rs. 1,600/-
For one of the Groups and Unit 1 to 8	Rs. 1,000/-
Overseas Centres	US \$ 350
Kathmandu (Nepal) Centre	INR 2,250/-

FINAL EXAMINATION

For Both the Groups	Rs. 2,250/-
For one of the Groups	Rs. 1,250/-
Overseas Centres	US \$ 400
Kathmandu (Nepal) Centre	INR 3,000/-

INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION	Rs. 1,000/-
--	-------------

Candidates of Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final Examinations opting for Dubai/Abu Dhabi/Muscat Centre are required to remit US \$ 350 and US \$ 400 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether a candidate appears in a group or in both and groups or in a unit.

Candidates of Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs. 2,250/- and Indian Rs. 3,000/- respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether a candidate appears in a group or in both the groups or in a unit.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Intermediate (Integrated Professional Competence) and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the notes for information and guidance of applicants attached to the relevant application form. However the medium of Examination will be only English in respect of Insurance and Risk Management (IRM) Examination.

G. SOMASEKHAR
Additional Secy. (Exams.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th January 2013

No. N-12/13/2/2010-P&D—The following draft of certain regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public :—

2. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft regulations within the period specified above, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation.
3. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri B. K. Sahu, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002 (e. mail: ins-comm.esic@nic.in).

DRAFT REGULATIONS

In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 :—

1. In regulation 76-B, the words, “Rs. 5.00 per day” shall be substituted with the words, “Rs. 10.00 per day” and the words “Rs. 30,000” shall be substituted with the words, “Rs. 60,000”;
2. The following new regulation 110 shall be inserted, namely :—
“Regulation 110. Procedure on implementation of Information Technology (IT) Roll Out.—Notwithstanding anything contained in these Regulations, wherever, “On-line system” of functioning has been introduced, the registration of factory/establishment and employees, filing of contributions, generation of challans, payment of contributions, submission and processing of claims for benefits and all other related procedures under the Act and the Rules and Regulations made thereunder, shall be submitted/made on-line, with necessary digital signature, wherever required, under these regulations, as may be specified by the Director General from time to time.”

B. K. SAHU
Insurance Commissioner

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Chandigarh-160017, the 14th December 2012

No. ACC/Pb&HP/Notification/1(4)/489—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishment have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishment, namely :—

Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage and Consent
PN 37160	M/s. Shorey-e-solution, D-24 Indl. Area, Phase-I, Mohali	01.04.2009

Now, therefore in exercise of the powers Conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act of the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishment.

S. K. KHANNA
Addl. Central P. F. Commissioner (Z)
PB&HP

Kolkata-700012, the 16th November 2012

No. 41.U.13/12/PTMR/I/SSMC/2011-12—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring up on the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G's order vide Hqrs. Office Letter No. U.13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for the centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt :—

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. A. Warr	From 1.12.2012 to 31.11.2013 or till full time MR is joined	Shillong, Byrnihat

S. K. CHOUDHURY
Sr. State Medical Commissioner (EZ)

The 10th January 2013

No. 41.U.13/12/PTMR/I/SSMC/2011-12—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting on 25.04.1951 conferring up on the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G's order vide Hqrs. Office Letter No. U.13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for the centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt :—

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. Biswajit Sen	From 10.01.2013 to 31.12.2013 or till full time MR is joined	Tinsukia (Assam)

S. K. CHOUDHURY
Sr. State Medical Commissioner (EZ)

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st January 2013

No. ICWA/586/06/2012—In terms of Section 7(2) (c) and Section 15(1) of the Indian Council of World Affairs Act, 2001, read with the Indian Council of World Affairs (Amendment) Act, 2003, the Council constituted under Section 7(2) of the Act, is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar Bhatia as the Director General ex-officio Member Secretary of the Council, ICWA, equivalent to the rank of Secretary to the Government of India.

RAJESH KUMAR SHARMA
Dy. Director, ICWA
Under Secy.
Ministry of External Affairs

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110058

18 DECEMBER, 2012

No. 20-12/2010 –CR (Madhya Pradesh) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Madhya Pradesh and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Madhya Pradesh state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from 01.04.2008 to 31.03. 2009 by inserting serial No. 175902 of Ayurveda and 23549 of Unani onwards after the existing last Serial No. 176130 of Ayurved and 23640 of Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Madhya Pradesh) from 01.04.2008 to 31.03.2009 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

PREMRAJ SHARMA
Registrar

MADHYA PRADESH
PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
175902	Abhay Choubey B.P. Choubey	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50564 16/06/08	VPO Ghora, Tehsil Bara Malhara Distt. Chhattarpur
175903	Abhay Kumar Mishra Ramdev Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50402 03/04/08	VPO Khand Via Jaisingh Nagar, Tehsil Sohagpur, Distt. Shahdol
175904	Abhishek Choubey Om Prakash Choubey	BAMS MUHS, Nasik 2006	50534 27/05/08	MIG 21, Rajiv Nagar Colony Shivaji Nagar Ward, Tili Road, Sagar
175905	Abhishek Jain Prakash Chandra Jain	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50557 16/06/08	C/o Anupam Jain, Anupam Hardware, Behind Pradhanpura Kotwali Distt. Tikamgarh
175906	Ajay Kumar Jain Anand Kumar Jain	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50536 29/05/08	Ward No.7, Main Road, Shahpura, Bhitoni Distt. Jabalpur
175907	Ajay Parmar Bholaram Parmar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50468 17/04/08	13, Market Mohalla, Chhavni Agar, Malwa, Distt. Shajapur
175908	Ajit Kumar Devendra Kumar	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2006	50719 01/06/08	Vill. Lokipar, PO Singhpur Distt.
175909	Akanksha Khare Rohit Rajan Khare	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50628 09/07/08	Shri Baldev Prasad Khare Behind Kanti Niketan Mahalo, Nazarbagh, Chhattarpur
175910	Alok Kumar Sushil Kumar	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50611 07/07/08	103, Gajanan Apartment Sheikh ki Bagia, Nai Sarak, Lashkar, Gwalior
175911	Alok Shrivastava Mahesh Chandra Shrivastava	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50586 30/06/08	Vaidhyon Wali Gali, Rajgarh Fatak, Distt. Datia
175912	Amit Gupta Ayodhya Prasad Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50584 30/06/08	H No.31, Gupta Flour Mill Subedar Colony, Tila Jabalpura, Bhopal

175913	Amit Tripathi R.C. Tripathi	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50680 22/07/08	Kapas Mill, Harpalpur Distt.
175914	Anand Bhadrawat Bhuwan Prasad Bhadrawat	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50674 22/07/08	C/o RR Jakh Police Line, Banganga Road Distt. Shahdol
175915	Anand Kumar Dhandhoria Jagdish Prasad Dhandhoria	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50553 16/06/08	Mohalla Karondipur Bhandar Distt. Datia
175916	Anand Rahul Jagannath Chouhan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50653 09/07/08	38, Indira Colony, Near Rly. Fatak, Javra, Distt. Ratlam
175917	Anchal Kumar Gupta Kamlesh Kumar Gupta	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50424 03/04/08	VPO Paloha Bara, Tehsil Gadarwara, Narsinghpur
175918	Anil Kumar Jain Roop Chandra Jain	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2005	50723 06/02/09	Swaraj Traders Main Road Tendukhera, Distt. Damoh
175919	Archana Jain Maganlal Jain	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50706 30/07/08	H/3, Bagi Colony, Serial No.1 Goteagaon, Shridham, Distt.
175920	Archana Prajapati B.N. Prajapati	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50626 09/07/08	54, Raghvender Nagar, Near Khitoli Kothi, Distt. Shivpuri
175921	Archana Singh Prem Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50400 03/04/08	Shivam Colony, Balpurwa Banganga Road, H No.601, Ward No.32 Shehdol
175922	Arun Kumar Jain Devendra Kumar Jain	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50663 21/07/08	Abhay Auto Parts Rajwans Distt. Sagar
175923	Arun Kumar Ravi B.L. Ravi	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50569 16/06/08	Ravi Sadan, Gali No.5 Umri, Distt. Satna
175924	Arun Kumar Yadav B.J. Yadav	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50613 07/07/08	C/o Vikas Nigam, 200 Sharda Vihar Colony City Centre, Gwalior

175925	Arun Wagheshwar Harishankar Wagheshkar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50700 30/07/08	Near Rohan Vakli Keshavnagarj Ward, Distt. Sagar
175926	Arvind Kumar Sahu Shriram Sahu	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50566 16/06/08	Orchha Road, Prithvipur Distt. Tikamgarh
175927	Arvind Kumar Tripathi Avadh Narayan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50555 16/06/08	96, Nai Abadi Gali No.1, Housing Board Colony Bhind
175928	Asha Yadav Kuber Singh Yadav	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50620 07/07/08	Shri Shyam Singh Kirar Colony Kampur, Lashkar, Gwalior
175929	Ashish Jain Ashok Kumar Jain	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50521 22/05/08	Near Jain Mandir, Neha Nagar Makronia, Distt. Sagar
175930	Ashish Jain Hem Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50676 22/07/08	G 3/568, Gulmohar Colony Bhopal
175931	Ashish Kumar Sharma Jagdish Prasad Sharma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50476 17/04/08	Q.No. H 3, Tawa Colony Near Railway Station, Sohagpur, Distt. Hoshangabad
175932	Ashish Kumar Singh Chetnath Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50478 17/04/08	D 73, New Minal Residency Bhopal
175933	Ashwini Tandle Suresh Tandle	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50587 30/06/08	VPO Bharveli, Distt. Balaghat
175934	Atul Upadhyaya Rajendra Nath Upadhyaya	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50662 21/07/08	Shanti Vihar Colony Rajakheri Makronia, Distt. Sagar
175935	Avinash Kumar Khare Ram Kumar Khare	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50558 16/06/08	6/32, Kanchanpura, Near State Bank, Niwadi, Distt. Tikamgarh
175936	Avinash Patil Mohan Patil	BAMS MUHS, Nasik 2003	50505 03/05/08	Vill. Mandwada, Tehsil Thikri Distt. Badwani

175937	Bhanwar Singh Kalen Radheshyam Kalen	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50581 30/06/08	Vili, Malijpura, PO Kalwar Tehsil Kannod, Distt. Dewas
175938	Bhawna Nigwan Jag Singh Niigwan	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50708 30/07/08	14, Jawahar Marg, Opp. Govt. Higher Secondary School Distt. Alirajpur
175939	Bhojraj Patidar Ghanshyam Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50572 30/06/08	VPO Pilwas, Tehsil Nalkhera Distt. Shajapur
175940	Bhupendra Mani Tripathi Ram Prasad Tripathi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50435 10/04/08	1/38, Mahesh Nagar PO Rajmohalla, Distt. Indore
175941	Bhupendra Singh Bhadoria Yadunath Singh Bhadoria	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50616 07/07/08	Behind Private Bus Stand Shivaji Nagar, Amkho, Gwalior
175942	Bhupesh Ghormare Shivcharan Ghormare	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50561 16/06/08	VPO Sadra Tehil Lanji Distt. Balaghat
175943	Chandra Bhan Singh Thakur Dashrath Singh Thakur	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50702 30/07/08	H 26, Ward No.6, Sagar Kanpur Road, Near Petrol Pump, Banda Belai, Sagar
175944	Chandra Shekhar Japale Khushyal Japale	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50655 09/07/08	Opp. Chhatravas, Hospital Road, Uoon Distt. Khargon
175945	Chhaya Lakshkar Pradip Lakshkar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50709 30/07/08	25/574, Jawahar Colony Purani, Distt. Shivpuri
175946	Deepak Singh Tomar Kailash Singh Tomar	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50692 30/07/08	C 595, Anand Nagar Distt. Gwalior
175947	Deepshikha Singh Yadvendra Singh	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50707 30/07/08	Chanakyapuri Colony, Gali No.3 Behind PSRTC Depot, Distt. Satna
175948	Devendra Kumar Gurudayal	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1992	50721 24/12/08	Shri Pratap Vaidya Advocate VPO Nuna, Tehsil Lindhora, Distt. Tikamgarh

175949	Devshree Yevlekar Chandrakant Yevlekar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50471 17/04/08	A 15/2, EWS, Near Vikram School Rishi Nagar, Ujjain
175950	Dharmendra Kumar Gupta Dharamdas Gupta	BAMS CSM Univ., Kanpur 2004	50539 29/05/08	Near Bus Stand, Prithvipur Distt. Tikamgarh
175951	Dhiraj Kumar Prajapati Bhagwan Das Prajapati	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50422 03/04/08	Tapsi Baba ki Gufa, Nala No.2 Near Subzi Mandi, Murena
175952	Dinesh Bairwa Chhote Lal Pathak	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50695 30/07/08	212 A Vina Nagar Distt. Indore
175953	Dipendra Kumar Batham Ashok Kumar	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50612 07/07/08	Mohalla Golandaj, Baba Kapur Distt. Gwalior
175954	Dipika Aporia Rajaram Aporia	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50684 30/07/08	29, Dwarikadish Colony Gandhi Road, Thathipur, Distt. Gwalior
175955	Dipika Jain Amar Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50588 30/06/08	Near Jain Mandir, Bareilly, Distt. Raieson
175956	Dipshikha Nahar Ashok Nahar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50579 30/06/08	125, Pipalrava Tehsil Sonkachh Distt. Dewas
175957	Gajendra Prasad Shivvanshi D.P. Shivvanshi	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50522 22/05/08	P 3/2, Officer Quarter, CQA, (OFV), Sector 1 Vehicle Factory State, Distt. Jabalpur
175958	Ganga Prasad Razak Kashiram Razak	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50652 09/07/08	Chhoti Bazaria, Ganesh Ward Beena, Distt. Sagar
175959	Girendra Pawar Turansingh Pawar	BAMS Amrawati Univ. Amrawati 1996	50722 05/02/09	Sanjivani Clinic, Tumsar Road VPO & Tehsil Katangi, Distt. Balaghat
175960	Girish Narayan Pandey Brind Kishore Pandey	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2003	50601 07/07/08	LIG 93, Housing Board Colony Ingoria Road, Nagda Junction, Ujjain

175961	Gopal Krishan Dhakar Damodar Prasad Verma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50559 16/06/08	Opp. Gandhi Petrol Pump Krishanpuram Colony, Distt. Shivpuri
175962	Govind Kumar Ram Chandra	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50713 30/07/08	7/55, Mahavir Marg, Ward Serial No. 7, Kala Pathar, Maksi, Shajapur
175963	Harindra Kumar Prajapati Sakal Prasad Prajapati	BAMS Pt. R.S. Shukla Univ., Raipur 2004	50532 27/05/08	PO Ravinagar Kalri, Jhimar Pavradhar Tehsil Kotma, Anuppur
175964	Heena Khambra Bhagwan Das Khambra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50646 09/07/08	121, Anand Nagar, Raisen Road Distt. Bhopal
175965	Heena Ved Sharad Ved	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50638 09/07/08	3, Chhaya Nagar, Opp. Laxmi Nagar, Distt. Ujjain
175966	Hemant Malviya Gangaram Malviya	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50701 30/07/08	A 2, Tripti Vihar, Near Engineering College Indore Road, Distt. Ujjain
175967	Hirendra Kumar Sahu Shyamlal Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50651 09/07/08	VPO Barman, Tehsil Kareli Distt.
175968	Indira Shukla Jai Kumar Shukla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50668 22/07/08	C/o Vinay Drugs House VPO Gangev, Distt. Rewa
175969	Jaya Dhande Narayan Dhande	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50645 09/07/08	LIG II B, Sector Songiri Raisen Road, Bhopal
175970	Jayaprada Verma P.C. Verma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50619 07/07/08	15 B, Near Shakuntala Darpan Colony Thatipur, Gwalior
175971	Jayshree Sarraf Balram Sarraf	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50594 30/06/08	Balaji Enterprises Shriram Mandir Market, Hata, Distt. Damoh
175972	Jitendra Kumar Manjhi Indrapal Manjhi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50678 22/07/08	Q.No.C/106, Jamuna Kalri, PO Jamuna Kalri, Distt. Anuppur

175973	Jitendra Rav Dinesh Chandra Rav	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50511 19/05/08	VPO Khanchrod, Tehsil Badnawar Distt. Dhar
175974	Jitendra Solanki Jagannath Solanki	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50682 30/07/08	Vill. Khankri Sultan PO Itawa, Tehsil Tarana, Distt. Ujjain
175975	Jyoti Simolia M.S. Simolia	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50622 09/07/08	370, Suresh Nagar, Thathipur Murar, Distt. Gwalior
175976	Kamlesh Dhanotia Jagdish Chandra Dhanotia	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50582 30/06/08	Main Road, Near Ram Mandir Shamgarh, Distt. Mandor
175977	Kamlesh Gupta Munnalal Gupta	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50603 07/07/08	H No.2, Near Bandil Medical, Buda Bazar Shanichari Mohalla, Distt. Datia
175978	Kamta Prasad Nagria Pramod Kumar Nagria	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50632 09/07/08	Harihar Road, Harpalpur Distt. Chhattarpur
175979	Kapil Kant Gupta Om Prakash Gupta	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50563 16/06/08	120/4, Khalka Pura Mudian ka Kuan Davoeia ka Pathla, Datia
175980	Kavita Tripathi J.P. Tripathi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50600 02/07/08	506, Shivam Sundaram Nagar, Circular Road, Distt.
175981	Koshal Kumar Yadav Bhagwat Prasad Yadav	BAMS CSM Univ., Kanpur 1999	50507 03/05/08	Chakghat Border Road, Ward No.8, H N o.12, Distt. Rewa
175982	Kripashankar Sharma Narottam Sharma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50635 09/07/08	LIG II/131, Indra Nagar Agar Road, Distt. Ujjain
175983	Krishan Narayan Gupta Rameshwar Dayal Gupta	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50686 30/07/08	31/3, Saraswati Nagar, Alampur Bhind
175984	Lavit Samson A.N. Samson	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2004	50523 22/05/08	25, Saket Nagar, BNP Road Distt. Dewas

175985	Laxmi Mishra Om Prakash Mishra	BAMS SS Univ., Varanasi 1996	50724 10/02/09	Near Shobhapur Railway Fatak, Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur
175986	Lokendra Singh Narwaria Nekram Singh	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50688 30/07/08	Narayan Vihar Colony Gola ka Mandir, Gwalior
175987	Madan Lal Patidar Badri Lal Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50470 17/04/08	Vill. Khajuri, Tehsil Manasa Distt. Nimach
175988	Madan Mohan Singh Kushwaha Dhanpati Prasad Kushwaha	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50675 22/07/08	Vill. Mitoha, PO Barhula Patehara Distt. Rewa
175989	Mahendra Koushal Jagdish Chandra Koushal	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50583 30/06/08	MIGIH No. 11, Behind Anantshubh Manglik Opp. Ametha STD, Indranagar, Parisar, Ujjain
175990	Manak Dhruve Gajja Singh Dhruve	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50497 26/04/08	VPO Kesia, Tehsil Shahpur Distt. Betul
175991	Mandip Singh Mandloi Ramcharan Singh Mandloi	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50636 09/07/08	Nahargarh, Distt. Mandisor
175992	Manish Kumar Chouhan Ganesh Ram Chouhan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50570 16/06/08	Nyas Colony, Near Sharda Mandir Distt. Hoshangabad
175993	Manish Kumar Rai Bimal Kumar Rai	BAMS VB Univ., Hazaribagh 2004	50529 22/05/08	Ashalata Bhavan, Kotwali Road, Distt. Tikamgarh
175994	Manish Patidar Hiralal Patidar	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2006	50525 22/05/08	VPO Deshwalya, Nisarpur Tehsil Kukshi, Distt. Dhar
175995	Manju Chokse Santram Chokse	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50568 16/06/08	B/7, Sakarodaya Complex Tulsi Nagar Jabalpur
175996	Manoj Vishwakarma Ram Chandra Vishwakarma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50703 30/07/08	185, Shriram Colony, Near Dal Mill Nagda, Distt. Ujjain

175997	Mastram Dhakar Balram Dhakar	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50610 07/07/08	Vill. Marora Khalsa, PO Dulhara, Tehsil Pohari Distt. Shivpuri
175998	Medha Thakur C.S. Thakur	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50420 03/04/08	130, Jawahar Nagar, Near Rajender Nagar Cantt. Road, Distt. Indore
175999	Minakshi Goswami K.B. Goswami	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50629 09/07/08	308, I 12, D Parikalp Terrace Gandhi Nagar, Distt. Gwalior
176000	Mithilesh Chaurasia Malkhan Chaurasia	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50597 02/07/08	238, Shubham Colony Behind SP Bungalow, Khan Colony, Chhindwara
176001	Mithilesh Jain Sharad Jain	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50660 21/07/08	Rachna Medical Stores Main Road, Neha Nagar, Makronia, Distt. Sagar
176002	Mohammed Arshad Mohammed Salim	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50697 30/07/08	Near Ghassu Manshi Maszid Behind Lal Atari, Shukrawari Tonri, Distt. Sagar
176003	Mukesh Chandra Jaiswal Mohanlal Jaiswal	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50630 09/07/08	Choice Electronics, Mangal Nagar, Dhamnod, Tehsil Dharampuri, Distt. Dhar
176004	Mukesh Kumar Tamrakar Chhekori Lal Tamrakar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50677 22/07/08	Bara Road, Vanda Belai Distt. Sagar
176005	Namrata Vijay Vijay Shrivastava	BAMS MUHS, Nasik 2007	50504 03/05/08	E5/25, Habibganj, Near Police Station, Arera Colony, Global Hospital, Bhopal
176006	Namrita Jhanjhot S.K. Jhanjhot	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50683 30/07/08	Shivam Sundaram Colony PG College Road, Distt.
176007	Narendra Dwivedi Acchelal Dwivedi	BAMS MUHS, Nasik 2006	50545 06/06/08	Near Jay Stambh, Ajaygarh, Distt. Panna
176008	Narendra Nath Mishra Brijendra Nath Mishra	BAMS MUHS, Nasik 2006	50664 22/07/08	Transport Nagar, Behind Nirmal Motors, Padhra, Distt. Rewa

176009	Naresh Samnani Kishan Chandra Samnani	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50689 30/07/08	Ravi Bhavan, Jagtap ki Goth Madhavganj, Lashkar, Gwalior
176010	Navin Singhal Vishan Dayal Singhal	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50615 07/07/08	C/o Shri Mahender Singh, 300 Tansen Nagar Distt. Gwalior
176011	Neeraj Gupta Rakesh Gupta	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50537 29/05/08	C/o Awdhesh Gupta, 402, North Civil Line Byohar Bagh, Hospital, Jabalpur
176012	Neeraj Pandey Ramjilal Pandey	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50633 09/07/08	Raghugadan Mahender Nagar Nawada Bagh, Ater Road, Distt. Bhand
176013	Neeta Chaurasia Tirath Prasad Chaurasia	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50640 09/07/08	New Shastri Nagar, Near South Sector Medical College,, Nagpur Road. Jabalpur
176014	Nidhi Dhruve Ashok Kumar Dhruve,	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50501 03/05/08	Jai Prakash Ward, Lakhnadon Distt. Siwani
176015	Niharika Singh Surendra Pratap Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50509 19/05/08	R 11, A, Sarika Nagar, Behind Darpan Colony Thathipur, Gwalior
176016	Nilima Singh Arjun Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50669 22/07/08	Bharat Singh, 184, Nehru Colony Station Road, Distt. Sihor
176017	Nishi Thakur G.S. Thakur	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50538 29/05/08	G 7, Naya Wargi Hills, Jabalpur
176018	Nitin Sanghai Latesh Chandra Sanghai	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50604 07/07/08	Singhai & Co. 22, Nai Sarak Sarangpur, Distt. Rajgarh
176019	Nitin Ujjalia Bherulal Ujjalia	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50403 03/04/08	Ujjalia Niwas, Ambika Nagar Shujalpur Mandi, Distt. Shajapur
176020	Nivedita Patidar Radheshyam Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50474 17/04/08	Sai Colony, Palsud, Tehsil Rajpur Distt. Badwani

176021	Paras Nath Pathak Rajitram Pathak	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1995	50542 03/06/08	Vill. Devsar, PO Jhavan Distt. Sidhi
176022	Prabha Sharma Kamta Prasad Sharma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50617 07/07/08	41, Gayatri Vihar Colony Thathipur, Murar, Gwalior
176023	Prabhat Kumar Tiwari Mansarovar Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50657 09/07/08	F 2, Shriram Colony Hoshangabad Road, Bhopal
176024	Pradip Kumar Madhur Tomar Lal Madhur	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50467 17/04/08	VPO Pipalranwa, Tehsil Sonkachh Distt. Dewas
176025	Pragya Pathak Suyog Pathak	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 2000	50659 17/07/08	476, Gali No. 15, Shanti Nagar Damoh Naka, Distt. Jabalpur
176026	Prashant Pandhari Nath Gupta Pandhari Nath Gupta	BAMS MUHS, Nasik 2006	50658 09/07/08	73, Maulana Azad Marg Housing Board Colony, Distt. Badwani
176027	Pravin Kumar Chirgaiyan Ramdayal Chirgaiyan	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50631 09/07/08	A 17, Ashok Vihar Colony Tansen Road Distt. Gwalior
176028	Prem Narayan Biduwa Rajaram Biduwa	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50696 30/07/08	VPO Angor, Distt.
176029	Prem Singh Rathor Rambir Singh Rathor	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50432 10/04/08	Char Shahar ka Naka, Near Maharaja Mansingh College, Hazira, Distt. Gwalior
176030	Priti Pardhi Khukhchand Pardhi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50650 09/07/08	Narmada Nagar, Ward No. 32 Distt. Balaghat
176031	Priyanka Chouhan Govind Kumar Chouhan	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50725 22/02/09	242, Mahashweta Nagar Distt. Ujjain
176032	Pushpendra Kumar Dixit Babulal Dixit	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50421 03/04/08	88-89, Sector No. 2, Near Basic School Naya Harsood, Khandwa

176033	Pushpraj Tiwari Shivkumar Tiwari	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2006	50711 30/07/08	VPO Barhula, Distt. Rewa
176034	Rachna Bunkar Bherulal Bunkar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50404 03/04/08	E 3, Laxmi Niwas, Model Town Opp. Icecream Factory, Dewas Road, Distt. Ujjain
176035	Rachna Jadon H.S. Jadon	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50625 09/07/08	Ram Nagar, Gali No.3 Naka Chandravadani, Lashkar, Gwalior
176036	Rachna Madhukar Sumantilal Madhukar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50401 03/04/08	C/o Dilip Kumar Keshania H No.32, Punjab Colony, Rajender Nagar Distt. Khandwa
176037	Raees Khan Gaffur Khan	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50475 17/04/08	Tempo Stand, VPO Jhonkar Distt. Shajapur
176038	Ragini Kori Tikaram Kori	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50710 30/07/08	18 No. Bidi Wale Kakaganj, Distt. Sagar
176039	Rahul Chowdhary N.D. Chowdhary	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50498 26/04/08	T 4, Nishan Tower Punabi Bagh, Bhopal
176040	Rahul Jain P.C. Jain	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50469 17/04/08	25, Link Road, Moti Nagar Ward, Distt. Sagar
176041	Rajendra Kumar Moolchand	BAMS J.N.B. Gopabandhu Univ., Srinagar 2007	50506 03/05/08	Kakunpura, PO Kethikar Thana Harpalpur, Distt. Chhattarpur
176042	Rajendra Kumar Chandrawat N.L. Chandrawat	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50609 07/07/08	N 42, Hanuman Chowk, Vill. Khabasa, Tehsil Thandla, Distt. Jhabua
176043	Rajendra Singh Rajput Vijay Singh Rajput	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50690 30/07/08	VPO Barouwa, Motijheel Distt. Gwalior
176044	Rajesh Kumar Jathi Ramesh Chandra Jathi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50672 22/07/08	311, Amrakunj Colony Airport Road, Shikshak Nagar, Indore

176045	Rajesh Kumar Niranjani Lallu Ram Niranjani	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50562 16/06/08	Shri Shankar Singh Patel Soda ka KuanKila Gate, Loha Mandi, Distt. Gwalior
176046	Rajesh Kumar Sahu K.N. Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50585 30/06/08	Rest House Road, Ruthiai Distt. Guna
176047	Rajesh Singh Patel Narayan Singh Patel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50598 02/07/08	Shivaji Colony, Nahar Gadaipura Birlanagar, Distt. Gwalior
176048	Rajeshpal Singh Chandraia Kashi Prasad Chandraia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50479 17/04/08	MG 08, Nehru Nagar Police Line, Bhopal
176049	Rajiv Dhakar Balkishan Dhakar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50671 22/07/08	Ward No. 11, H No. 168 Patel Nagar, Distt. Raizen
176050	Rajnish Chansoria Jay Narayan Chansoria	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50423 03/04/08	E 8. 391, Trilochan Nagar Trilanga, Bhopal
176051	Rakesh Kumar Jaiswal Puranlal Jaiswal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50712 30/07/08	VPO Chilhari, Tehsil Bhanpur Distt. Umaria
176052	Rakesh Kumar Rathor Rameshwar Rathor	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2006	50580 30/06/08	Khaki Bagh, Kheri Mohalla Nahargarh, Tehsil Sitamau, Mandsor
176053	Rakesh Kumar Shukla Chhotelal Shukla	BAMS Pt. R.S. Shukla Univ., Raipur 2004	50429 10/04/08	Shri Gyanendra Shukla, Behind ITI. Sunder NagarBoda Bagh PO, Engineering College, Rewa
176054	Ram Mohan Raghuvanshi Radhelal Raghuvanshi	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2006	50541 03/06/08	Quarter No. 61, Behind Police Colony Thana Tehsil Bareilly, Distt. Raizen
176055	Ramashankar Manjhi Gendatal Manjhi	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50687 30/07/08	Nazir ki Bagia, Sewdha Distt. Datia
176056	Ramit Gupta Ramesh Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50433 10/04/08	Vadisha Road, Near Dal Mill, Bairsuya Distt Bhopal

176057	Rani Rathor Ramesh Rathor	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50560 16/06/08	J 101, Bhargava Colony, Near Railway Line, Distt. Guna
176058	Rashmi Jha L.P. Jha	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50685 30/07/08	B 10, Surya Nagar, Shabd Near Pratap Ashram, Gwalior
176059	Ratnesh Patel Shriram Nwas Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50656 09/07/08	92, Sneh Nagar, Hoshangabad Road Near Misrod Railway Station, Bhopal
176060	Ravikant Choure Newalal Choure	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50694 30/07/08	H No. 446, Ward No. 26, Patel Colony, Near Arun Fashion Maker, Distt.
176061	Ravindra Singh Chouhan Shivram Chouhan	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50691 30/07/08	VPO Talakpura, Tehsil Segaoon Distt. Khargon
176062	Ravishankar Shukla Rambabu Shukla	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50634 09/07/08	LIG II/131, Indra Nagar Agar Road, Distt. Ujjain
176063	Renuka Basudev Dalwai Basudev Sangappa Dalwai	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2006	50527 22/05/08	Shri Umesh Shankar Matlawar, Flat No. 131, Vaishnav D Surender Palace, Bhopal
176064	Richa Naugraia Bhagwan Das Naugraia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50593 30/06/08	Dislery Road, Near Mouni Mandir Nauagaon, Distt.
176065	Ritu Raghav U.S. Raghav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50648 09/07/08	Block No. 2, Quarter No. 15, New PTC Colony Near MLB School, Gopalganj, Sagar
176066	Rituja Sarode Swayam Prakash Sarode	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore, 2007	50554 16/06/08	B-114, Akriti Garden, Nehru Nagar, Bhopal
176067	Riyanka Aggarwal Brij Kishore Aggarwal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50510 19/05/08	Shri Paramlal Aggarwal (Swatantrata Senani), Galla Mandi Distt. Chhattarpur
176068	Riyaz Ali Syed Hassan Ali Syed	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50699 30/07/08	Near Rest House, Naya Pura Gongav, Distt. Khargon

176069	Sandip Kumar Ahirwal Beni Prasad Ahirwal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50670 22/07/08	M 39, Sterling Caisons Ahmedpur Hoshangabad Road, Bhopal
176070	Sandip Kumar Soni Narendra Kumar Soni	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50500 03/05/08	NH 26, Naya Bus Stand Opp. Police Station, Gour Jhamar, Distt. Sagar
176071	Sandip Verma Deendayal Verma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50698 30/07/08	Vill. Harnawda, PO Tonk Khurd Distt. Dewas
176072	Sangita Alawa K.R. Alawa	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50637 09/07/08	MIG B2/6, Basant Vihar Indore Road, Distt. Ujjain
176073	Sangita Patidar Mayaram Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50473 17/04/08	54, Vishwasakha Colony Bistan Road, Near Sita Mangal Bhavan, Khargon
176074	Sanjana Sihose Kashiram Sihose	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50552 16/06/08	H No. 1969, Gupteshwar Ward, Mahanadda Guru Teg Bahadur Khalsa College, Jabalpur
176075	Sanjeev Tyagi Asharam Tyagi	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50431 10/04/08	Bus Stand Ron Distt. Bhind
176076	Sapna Mishra Kamalkant Mishra	BAMS Pt. R.S. Shukla Univ., Raipur 2006	50482 17/04/08	Vill. Chora Via Chakghat PO Choura Distt. Rewa
176077	Sapna Verma D.L. Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50592 30/06/08	H 77/5, Ingle Colony Distt. Raigarh
176078	Sarita Sikarwar Nawab Singh Sikarwar	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50624 09/07/08	Near Pani ki Tanki Jora, Distt. Murena
176079	Sarita Thakre Deendayal Thakre	BAMS Pt. R.S. Shukla Univ., Raipur 2006	50481 17/04/08	Ramesh Kumar Thakre Vill. Mangedari PO Medki Tehsil Barasivni, Balaghat
176080	Savita Patel Bhagwatdin Kurmi	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50565 16/06/08	Quarter No. NC 32, MPPGCL Colony Chachai, Anuppur

176081	Seema Arya Harprasad Arya	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50623 09/07/08	Anand Nagar, Birla Nagar Distt. Gwalior
176082	Shabana Sheikh Kallu Khan Sheikh	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50419 03/04/08	3/16, GRP Police Line, Bicholi Road Near Bijli Nagar Distt. Indore
176083	Shailendra Singh Mandloi Jagdev Singh Mandloi	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50705 30/07/08	Block Colony, Saigaon Distt. Khargon
176084	Shaily Deendayal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50666 22/07/08	V-9, Priyadarshini Nilayam Tilak Nagar, E 8, Extension, Bharat Nagar, Bhopal
176085	Shaista Hassan Syed Siddikul Hassan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2003	50556 16/06/08	54, Lok Manyu Nagar, Distt. Indore
176086	Shanti Kumar Vashishth Devidayal Vashishth	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 1968	50508 19/05/08	VPO Malhan, Wada Distt. Hoshangabad
176087	Sharif Khan Bahadur Khan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50649 09/07/08	Railway Pump House Bina Nadi Bina Kethani, Kerja Tehsil Beena, Sagar
176088	Shashikant Maurya R.B. Maurya	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50704 30/07/08	46, Sector B, Annapurna Nagar Indore
176089	Sheetal Gupta Subhash Chandra Gupta	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50426 03/04/08	New Officer Colony, Chameli ki Badhi Distt. Khargon
176090	Sheetal Jain Suresh Kumar Jain	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50425 03/04/08	36, Anand Textile, Opp. Ratilal Stores, Chowk Bazar, Distt. Burhanpur
176091	Shikha Aggarwal R.K. Aggarwal	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50618 07/07/08	3/99, Krishna Bhavan Rajghat Colony, Distt. Datia
176092	Shikha Karkhur Anup Kumar Karkhur	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50621 07/07/08	Chhatra Nagar, Ward No.5 Fatak Bahar, Distt. Murena
176093	Shiv Kumar Sahu Nirmal Kumar Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50654 09/07/08	Rathor Marg, Krishan Kutir Balaganj, Distt. Hoshangabad

176094	Shrenik Jain P.C. Jain	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2007	50661 21/07/08	1473, Ankur Colony Makronia, Distt. Sagar
176095	Shrikrishan Singh Kushwaha Ramgopal Singh Kushwaha	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50551 16/06/08	MS Road, Prem Nagar Jorakhurd, Distt. Murena
176096	Shuchita Singh B.S. Gaur	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50647 09/07/08	Shivalaya 14 B, Anupam Nagar University Road, Distt. Gwalior
176097	Shukladas Ganga Narayan Das	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2004	50528 22/05/08	RC Complex, H No. 308 Damoh Naka, Near Parijat Building, Distt. Jabalpur
176098	Shweta Diwan Karan Ahirwar	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50567 16/06/08	Junior HIG, 66 A/10, Dhanwantari Nagar Medical College, Gaddha, Jabalpur
176099	Shweta Sharma Shashank Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50596 02/07/08	C/o KM Upadhyaya, Main Road Labarra, Distt. Balaghat
176100	Shweta Thapak Kamlakant Thapak	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50714 30/07/08	Near Bus Stand, Mohalla Benisagar, Distt. Panna
176101	Smita Gupta Shivram Gupta	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50627 09/07/08	Rice & Dal Mill, Jawahar Ganj Dabra, Distt. Gwalior
176102	Suja Nayar A.D. Rajgopalan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50667 22/07/08	Raj Niwas, H 24 A, Sector Sonagiri, Bhopal
176103	Sulochana Arse Parasram Arse	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50715 30/07/08	Vili. Jalgon, PO Talakpura Tehsil Segson, Distt. Khargon
176104	Sumi Jain Manoj Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50589 30/06/08	A 56, Padamnabh Nagar Near Subhash Fatak, Bhopal
176105	Sunil Kumar Verma Devki Nandan Verma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50693 30/07/08	Behind Harpalpur Thana Distt.
176106	Sunita Raghuvanshi R.S. Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50591 30/06/08	Shrikrishna Colony, H No. 123 Distt. Vidisha

176107	Surendra Kumar Ahirwar Ram Prakash Ahirwar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50641 09/07/08	Azad Ganj Bypass Road Near Bara Talab, Niwadi,
176108	Suresh Thakur Baresingh Thakur	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50673 22/07/08	Vill. Kari, PO Piplas Tehsil & Distt. Badwani
176109	Swadesh Gupta Rajiv Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50679 22/07/08	Sadar Bazar, Gohad Distt. Bhind
176110	Swati Katara Vishwanath Katara	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2006	50665 22/07/08	Pracharya Pt. Shivshakti Sharma Ayurved Mahavidyalaya, Katju Nagar, Ratlam
176111	Syed Danish Mir Syed Irshad Mir	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50449 17/04/08	324, Danish Manzil Daudpura, Distt. Burhanpur
176112	Tarendra Kumar Deharia Omkar Prasad Deharia	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2008	50720 04/12/08	VPO Ilakalhara, Tehsil Parasia Distt.
176113	Updesh Rajoria Bholaram Rajoria	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50606 07/07/08	3/15, Barrack Darpan Colony Thathipur, Distt. Gwalior
176114	Varsha Chokse S.L. Chokse	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50577 30/06/08	Ratan Dilbagi Narayan Photo Studio Kanchghar, H No. 3223, Distt. Jabalpur
176115	Varsha Gupta Dinesh Kumar Gupta	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50578 30/06/08	Rav Sahab ki Haveli, 160, Chhota Bazar Distt. Datia
176116	Varsha Singh Om Prakash Singh	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50472 17/04/08	375, Lokmany Nagar Distt. Indore
176117	Vijay Kumar Jaiswal Ranchhor Prasad Jaiswal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50499 26/04/08	VPO Sihanda, Distt. Purvi Nimad Khandwa
176118	Vikas Katara Ram Babu Katara	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50595 30/06/08	Saket Nagar, Kalabagh Ganj, Basoda, Distt. Vidisha
176119	Vikas Khare Chandra Bahadur Khare	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 1997	50718 30/07/08	New Waraskar Colony Moti Ward Kothi Bazar, Distt. Betul

176120	Vikas Nigam Brijbhushan Nigam	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50608 07/07/08	200, Sharda Vihar Colony Near New High Court, City Centre, Distt. Gwalior
176121	Vikas Sharma S.B. Sharma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50607 07/07/08	MIG. Darpan Colony Thathipur, Murar, Gwalior
176122	Vikram Singh Shriram Bhadkaria	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50614 07/07/08	Hem Singh ki Parade Lashkar, Distt. Gwalior
176123	Vinod Kumar Yadav Ram Chandra Yadav	BAMS RGUH Scinces, Bangalore 2006	50526 22/05/08	Vill. Jami, PO Malawar Tehsil Bayawara, Distt. Rajgarh
176124	Virendra Korku Rajaram Korku	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50605 07/07/08	Forest Colony, Khinni Naka Distt. Shivpuri
176125	Virendra Singh Doneria Ram Kishan Doneria	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50639 09/07/08	Munshi Babu ki Gali, Dattapura Distt. Murena
176126	Virendra Singh Shakya Ram Singh Shakya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50550 16/06/08	D 13, Raj Homes Minal Enclave Gulmohar Colony, Bhopal
176127	Virendra Tiwari Krishna Tiwari	BAMS MUHS, Nasik 2004	50396 03/04/08	Behind Bhargav Tall, Kasturba Ward Chhindwara Chowk, Distt. Siwani
176128	Vishakha Meshram Jeewandas Meshram	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50477 17/04/08	Ward No. 12, Chhatara Road Shitla Mandir, Katangi, Distt. Balaghat
176129	Vishnu Patidar Dayanand Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50599 02/07/08	VPO Mahetwada, Tehsil Maheshwar Distt. Khargon
176130	Yati Raghuvanshi R.C. Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50590 30/06/08	B 206, Rameshwaram Bagh, Mugalia, Distt. Bhopal

PREMRAJ SHARMA
Registrar

PART - II - UNNANI

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN.NO. ADDRESS & DATE
23549	Aadil Shafi Muhammad Shafi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50448 B 64, Indira Colony 17/04/08 Distt. Burhanpur
23550	Abdul Wahab Mohammad Yusuf	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50716 C/o Pracharya Unani Tibbia 30/07/08 College Distt. Burhanpur
23551	Abrar Ahmad Hasan Uddin	BUMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 2005	50602 National Highway Road No.78 07/07/08 Naigaon, Tola
23552	Affan Sami Rayn Sami Mohammad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50487 VPO Bahadarpur 26/04/08 Tehsil & Distt. Burhanpur
23553	Ajim Ahmad Abdul Khaliq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50544 Pathan Complex 04/06/08 Opp. Dargah Maidan, Khazrana
23554	Aman Shahid Mashhood Hussain Siddiqui	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50413 Pathan Complex Opp. Dargah 03/04/08 Maidan, Iqra Public School ke Upper, Khazrana
23555	Amin Bagwan Mohd. Hanif Bagwan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50455 Near Patthar Building 17/04/08 Daudpura
23556	Amita Tawdekar Shyam Tawdekar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50462 Sardar Muskute ka Bada 17/04/08 Mahajanpeth
23557	Amrin Khanam Mashkur Ulla Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50405 Opp. Shitla Mata Mandir 03/04/08 Kazipura, Ashta
23558	Ashfakur Rahman Shafiqur Rahman	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50530 Opp. State Bank Gali mein 24/05/08 Shanwara Gate
23559	Atib Siddiqui MA Siddiqui	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50517 70, Arshi Electronics, Laxmi 19/05/08 Nagar BNP Road
23560	Chand Miyan Munavvar Ullah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50437 Naushad Electricals, 10/04/08 Purana Thana Road Gandhi Park, Ashta

23561	Farha Naz Abdul Rashid Khan	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50398	80, Lala Lalpat Rai Colony Bagh Dilkusha Raisen Road	03/04/08
23562	Furkan Sheikh Sheikh Bismillah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50439	C/o Dr. BA Sheikh, Near Salard Wali Masjid Shaha Bazar, Naya Mohalla	17/04/08
23563	Gazala Anjum Abid Hussain	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50464	204, Dhar Road Opp. Zila Hospital	17/04/08
23564	Gulam Qadir Abdullah	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50575	B 49, Housing Board Colony Kohefija	30/06/08
23565	Gulrez Qureshi Mushtaq Ahmed Qureshi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50411	38, Juna Pitha, Badwali Chowki Lucky Coaching Classes	03/04/08
23566	Hidayat Ahmed Aizaz Ahmed	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50446	Sector A 56, Green Park Colony Dhar Road	17/04/08
23567	Hina Kausar Abdul Wahid	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50406	346/22, Char Khamba Gohalpur	03/04/08
23568	Insaf Ahmad Ansari Iqbal Mohammad Ansari	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50496	Ansar Manzil Patel Wadi, Sarangpur	26/04/08
23569	Iqtedar Ansari Mohd. Israr Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50415	28, Ansari Colony Langapura, Ashta	03/04/08
23570	Irfan Khan Nawaz Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50515	Mohalla Kazipura, Bhawan No. 32 Near Irani House	19/05/08
23571	Jafir Qureshi Ziauddin Qureshi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	51450	46, Hazi Colony Khazrana	17/04/08
23572	Kafil Ahmad Amir Ahmad	BUMS Aligarh Muslim Univ., Aligarh 2007	50480	Khazrana Sanchar Nagar Distt. Indore	17/04/08
23573	Kehkashan Khan Abdul Qayyum Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50461	64/34, Abdul Rahman Khan Daroga Marg, Nayamatpura	17/04/08
23574	Khan Rumnana Parwani Syed Khaliq Ali	BUMS Univ. of Poona, Pune 2005	50428	MA 26, Vatsala Vihar, Near Civil Line Stadium	10/04/08

23575	Khurshid Ahmad AB Gani	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50408	C/o KA Syed, Near Kumar Studio Pardesipura, 41	03/04/08
23576	Khutiza Mansoori Usman Mani Mansoori	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50503	Khilzi Mansion Holi Chowk Shamgarh Gaun, Shamgaun, Tehsil Garoth	03/05/08
23577	Masarrat Jahan Mohd. Rais Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50407	Masjid Nai Basti Kurwai	03/04/08
23578	Mirza Zaved Ahmad Mirza Sikandar Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50642	H No. 107, Sher Shah Suri Nagar Jhalaria Road, Khazrana	09/07/08
23579	Mohammad Alim Sheikh Mohammad Vaish	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50576	48, Khizrabad Colony Khazrana	30/06/08
23580	Mohammad Arif Ansari Mehboob Hassan Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50456	Tilak Hall Naya Mohalla	17/04/08
23581	Mohammad Asif Khan Niyamtullah Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50451	Gali No. 14, H No. 600 Bairasia Road Arif Nagar	17/04/08
23582	Mohammad Azad Ahmad Vashir Alam	BUMS CSM Univ., Kanpur 2007	50535	C/o Amanullah Advocate VPO Tyonthar	28/05/08
23583	Mohammad Faizan Anwar Abdul Raziq	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50547	48, Khizrabad Colony Khazrana	11/06/08
23584	Mohammad Irfan Ansari Mohammad Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50445	139, Chandrakala Distt. Burhanpur	17/04/08
23585	Mohammad Mohteshim Sheikh Hanif	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50681	C/o Sheikh Farid J 2, Siddiqui Nagar Azad Nagar	30/07/08
23586	Mohammad Shaban Shah Mohammad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50452	Gulla Hayati Complex Budhwara Road, Daudpura	17/04/08
23587	Mohammad Shadab Mohammad Irshad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50438	Mohd. Hussain Haider Ali Hamdard Dawakhana, Pan Mandi	17/04/08
23588	Mohammad Shafim Tamizuddin	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50491	Naya Mohalla, Near Salaiwali Masjid	26/04/08

23589	Mohammad Yasir Khan Mohammad Babu Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50450 17/04/08	City Centre Complex Flat No. T 2, Opp. Thana Talaiya, Sultania Road
23590	Mohammad Zuber Ansari Mohammad Ismail Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50492 26/04/08	106/A, Laxmi Nagar BNP Road
23591	Mohd. Musaub Mohammed Yakooob	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50417 03/04/08	Central Coffee House Opp. GPO 84, Ushaganj
23592	Mohd. Shahid Ansari Mohammad Hanif	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50444 17/04/08	Naya Mohalla, Near Salaiwali Masjid
23593	Mohd. Yusuf Jamal Shakil Ahmed	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50441 17/04/08	Lohar Mandi Dixit Gali
23594	Mumtaz Ahmad Khaliq Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50485 26/04/08	C/o Gazal PCO 196 Khizrabad Colony, Khazrana
23595	Nafis Ahmed Mohammed Sazid	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50443 17/04/08	Gulla Hayati Masjid Daudpura
23596	Nahid Khanam Mohammad Ismail	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2005	50643 09/07/08	Bairi Maidan Chishti Khan ki Masjid, Inside Kaman
23597	Nazma B Nazir Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50490 26/04/08	Nehr Nagar No. 2, Gali No. 2 Shikarpura
23598	Nilesh Jaiswal Yashwant Lal Jaiswal	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50494 26/04/08	Prerna Medical Musakhedi Main Road
23599	Nilofar Khan Rahman Khan	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50516 19/05/08	H No. 632, Kesar Bangla Near Alsent School, Idgarh
23600	Nilophar Narawala Yusuf Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50465 17/04/08	Chandrakalan Chhoti Yakub ki Haveli Distt. Burhanpur
23601	Noorjahan Ansari Abdul Rashid Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50463 17/04/08	H No. 135, Ward Kramank 27 Near Kali Fatak, Daudpura
23602	Parvez Alam Khan Nazibullah Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50410 03/04/08	C/o KA Syed, Pardesipura, 41 Near Kumar Studio

23603	Pawan Jetha Somnath Jetha	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50447	Near Bade Balaji Mandir Mahajanpeth	17/04/08
23604	Pramod Sagar Rajaram Sagar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50512	VPO Banbhada Tehsil & Distt. Burhanpur	19/05/08
23605	Rafiq Khan Mohammad Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50574	40, Vindiyara Marg Masjid Bairi Maidan	30/06/08
23606	Rahila Qadri Muhammad Hussain Qadri	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50548	1/302, Ravinagar Khazrana Road	11/06/08
23607	Rizwan Ahmed Abdul Aziz	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50440	Mulla Hayati Maszid Daudpura Budhwara Road	17/04/08
23608	Rizwana Mohammad Sohrab	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50434	Sinchai Colony, Shikarpura	10/04/08
23609	Sadia Talat Tanvir Ahmad	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50520	478, Bhan Talaiya Kunjdhai Masjid	21/05/08
23610	Salma Sultana Sheikh Ishaq Ahmad Sheikh	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50514	136, Khizrabad Colony Khazrana	19/05/08
23611	Salman Anwar Anwarul Haque	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50414	48, Khizrabad Colony Khazrana	03/04/08
23612	Saved Ahmad Ansari Shamsher Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50573	Mulla Hayati Complex Daudpura, Budhwara Road	30/06/08
23613	Shabina Bano Ansari Mohd. Iqbal Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50531	Hafirpur Patthar Kuan Distt. Burhanpur	26/05/08
23614	Shahin Mansoori Gulam Hussain Mansoori	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50549	C/o Sh Z.H. Qadri Saharak Shik- shak, H No. 645 A Block, Gali No. 50, Narial Kheda	16/06/08
23615	Shahnawaz Sheikh Naushad Sheikh	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50436	73, Razzat Ali Khan Marg Near Dewas Darpan Press	10/04/08
23616	Shajia Fatma Rizvi Syed Gulam Haider Rizvi	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50399	H No. 15, Behind Muskan Talkies, Near Vidhya Vikas School, Garam Gaddha Road	03/04/08

23617	Shajia Gandhi Firoz Gandhi	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50466 17/04/08	Type 3, Quarter No.3, Custom & Central Excise Officers Colony, Residency Area
23618	Shakil Ahmad Safdar Mohammad	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50519 21/05/08	H No.378, Behind Sent Bin School Hussaini Chowk, Azad Nagar, Indore
23619	Shakil Ahmad Nagori Mubarak Hussain Nagori	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50488 26/04/08	183, Shafi Nagori Colony New Fine Art Tailor, Mahidpur.
23620	Sheikh Abdul Khaliq Abdul Hamid	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50571 18/06/08	Maulana Sheikh Habib VPO Baidia, Tehsil Badwah
23621	Sheikh Idris Sheikh Chhotu	BUMS Dr.HG Vish., Sagar 2007	50495 26/04/08	Kadaria School Parisar Nagjhiri
23622	Sheikh Imran Sheikh Luqman	BUMS Univ.of Poona, Pune 2005	50427 10/04/08	53, Khizrabad Colony Khazrana
23623	Sheikh Mabood Alam Mohammad Hanif Sheikh	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50546 11/06/08	48, Khizrabad Colony Khazrana
23624	Sheikh Sarfraz Nawaj Abdul Sattar	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50489 26/04/08	44, Ram Prasad Bhargava Marg Jama Masjid Road
23625	Shekh Anis Sheikh Ahmad	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50416 03/04/08	43, Near Hatampura Inam BadaDistt. Khandwa
23626	Sonal Paliwal Shrigopal Paliwal	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50486 26/04/08	A/40, Indira Colony Burhanpur
23627	Syed Asim Ali Syed Kausar Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50409 03/04/08	41, Near Kumar Studio Shri KA Syed Pardesipura
23628	Syed Izhar Ali Syed Iftekhhar Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50717 30/07/08	Kazipura Dashahara Maidan Rod Opp.Rafiq Seth ka Bada, Ashta
23629	Syed Mariam Ali Syed Nasir Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50459 17/04/08	Khan ka Ward Distt. Burhanpur
23630	Syed Ubed Ahmad Syed Bakar Ahmed	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50453 17/04/08	Bairi Maidan Near Madarsa

23631	Syeda Aysha Anjum Sher Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2000	50540	Syed Asif Ali, New Jyoti Colony Behind SPM Hospital	02/06/08
23632	Syeda Zainab Ali Syed Nasir Ali	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50460	Khan ka Ward Distt. Burhanpur	17/04/08
23633	Tahira Begum Syed Rahat Mir	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50493	Chandrakalan Distt. Burhanpur	26/04/08
23634	Tajin Khan Nasim Ahmad Khan	BUMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50644	H No. 5, Rafiqia School Road, Airtel Tower Building Chowki, Masjid Farid Khan	09/07/08
23635	Tavrez Ahmed Ansari Shafiq Ansari	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50412	Sureyya Cottage 3/1, Shehlata Ganj	03/04/08
23636	Tosif Sheikh Abdul Rauf	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50418	1/3, Nazar Ali Marg Milkipura	03/04/08
23637	Yogesh Kankde Pundlik Kankde	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50518	VPO Banbhada Tehsil & Distt. Burhanpur	21/05/08
23638	Zahid Hussain Shoukat Hussain	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50502	H No. 20, Burhanuddin Aulia Marg Chandrakalan	03/05/08
23639	Zuber Khan Zaved Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50458	Near Dholi Baba Adde ki Masjid Distt. Burhanpur	17/04/08
23640	Zulfeqar Ali Khan Inam Ullah Khan	BUMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50457	Lohar Mandi Dixit Gali	17/04/08

PREMRAJ SHARMA

Registrar

No. 20-12/2010 –CR (Madhya Pradesh) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Madhya Pradesh and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Madhya Pradesh state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from 01.04.2009 to 31.03. 2010 by inserting serial No. 175233 of Ayurveda and 23524 of Unani onwards after the existing last Serial No. 175794 of Ayurved and 23548 of Unani which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Madhya Pradesh) from 01.04.2009 to 31.03. 2010 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

PREMRAJ SHARMA
Registrar

MADHYA PRADESH
PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
175233	Aarti Barman Shankar Lal Barman	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	51073 19/11/09	VPO Dashrman Tehsil Sihora Distt. Jabalpur
175234	Aarti Bhagoria BL Bhagoria	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50733 04/06/09	A2/57, Sagar Estates Ayodhya Bypass Rd Bhopal
175235	Abhideep Hazari Sushil Hazari	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51257 07/12/09	Ward Kramank 1, Rahli Distt. Sagar
175236	Abhidip Singhai Padam Kumar Singhai	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51271 21/12/09	30/24, Subedar Ward Machis Bidi Branch Distt. Sagar
175237	Abhilasha Sharma Gouri Shankar Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50922 06/11/09	136, Krishna Colony Distt. Vidisha
175238	Abhilasha Shukla SN Shukla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50795 11/08/09	LIG 730, Dhanwantari Nagar PO Gadha Distt. Jabalpur
175239	Abhiram Chourasia Shobharam Chourasia	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51343 12/03/10	Bhopal Rd Berkhedhi Sarak VPO Mardampur Sihora Distt. Sagar
175240	Abhishek Dubey Prakash Dubey	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51272 23/12/09	Prathmik Balak Shala Chameli Chowk, Ravi shankar Ward Sagar
175241	Abhishek Goel Ladli Prasad Goel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51050 18/11/09	Opp. Hotel Phoolganj AB Road, Kolaras Distt. Shivpuri
175242	Abhishek Tyagi Naresh Chandra Tyagi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51234 30/11/09	H No. 6, Neelganga Colony Distt. Ujjain
175243	Absar Khan Multani Ajij Multani	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51059 18/11/09	332, Chowk Bazar Jagoti Tehsil Mahidpur Distt. Ujjain

175244	Adil Ahmed Quadri Atik Ahmed Quadri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51232 30/11/09	70, Jat Mohalla Rajgarh Distt. Rajgarh, Byavara
175245	Aditya Bhatt Bhawani Shankar Bhatt	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	50912 05/11/09	60-61, B Shital Nagar MR 10 Road Indore
175246	Ajay Kant Kaurav Ashok Kaurav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51107 23/11/09	Shrijiipuram Colony Lamba Complex, Kareli Distt. Narsinghpur
175247	Ajay Kumar Awasthi Saraswati Prasad Awasthi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50743 29/06/09	106, Mahaball Ngr Kolar Rd Bhopal
175248	Ajay Kumar Soni Gopal Krishan Soni	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50305 20/08/09	44, Jawahar Marg, Main Road Opp. Samber Maruti Mandir Distt. Indore
175249	Ajay Kumar Soni Ram Kumar Soni	BAMS MUHS, Nashik 2006	50936 10/11/09	Amgaon (Bada) Tehsil Kareli Distt. Narsinghpur
175250	Ajay Kumar Upadhyay Mathura Prasad Upadhyay	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51021 16/11/09	VPO Udaipura Tehsil Gadhakota Distt. Sagar
175251	Ajay Prakash Parihar Shivram Parihar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50823 31/08/09	Vill. Loharia, PO Bagholi Betul Bazar Teh. & Distt. Betul
175252	Ajay Sharma SC Sharma	BAMS CSM Univ., Kanpur 2006	51002 12/11/09	Keshav Colony Near Mata ka Mandir Distt. Murena
175253	Ajendra Kumar Gupta Kedar Lal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51099 20/11/09	Garg Medical stores Berad Distt. Shivpur
175254	Ajit Kumar Pandey Arun Kumar Pandey	BAMS Pt. R.S. Shukla Univ., Raipur 2008	51320 05/02/10	Behind Hanuman Mandir Chandrapur Rd. Chakghat Distt. Rewa
175255	Akanksha Ojha Krishan Kumar Ojha	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2009	51303 29/01/10	33, Priyadarshini Paramound, Hoshangabad Road Bhopal
175256	Akanksha Patwa Satish Patwa	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51123 23/11/09	60, B, Ashirwad Colony Kolar Road, Banjari Bhopal

175257	Akhilesh Goswami Sitaram Goswami	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51025 18/11/09	Madhuban Colony Kundeshwar Road Distt. Tikamgarh
175258	Akhilesh Parihar Devraj Singh Parihar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51125 23/11/09	65, Shriram Nagar, Nemawar Road Palda Distt. Indore
175259	Akhilesh Pratap Singh AK Singh Parihar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51315 04/02/10	Kota House, Gayatri Nagar Nagod Distt. Satna
175260	Akhilesh Rajput Surendra Singh Rajput	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	51075 19/11/09	Shri Suraj Singh Parmar Kapas Milli Harpalpur, Distt. Chhatarpur
175261	Akhilesh Singh Rajput Gambhir Singh Rajput	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50833 07/09/09	Vill. Jodekya, PO Bagholi Teh. & Distt. Betul
175262	Ambrish Kumar Choudhry Shriram Kumar Choudhry	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50935 10/11/09	VPO Kumrai Tehsil Gadhakota Distt. Sagar
175263	Amit Kumar Golhani Balram Golhani	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51277 29/12/09	Behind Kayakalp Clinic Masjid Lakhnadin Siwani
175264	Amit Kumar Soni Shyam Kishor Soni	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2006	51347 25/03/10	Nareiya Mohalla, Near Subhash Press Himachal Gali Tikamgarh
175265	Amit Kumar Upadhyaya Ram Prakash Upadhyaya	BAMS Pt R.S. Shukla Univ., Raipur 2008	51258 07/12/09	Vill. Chorha PO & Tehsil Majhgawan Distt. Satna
175266	Amit Kumar Uttaradi Gurumukh Das Uttaradi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50845 25/09/09	Shalimar Medical C Kranti Kriplani Nagar Distt. Indore
175267	Amit Pandey Kamleshwar Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50798 17/08/09	Vill. Nakdwar Khurd PO Nakjhar Kalan Teh. Siwani Distt. Sidhi
175268	Amit Singhai Ajit Singhai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51293 15/01/10	Near Gayatri Children School U 41, Sisodia Colony Guna
175269	Amit Upadhyaya Ashok Kumar Upadhyaya	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50979 12/11/09	H No. 3/136, Narmada Colony Ploianganj Gadarwara Narsinghpur

175270	Anita Verma ID Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51086 20/11/09	H No. 84, Near Purva Rly City Rly Hos., Beena Distt. Sagar
175271	Anmol Dongre KS Dongre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51237 30/11/09	S 641, Nehru Nagar Distt. Bhopal
175272	Anamika Sanehi Munna Lal Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51264 10/12/09	Canara Bank Near Gour Murti Distt. Sagar
175273	Anantram Patel Bhaiyaram Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50916 05/11/09	Behind Nai Krishi Upaj Sagar Naka, Hirdepur Damoh
175274	Anil Dhurve Tularam Dhurve	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50829 05/09/09	VIII. Dhobawar, PO Nejhar Tehsil Vichhila Distt. Mandla
175275	Anirudd Chouhan TS Chouhan	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50980 12/11/09	D 2, Main Road Dhanwantari Nagar Jabalpur
175276	Anita Kumar Vishwas Arvind Vishwas	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50968 11/11/09	Hatpura Jhanda Chowk Aagar Malwa Distt. Shahjapuri
175277	Anjali Upadhyaya Shashikant Upadhyaya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50964 11/11/09	813 Ward Serial No. 31 Shyam Vihar Colony Distt. Murena
175278	Ankit Khare Raj Kishor Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50876 26/10/09	Shastri Nagar Orchha Distt. Tikamgarh
175279	Ankit Sharma Harlom Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50775 28/07/09	VPO & Tehsil Nateran Distt. Vidisha
175280	Ankur Choure Purushottam Choure	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50780 28/07/09	30, Indraprastha Civil Lines Malakhedi Road Hoshangabad
175281	Ankur Dixit Vinod Kumar Dixit	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50816 31/08/09	F 83/19, Tulsi Nagar Bhopal
175282	Anshu Jain Ashok Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51108 23/11/09	Porush Sadan Ahmedpur Rd Distt. Vidisha

175283	Anshu Malviya Laxmi Narayan Malviya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51204 27/11/09	VPO Ranipur Teh. & Distt. Betul
175284	Anshumala Gajbhiye SV Gajbhiye	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50736 11/06/09	J 359, Kotra Sultanabad Bhopal
175285	Anuradha Singh Suman Raj Bahadur Suman	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51203 27/11/09	Opp. Roshan Bhavan, B. Bajaria Shivaji Ward Beena Distt. Sagar
175286	Anuruchi Jadon Ghanshyam Lal Jadon	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50984 12/11/09	425, Vyanktesh Vilhar Colony Aerodrum Road Distt. Indore
175287	Anushree Tomar Vikram Singh Tomar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50986 12/11/09	Indira Netra Chikitsalaya Kempura Khurai Distt. Sagar
175288	Archana Chouhan Shivram Chouhan	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50898 04/11/09	Vill. Behrampur Tema Teh. & Distt. Khargon
175289	Archana Dhurve Ram Prasad Dhurve	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50789 06/08/09	Omm Nivas, Vijhla Katra Rd Mandla
175290	Archana Singh Inderjeet Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51181 25/11/09	3/30, Housing Board Cly Behind Gayatri Mandir Shehdol
175291	Archana Verma Bholaram Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51322 08/02/10	57/2, Purana Malaria Office Anand Nagar Distt. Khandwa
175292	Arun Kumar Dathore Rambhau Dathore	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50987 12/11/09	Chilolithana Post & Teh. Bhainsdehi Distt. Betul
175293	Arun Kumar Rathor Rajaram Rathor	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50771 28/07/09	VPO Sarsai Distt. Bhind
175294	Arun Patidar Mahesh Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2009	50973 12/11/09	E 7, MPEB Grid Colony Badwah Distt. Khargon
175295	Arvind Kumar Jain CC Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51338 03/03/10	89, Durga Nagar Vidisha Distt. Vidisha

175296	Arvind Kumar Patel Ramdas Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	51121 23/11/09	Shri Bhanu Singh Ambedkar Tiraha Kanoongo Colony Beena, Sagar
175297	Asha Solanki Mangilal Solanki	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50929 06/11/09	Vill. Viria, PO Talakpura Tehsil Segaoon Distt. Khargon
175298	Asha Surya Vinod Surya	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51005 13/11/09	Umla Hospital Nevri Tehsil Bagli Distt. Dewas
175299	Ashish Boma Nandlal Boma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51014 16/11/09	H No. M-II/3, New Indira Nagar Neemach Distt. Neemach
175300	Ashish Jain Raj Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51233 30/11/09	1508, Shankaracharya Ngr Station Shettra Behind Bazarla Bhopal
175301	Ashish Kumar Gupta Ram Sewak Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51069 19/11/09	Shri Maa Durga Bor Wells Main Road, Harpalpur Distt. Chhatarpur
175302	Ashish Kumar Jain Uttam Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50956 11/11/09	Opp. Nagar Panchayat Karyalaya: Khargapur Distt. Tikamgarh
175303	Ashish Kumar Jain Ashok Kumar Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51281 06/01/10	Near Bade Jain Mandir Kachahari Rd, Banda Distt. Sagar
175304	Ashish Kumar Vanskar Shankar Lal Vanskar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50955 11/11/09	Near Janpad Panchayat Amla Distt. Betul
175305	Ashish Mishra Sushil Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50807 20/08/09	Near Purender Talkies Shikshak Cly, Dabra Gwalior
175306	Ashish Sharma Vishnu Prasad Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50923 06/11/09	C/o Shri VP Sharma Public School, Sadar Betul Distt. Betul
175307	Ashish Soni Lakhan Lal Soni	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51049 18/11/09	Vill. Dhilla Tehsil Prithvipur Distt. Tikamgarh
175308	Ashish Tiwari JP Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51169 25/11/09	388, Tiwari Gali Bhagat Singh Ward, Distt. Sagar

175309	Ashok Kumar Kushwaha Keshav Prasad Kushwaha	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2005	51340 09/03/10	Q.No.B/159, Jamuna Miners PO Jamuna Kaini Anuppur
175310	Ashok Lachheta Laxman Lachheta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50958 11/11/09	231, Amodia, VPO Amodia Teh. Sardarpur Distt. Dhar
175311	Ashouk Borasi Ranidas Borasi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51052 18/11/09	H No. 78, Dhiraj Nagar Ring Road, Chouraha Distt. Indore
175312	Ashutosh Kumar Pandey Kedar Prasad Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50803 18/08/09	VPO Kiitha Via Jetwara Distt. Satna
175313	Ashwini Varun Murlidhar Varun	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50895 04/11/09	35, Jawahar Nagar Neemach Distt. Neemach
175314	Atul Pandey Brij Bhushan Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50792 07/08/09	H No. 72, Ankit Parivar Nayapura, Kolar Road Bhopal
175315	Atul Sharma Rekhi Ram Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51001 13/11/09	Naka Chandravadhi Gali 1 Ram Nagar, Lashkar Gwalior
175316	Avinash Thakre Gulabrav Thakre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50831 07/09/09	Jam Road, Unranala Distt. Chhindwara
175317	Awnish Sharma Madan Lal Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51031 16/11/09	Dholi Bua ka Pul, Dhundharam Choudhary ka Bada, Lohagarh Gwalior
175318	Badar Singh Baskel Ram Singh Baskel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50844 18/09/09	VIII. Pachkheda, PO Bagalia, Distt. Dhar
175319	Balendu Mouli Shukla Kanthduft Shukla	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	51312 03/02/10	Opp. Wada House Bajrang Nagar Distt. Rewa
175320	Bandana Mandloi Harisingh Mandloi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50899 04/11/09	15 Mishra Nagar, FN 203, Surya Aptt. Annapurna Road Indore
175321	Basant Turkar Bharat Lal Turkar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50953 11/11/09	VIII. Tekari, PO Badgaon Tehsil Varasiwari Distt. Balaghat

175322	Bhag Singh Kushwaha Kailesh Chandria Kushwaha	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50938 10/11/09	Bhartiya Vidhya Niketan Madhyamik Vidyalaya, Bhatwar Distt. Gwalior
175323	Bhagat Singh Ajmer Singh	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51023 16/11/09	H No. 381, Suresh Nagar Thathipur Murar Distt. Gwalior
175324	Bhagwati Prasad Gupta Chantu Lal Gupta	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50813 26/08/09	Purani Subzi Mandi Road, Near Park Gali 2, Kelas Distt. Murena
175325	Bhagya Shri Pavra Chandra Singh Pavra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50791 07/08/09	13, Vinayak Parisar E 8, Shahpura Bhopal
175326	Bharat Jain Dinesh Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	51335 03/03/10	Ayu. Ausdhahaya, 89, Madhav Club Road Distt. Ujjain
175327	Bharti Mishra Pradip Kumar Mishra	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51274 23/12/09	E N 2/9, Char Imli Bhopal
175328	Bharti Sahu MP Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51178 25/11/09	Pradhanpura Mohalla Jatara Distt. Tikamgarh
175329	Bharti Tantuvai PL Kori	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51310 03/02/10	Shakti Nagar Makronia Distt. Sagar
175330	Bhavna Rawat Santosh Kumar Rawat	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50825 31/08/09	MIG 135, Shanti Bihar Colony Makronia Distt. Sagar
175331	Bhupendra Kumar Rathor Rameshwar Rathor	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50868 13/10/09	Kaliji Chowk Rajender Ward Betul Bazar Betul
175332	Bhupendra Valdya Ranglal Valdya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51350 25/03/10	MIG 2, Vishwakarma Nagar, Berasia Road Karond, Bhopal
175333	Bijeta Warange Avinash Warange	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51098 20/11/09	N 2 614-616, Habibganj Ehel Bhopal
175334	Brij Mohan Bajretia Parsadi Lal Bajretia	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51046 18/11/09	H No. 369/29, Ralspura Distt. Shivpuri

175335	Brijendra Kumar Shrivastava Hargovind Shrivastava	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50966 11/11/09	VPO Aswar Tehsil Lahar Distt. Bhand
175336	Chandra Kant Ahirwar Brijlal Ahirwar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50903 04/11/09	Madhuvar Shah Ward No. 4 Manorama Cty Distt. Sagar
175337	Chandra Mohan Dhakad Jagdish Prasad Dhakad	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50937 10/11/09	Ram Nivas Chaturvedi Pati Chouraha Kile Andar Distt. Vidisha
175338	Chandra Prakash Patidar Siyaram Ji Patidar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50939 10/11/09	VPO Kachnarla Tehsil Tarana Distt. Ujjain
175339	Chetan Bhardwaj Manohar Lal Bhardwaj	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50849 30/09/09	116, Indrapuri Colony Kishanganj, Mahu Distt. Indore
175340	Chetan Kumar Tikkus Neelkanth Tikkus	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51091 20/11/09	BM 157, Nehru Nagar Near Police Line Bhopal
175341	Chetan Patidar Gopal Patidar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51149 24/11/09	224, Patel Marg Susari, Tehsil Kukshi Distt. Dhar
175342	Chetan Sonone Rav Saheb Sonone	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50977 12/11/09	87, Marathi Mohalla Distt. Indore
175343	Chhavikant Baghmare BP Baghmare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51220 27/11/09	Athner Road, Badora Chowk, Betul Distt. Betul
175344	Chhaya Dubey Mahesh Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51224 27/11/09	Maheshwari Muhall Hatwari Tori Bada Bazar Distt. Sagar
175345	Chhaya Pise Madhukar Pise	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50962 11/11/09	Shri MM Pise Anubhagiya Krishi Vistar Adhikari Multai Betul
175346	Dal Bhanjan Singh Tomar Ramesh Singh Tomar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50965 11/11/09	28, Ram Nagar Murar Distt. Gwalior
175347	Darpan Gangil Rajesh Gangil	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50777 28/07/09	125, Gangil Bhavan, Jiwaji Ganj Dhari Block Distt. Murena

175348	Deepak Agnihotri Mahadev Prasad Agnihotri	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51147 24/11/09	AM 53, Indus City Nishatpura Distt. Bhopal
175349	Deepak Singh Thakur Mathura Prasad Thakur	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50897 04/11/09	Kanchan School Shastri Ward Distt. Sagar
175350	Delman Kumar Panika Uday Lal Panika	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51068 19/11/09	Aman Chowk, Loading Dafai PO Kotma Kalri Distt. Anuppur
175351	Devendra Chhayala Mahendra Kumar Chhayala	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51198 27/11/09	NMRC 78 New Minal Residency JK Rd Govindpura Bhopal
175352	Devendra Hakim Hukum Chandra Hakim	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51066 19/11/09	Arogya Sadan Gandhi Chowk Distt. Burhanpur
175353	Devendra Kumar Choudhry Bal Mukund Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51171 25/11/09	BM 157, Nehru Nagar Bhopal
175354	Devendra Kumar Niranjani Amrit Lal Niranjani	BAMS Pt. R. S. Shukla Univ., Raipur 2009	51078 20/11/09	Shri Ramji Lal Mishra Purana Panna Naka, Distt. Chhatarpur
175355	Dharika Sachdeva Pawan Kumar Sachdeva	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51259 08/12/09	14/277, Bharatkuti Krishnapuram Colony Distt. Shivpur
175356	Dharmendra Kumar Choudhary Rewati Raman Choudhary	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50920 06/11/09	VPO Kumral Tehsil Gadhakota Distt. Sagar
175357	Dhirender Verma Gaya Prasad Ahlwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51061 18/11/09	Dislery Road Ward No. 15, Chhattarpur
175358	Dilip Chouhan Bhagad Singh Chouhan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50879 26/10/09	VPO Phata Tehsil Alirajpur Distt. Alirajpur
175359	Dinesh Karma Kanhalya Lal Karma	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50911 05/11/09	Sutar Mohalla Vill. Ringnod Rly. Station Road, PO Barehi Distt. Dhar
175360	Dinesh Kumar Mishra Ashok Kumar Mishra	BAMS BHU, Varanasi 2005	50882 27/10/09	Opp. Mishra Poly Clinic Court Bhendhan Distt. Singrol

175361	Dinesh Kumar Rajput Rajendra Singh Rajput	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50731 19/05/09	A 63, Acityapuram Behind Rd Distt. Gwalior
175362	Dipali Meshram Khem Chandra Meshram	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50940 10/11/09	Vill. Mirangpur Distt. Balaghat
175363	Dipti Dhariwal Subhash Dhariwal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50983 12/11/09	25, Mahadev Colony Ward No 6, Mahidpur City Distt. Ujjain
175364	Dipti Kinkar SK Kinkar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51028 16/11/09	09, Mandhata Colony Near TB Sanatorium Chhindwara
175365	Dipti Thakur LS Thakur	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51188 27/11/09	242, Krishan Ganj Ward Distt. Sagar
175366	Divya Pandole Naresh Kumar Pandole	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50774 28/07/09	G 44, C.I. Colony Jahangirabad Bhopal
175367	Diwaker Rav Kadam Jaggannath Rav Kadam	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50851 30/09/09	35 MIG Savarkar Nagar Distt. Dhar
175368	Dubha Rohini Kumar DSN Murti	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51164 25/11/09	G.No.23712 Railway Filter Pump Distt. Shehdol
175369	Durga Pawar Gangaram Pawar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51301 28/01/10	Vill. Badikhurd, PO Bhagyapur Teh. Bhagwanpura Distt. Khargone
175370	Durgesh Senthia Ram Siya Senthia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51165 25/11/09	Thapak Mohalla Purani Basti Distt. Bhind
175371	Ekta Sahu Ganesh Prasad Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51030 16/11/09	Mandhata Colony, Near TB Sanatorium Distt. Chhindwara
175372	Ekta Sharma Pramod Kumar Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51244 30/11/09	Shanti Colony Bararipura Distt. Chhindwara
175373	Gajraj Singh Patel Sahab Singh Patel	BAMS RGUJH Sciences, Bangalore 2007	51285 06/01/10	C/o Dr. Hansraj Singh Distt. Narsinghpur

175374	Garima Jain Narendra Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51214 27/11/09	86, Ashirvad Bhavan Ravishankar Ward, Chameeli Distt. Sagar
175375	Garima Mandloi Jagdish Chandra Mandlooi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50896 04/11/09	15, Mishra Nagar, FN 203, Surya Appt, Annapurna Road Indore
175376	Garima Pandey Naresh Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50814 27/08/09	Nema Colony, Tilak Ward, Devi Distt. Sagar
175377	Garima Rathor SPS Rathor	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50809 24/08/09	MIG, D 14 Ayodhya Nagar Bhopal
175378	Gaurav Bheria Ishwar Das Bherua	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51013 16/11/09	Ward No. 1, Jai Prakash Nagar Diwan Colony, Etarsi Distt. Hoshangabad
175379	Gaurav Jain Padam Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50732 03/06/09	Jain Bhaji Shop, Katra Bazar Sagar
175380	Gaurav Joshi Jai Prakash Joshi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50826 04/09/09	7 JP Road Dhar Distt. Dhar
175381	Gaurav Malviya KC Malviya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50748 02/07/09	92, Jain Nagar Lalgathi Bhopal
175382	Gaurav Pardhi Suraj Lal Pardhi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51105 23/11/09	VIII, Jarahi PO & Tehsil Kimapur Distt. Balaghat
175383	Gaurav Potphode Sukhdev Potphode	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51012 16/11/09	Deshbandhu Ward Tikari Distt. Betul
175384	Gaurav Verma Prakash Chandra Verma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 1977	50783 04/08/09	State Bank of India PO Serni Harchand, Teh. Sohagpur Distt. Hoshangabad
175385	Gautami Choudhry SC Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51194 27/11/09	Compounder Colony Ward No. 7, Baihar Distt. Balaghat
175386	Geeta Jatav Laljaram Jatav	BAMS Pt.R.S.Shukla Univ. Raipur 2008	51054 18/11/09	Shri Bhagwan Singh Karyalaya, Sahayak Bhoonni Saranskhan Distt. Shahapur

175387	Giriraj Prasad Gupta Chetram Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51344 12/03/10	VPO Shyampur Tehsil Vijaypur Distt. Shyampur
175388	Gopal Malviya Ambaram Malviya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51195 27/11/09	VIII. Daukhedi, PO Badkummed Tehsil & Distt. Ujjain
175389	Govind Prasad Sahu Shivdeen Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50786 30/07/09	VPO Saikheda Tehsil Multai Distt. Betul
175390	Govind Prasad Sharma Banwari Lal Sharma	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50839 14/09/09	Grade II Karyalaya Collectorate Murena
175391	Govind Sharan Dwivedi Krishan Kant Dwivedi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50824 31/08/09	VPO Kulgarhi Distt. Satna
175392	Gulsher Ahmed Gul Mohammad	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50944 10/11/09	Sankat Mochan Choraahaa MP Eng. Works Vijay Raghavgarh Distt. Katni
175393	Gunjan Jain Tej Kumar Jain	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51109 23/11/09	14, Mahavir Nagar Sanver Road Distt. Ujjain
175394	Harindra Kumar Patel Balgovind Patel	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2006	50740 11/06/09	VPO Anjanla Near Range Off. Distt. Mandla
175395	Hema Bele Surat Lal Bele	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51207 27/11/09	E 8, Gulmohar Exten. H No. 120, Viceroy Park Bhopal
175396	Hema Mandloi Shiv Singh Mandloi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51215 27/11/09	2148, D Sector Sudama Nagar Distt. Indore
175397	Hemant Singh Rai Virendra Kumar Rai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50954 11/11/09	Thana Kolgaon Police Colony Distt. Satna
175398	Hiral Sudhar Munnalal Sudhar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	50873 26/10/09	Shri Dipak Joshi, 40 Rajasav Colony Sallana Distt. Ratlam
175399	Hitesh Nirale Bhikaji Nirale	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51339 04/03/10	VIII. Saikheda PO Lonara, Teh & Distt. Khargon

175400	Hridesh Vishwakarma Sanad Kumar Vishwakarma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51094 20/11/09	VPO Vinpara Tehsil Niwadi Distt. Tikamgarh
175401	Irfan Khan Ayyub Khan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51245 30/11/09	50/1, New Harl Fatak Mahakal Marg, Opp. New Delhi Darbar Ujjain
175402	Ishwar Chandra Puri Harak Chandra Puri	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50902 04/11/09	VIII. Roshani, Teh. Chhanera Naya Harsood Distt. Khandwa
175403	Islam Mohammad Khan Hamod Khan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51170 25/11/09	VPO Nandanwara Teh. Jataara, Via Mohangarh Distt. Tikamgarh
175404	Jagdish Prasad Puran Lal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2010	51345 12/03/10	Ganesh Ganj Marg Luhangipura Distt. Vidisha
175405	Jagdish Sahal Baljnath Sahal	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1984	50739 11/06/09	MIGC 141 Indira Colony Distt. Burhanpur
175406	Jai Babu Ahilwar Ramcharan Ahilwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50734 11/06/09	Khari Phatak Bahar, H No. 236 Vidisha
175407	Jai Bhavna Verma SK Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51219 27/11/09	Shri Komal Chandra Jain Bazar Chowk, Lakhnadon Distt. Siwani
175408	Jay Shree Varaskar SR Varaskar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51082 20/11/09	S 137, Nehru Nagar Bhopal
175409	Jayantil Lal Patidar Shobha Ram Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51036 17/11/09	VPO Pipalrava Tehsil Kukshi Distt. Dhar
175410	Jitendra Kumar Pathak Mannu Lal Pathak	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51003 13/11/09	Shri Vihar Colony, Gali No. 3, Behind Kachahari Datla
175411	Jitendra Mohan Verma Lal Das Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51070 19/11/09	Maharana Pratap Nagar, Gali No. 5, Satal Rd Distt. Chhatarpur
175412	Jitendra Sonwane Sitaram Sonwane	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51197 27/11/09	Sanmati Hospital Shani Mandir Rd Fuwara Chowk Burhanpur

175413	Jyoti Dhakad Laxmi Kant Dhakad	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51153 24/11/09	Nyas Colony, EWS 338-339 Itarsi Distt. Hoshangabad
175414	Jyoti Dhakad BM Payasi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51196 27/11/09	Maya Sadan, Behind Virat Nagar, Paschim Satna
175415	Jyoti Dubey Gulab Prasad Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51289 15/01/10	Behind Saket School Durga Nagar Distt. Vidisha
175416	Jyoti Jain Jainpal Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51290 15/01/10	Kannod Road Ashita Distt. Sihor
175417	Kalpana Maheshwari Rajesh Maheshwari	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 1985	51348 25/03/10	156-157, Scheme No 114 Part 1, AB Road Indore
175418	Kamal Singh Parihar Prem Singh Parihar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51033 16/11/09	VPO Nagihiri Tehsil & Distt. Khargon
5419	Kamlesh Chandsure Devraj Chandsure	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50888 29/10/09	Ambedkar Vard 13, Basodi Mohalla Tikari Distt. Betul
5420	Kamlesh Kumar Raghuvanshi Hari Singh Raghuvanshi	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50834 08/09/09	353, Swarankar Colony Medhay Talkies Distt. Vidisha
5421	Kamlesh Mujhalda Rukhdu Singh Mujhalda	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51298 28/01/10	VIII Bhainsalaya Nayapura PO Talwada, Teh. Kukshi Distt. Dhar
5422	Kanti Kushwaha Ashok Kushwaha	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2005	51341 09/03/10	Q.No.B/159, Jamuna Miners PO Jamuna Kalri Anuppur
5423	Karan Dave Kiran Dave	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50947 10/11/09	138, Fadnis Colony AB Road Distt. Indore
5424	Kavita Aggarwal Munnalal Aggarwal	BAMS Univ. of Poona, Pune 1999	50742 25/06/09	Aggarwal Clinic, Masjid Rd H No 125, Teh Khirkia Distt. Harda
5425	Kavita Choudhry Ramcharan Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50735 11/06/09	Khari Phatak Bahar, Ravidas Dharamshala, H No. 236 Vidisha

175426	Kavita Raikwar Alakh Prakash Raikwar	BAMS HNB Garhwal Univ., Srinagar 2006	50856 05/10/09	Near Maharshi Vidhya Mandir Dwarika Nagar Distt. Rewa
175427	Kesthav Golla Mehtab Singh Golla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50799 17/08/09	Premkunj MIG 98 Shri Rameshwaram Exten. Bagmugalla Bhopal
175428	Keshav Singh Rajput Nathuram	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50905 04/11/09	Udal Singh Vohre, Kirar City Kampu Rd, Lashkar Distt. Gwalior
175429	Khum Singh Mori Surla Mori	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51096 20/11/09	Mohalla Vaidattor, Vill. Phiphwada PC Gaigota, Teh Kukshi Distt. Dhar
175430	Khushbu Ratnere Mahesh Ratnere	BAMS CSM Univ., Kanpur 2005	51324 08/02/10	49 Sector A, Slice No.4, Scheme No.78 Aranya Nagar Indore
175431	Kiran Patil Prabhakar Patil	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51065 19/11/09	Bade Balaji Sharma Ganesh Mandir ki Gali Mahajana Path
175432	Kirti Patel SL Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50835 14/09/09	Ward No.4, Near Futera Muktidham Hata Naka Damoh
175433	Kokila Rani Sarwan Gyan Chandra Sarwan	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	51116 23/11/09	Opp. Railway Station Jethari Distt. Anuppur
175434	Koslendra Prasad Mishra Rajendra Prasad Mishra	BAMS MUHS, Nashik 2007	51267 14/12/09	A 16, Anshul Vihar, Chimini Plot, Nagpur Road Behind Hotel Gulzar, Jabalpur
175435	Kuldip Sawarkar Hemraj Sawarkar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51228 27/11/09	VPO Tehsil Samia Distt. Chhindwara
175436	Kuldip Singh Nagawe Moti Lal Nagawe	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51185 26/11/09	Sudha Sadan, Bhojpuria Pachor Raigarh
175437	Kushal Yadav Laxman Singh Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50759 14/07/09	Behind Baggi Khana Chhota Bazar Distt. Datia
175438	Lalita Jamre Gildar Jamre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50804 19/08/09	Vill. Limbi, PO Pati Teh. & Distt. Badwani

175439	Laxmi Kant Pandey Tulsidas Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50852 05/10/09	VPO Govari Tehsil Mehar Distt. Satna
175440	Laxmi Narayan Mandvi Siyaram Mandvi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51263 10/12/09	C/o Shri HR Gajender, 123 2 C Saket Nagar, Habibganj Bhopal
175441	Leeladhar Nahar Yashwant Nahar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50976 12/11/09	Patel Seri VPO Pipal Rawa Tehsil Sonkachh Distt. Dewas
175442	Leena Satija Shyam Sunder Satija	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50764 20/07/09	Shanti Niketan Gurunanak Ward Pandhurana Distt. Chhindwara
175443	Lisham Raj Rajput SS Rajput	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50909 04/11/09	H No. 1520/3, Navnivesh Ciy Ganganagar Gadha Jabalpur
175444	Lokendra Nahar Subhash Chandra Nahar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50978 12/11/09	VPO Pipalrava Tehsil Sonkachh Distt. Dewas
175445	Lokendra Solanki Prem Narayan Solanki	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51146 24/11/09	MIG 86, Indra Nagar Distt. Ujjain
175446	Madan Waskale Kurchia G Waskale	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51114 23/11/09	Vill. Karanpur, PO Bhatki Tehsil Pansamal Distt. Badwani
175447	Madhulika Rawal Rattan Lal Rawal	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	51024 16/11/09	94, MB Nagar Distt. Ratlam
175448	Madhusudan Shama Mahesh Chandra Shama	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50802 18/08/09	Opp. Naye Thane Basant Nagar, Zeera Distt. Murena
175449	Madhvi Sharma Ramesh Kumar Shama	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51193 27/11/09	Shivaji Ward, H No. 282 Ritha Fatak Road, Bajaria Distt. Vidisha
175450	Mahendra Kumar Bagri Ram Bihari Bagri	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50827 04/09/09	H No. 7, Rashtriya Rajmarg No. 75 Palla Road, Nagod Distt. Satna
175451	Mahendra Kumar Dhanak Rattan Lal Dhanak	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51192 27/11/09	23, Ambika Nagar Bangali Choraha Distt. Indore

175452	Mahendra Singh Kirar Jagdish Singh Kirar	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50812 26/08/09	Mohalla, Ward No. 10, H No. 238, Gali 3, Ambah Distt. Murena
175453	Mahendra Tiwari Ram Asre Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50967 11/11/09	Virender Colony Naugon Distt. Chhatarpur
175454	Mahesh Boradia Mangilal Boradia	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50893 03/11/09	26 Bhagat Singh Nagar Sanver Road Distt. Indore
175455	Mahesh Dhangar Vakshi Ram Dhangar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50951 10/11/09	VIII. Sapura Tehsil Bagli Distt. Dewas
175456	Mahesh Kumar Mahour Ram Sahai Mahour	BAMS Pt. R. S. Shukla Univ., Raipur 2002	51328 15/02/10	H No. 1203, Shahnaka Gadha Distt. Jabalpur
175457	Manita Sahu Ramdayal Sahu	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50726 13/05/09	2119, Babbar ki Gali Mastana Chowk Ranjhi Distt. Jabalpur
175458	Manita Verma Ram Sahai Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50752 07/07/09	Rly Q. RB II 87, B Rajdhani City Khandwa
175459	Manish Hindolia OP Hindolia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51352 25/03/10	38, Ganj Mohalla Distt. Bhind
175460	Manish Kumar Gupta Lalaram Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51051 18/11/09	Harihar Road Harpalpur Distt. Chhatarpur
175461	Manish Kumar Jain Rishab Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51071 19/11/09	142, Nagar Palika Quarters Usha City, Dabra Gwalior
175462	Manish Kumar Mandurane Gokul Prasad Mandurane	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51122 23/11/09	Behind Ayurvedic Hospital Mahavir Ward 19, Tikari Betul
175463	Manish Kumar Savner Shiv Kumar Savner	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50761 14/07/09	VIII. Amalpara PO Bhamgarh Teh. Khandwa Distt. Purni Nimad
175464	Manish Kurmi Gaya Prasad Kurmi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50933 07/11/09	VIII. Khakaria PO Maharajpur Tehsil Devri Distt. Sagar

175465	Manish Rai Kalu Ram Rai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50993 12/11/09	Shri Mahender Rai, Choraha Subhash Ward Hala Distt. Damoh
175466	Manisha Verma Mangilal Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51242 30/11/09	Type III/1, Telephone Colony Lalghati Distt. Shajapur
175467	Manju Lata Panika Sant Ram Panika	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51090 20/11/09	BM 157, Nehru Nagar Near Police Line Bhopal
175468	Manohar Lal Mainaria Kanhaiya Lal Mainaria	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51100 20/11/09	VIII. Babrecha PO Lahusa, Teh. & Distt. Mandor
175469	Manoj Ahirwar PR Ahirwar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	51129 23/11/09	C 8, Police Wireless Colony Kampu S.A.F. Gwalior
175470	Manoj Kumar Chorasla Ram Nath Chorasla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50971 11/11/09	Kunj Bihari Ji Mandir Mohalla Khargapur Distt. Tikamgarh
175471	Manoj Singh Raghuvanshi Chhattarsal Singh Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50863 13/10/09	VPO Vankanagan Pur, Tehsil Chorai Distt. Chhindwara
175472	Manoj Vankhede Kanhaiya Lal Vankhede	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50885 27/10/09	Kukshi Road Singhava, Tehsil Manavar Distt. Dhari
175473	Mayank Parsai Rajendra Parsai	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51041 17/11/09	1/4, Patel Marg Jambugali Tehsil Kukshi Distt. Dhari
175474	Medha Choudhry SK Choudhary	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50811 24/08/09	MIG 1/1/15, Indira Ngr Bara Saman City Rewa
175475	Meena Singh Ravi Prakash Singh	BAMS Lucknow Univ., Lucknow 2008	50787 30/07/09	C 124, New Milan Residency JK Road Bhopal
175476	Meenakshi Kumbhare SS Kumbhare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51115 23/11/09	216, Kaushal Nagar Bheropur Distt. Bhopal
175477	Meghna Masih Arvind Masih	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50890 31/10/09	H No 3114, Vijay Ngr Chhapar Rampur Distt. Jabalpur

175478	Mithlesh Kumar Mandal Yogendra Kumar Mandal	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2008	50821 31/08/09	H No. 20, Vijay Nagar, Amkha, Lashkar Gwalior
175479	Mohammad Imran Mubarak Ali	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50753 13/07/09	Ravi Sadan, Gali No. 5 Umri Distt. Satna
175480	Mohammad Muddassir Mohammad Farooq	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50901 04/11/09	225, South Miloniganj Masoorabad Distt. Jabalpur
175481	Monica Umre KK Umre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51151 24/11/09	SD 563, Near SBI, Madhya Vikas Mandal, Sami Betul
175482	Mukesh Singh Banimali Lal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50945 10/11/09	32, Chhipeti Mohalla, Hanuman Mandir, Bhandel Distt. Datia
175483	Mukul Kumar Nema Madan Gopal Nema	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50919 05/11/09	Nema Medical Stores, Market Rahli Tehsil Rahli Sagar
175484	Munna Lal Bhukel Babulal Bhukel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50999 12/11/09	VIII. Karodia Khurd PO Nagur Tehsil Manavar Distt. Dhar
175485	Muridhar Maheshwari Kailash Chandra Maheshwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50857 07/10/09	Head PO Chakalvi Teh Naskhalla Ganj Distt. Sihor
175486	Nalin Rathor Madhusudan Rathor	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51008 13/11/09	Basant Cloth Store 15 Mahatma Gandhi Marg, Badwah Distt. Khargon
175487	Namrata Shah Jagdish Shah	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50783 30/07/09	Saraswati Bhavan, Shanwara Road Jal Stambh Burhanpur
175488	Nandini Ahirwar Kamlesh Ahirwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51217 27/11/09	H 12, Sneh Nagar Hoshangabad Road Distt. Bhopal
175489	Narendra Sisodia Ram Singh Sisodia	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50910 05/11/09	VIII. Titrania Teh. Jhirnia Distt. Khargon
175490	Narendra Suryavanshi Nandlal Suryavanshi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51040 17/11/09	46, Rajender Marg Tal Distt. Ratlam

175491	Naresh Singh Baghel Dwarika Prasad Baghel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51067 19/11/09	Ram Nagar Mudia, Pahar Lashkar Gwalior
175492	Naseeb Khan Nasiruddin Khan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51092 20/11/09	7/403, Alabaks Colony Bodabagh Distt. Rewa
175493	Navodit Rathor SN Rathor	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	51239 30/11/09	Chandra Shekhar Ward Tikari Link Rd Distt. Betul
175494	Nazia Khan Abdul Naim Khan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51060 18/11/09	5/1, Kot Mohalla Ahilya Bai Marg Distt. Ujjain
175495	Neelam Shrivastava Kaushal Kishore Shrivastava	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50738 11/06/09	208, Vasundhara Sunder Palace Distt. Bhopal
175496	Neeraj Kumar Pali NIK Pali	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51150 24/11/09	C 10, Abhilasha Minal Residency Phase 1, Govindpura Bhopal
175497	Neeraj Sharma Shiv Kumar Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50959 11/11/09	3/19, Bhadoria ki Khirki Dome Baba ki Gali Distt. Datia
175498	Neeraj Vishwakarma Nand Kishore Vishwakarma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51231 30/11/09	Triloki Nagar, Behind Railway Station Distt. Chhindwara
175499	Neetu Choudhry ML Choudhry	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51287 08/01/10	Rajpal Chowk, Mishra Colony Distt. Chhindwara
175500	Neetu Gupta Kapildev Gupta	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51256 07/12/09	M/S. Barden Minerals Maharana Pratap Ward Collectorate Katni
175501	Neetu Mongia Hemraj Singh Mongia	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50883 27/10/09	VIII. Bilkhira PO Koluva, Raisen Rd Bhopal
175502	Neetu Verma Santlal Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51148 24/11/09	Jwan Jyoti Colony, Gopal Gali No.1 Distt. Satna
175503	Neha Garg Sharad Garg	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51221 27/11/09	Kanya Dhawari School Ghawari Mohalla Distt. Satna

175504	Neha Jain Vimal Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51225 27/11/09	Nathuram Vimal Kumar Jain Silhora Distt. Sagar
175505	Nidhi Aggarwal Narayan Das Aggarwal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50797 17/08/09	New Housing Board MIG, 25, Rewa Hotel Shahdol
175506	Nidhi Dubey RP Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51084 20/11/09	A 60, Chhatrasal Nagar Phase I, Inderpuri Bhopal
175507	Nidhi Gupta Keshav Prasad Gupta	BAMS SS Univ., Varanasi 2007	51238 30/11/09	A 11, Prem Colony Station Road Distt. Mandsoor
175508	Nidhi Sanghal Rajkumar Singhal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51262 09/12/09	Rajkumar Singhal, Karal Wale, Luxmipura, Itwara Bazar Distt. Sagar
175509	Nikita Jayaswal ML Jayaswal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51316 05/02/10	G3/328, Flat No.205 Silver Tulip Gulmohar Bhopal
175510	Nilesh Soni Omkar Prasad Soni	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50921 06/11/09	Soni Metal Mart, Main Road Behind Bus Stand, Distt. Jabalpur
175511	Nirmala Chouhan Shiv Ram Chouhan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50822 31/08/09	Chandni Chowk, Segaon Teh. Segaon Distt. Khargon
175512	Nisha Bhadoria KPS Bhadoria	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50963 11/11/09	B 97, Pushkar Colony Gole ka Mandir Distt. Gwalior
175513	Nisha Gautam NL Ahirwar	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51247 01/12/09	G 171, Regal Home Exten. Awadhpuri Khajoorikalan Road Bhopal
175514	Nishant Jain Subhash Chandra Jain	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51253 04/12/09	Hanuman Lal 519 Hanuman Mandir Jabalpur
175515	Nitesh Kumar Vyas Vinay Vyas	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	51174 25/11/09	H No. 11, Gali No. 2, Ibrahimganj Bhopal
175516	Nitika Aggarwal Suresh Aggarwal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50836 14/09/09	18, Mahavir Nagar, 304, V. Sagar Apartment, Kanadia Road Indore

175517	Nitin Awasthi Arun Awasthi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50932 07/09/09	Vill. Jodakya, PO Bagholi Teh. & Distt. Betul
175518	Nitin Kumar Raghuvarshi Ram Singh Raghuvarshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51269 17/12/09	Samudayik Swasthya Kendra Near Mela Ground, Distt. Ashok Nagar
175519	Nitin More Har Prasad Sen	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50784 30/07/09	Mahavir Colony Near Purana Panna Naka Distt. Chhatarpuri
175520	Nitin Pandey CL Pandey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50837 14/09/09	Ward No. 11, Range Off. Vanda Belai Distt. Sagar
175521	Nitin Tekre Ram Kumar Tekre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51077 20/11/09	Vill. Chorbada, Lehghua PO Sarma Narsingpur Road Chhindwara
175522	Nitin Tiwari Chandra Shekhar Tiwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51273 23/12/09	H 378, HIG Phase II Ayodhya Nagar Bhopal
175523	Om Mishra Gyanendra Prasad Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51288 11/01/10	Vill. Agdal, PO Chormata Distt. Rewa
175524	Oved Ahmed Ansari Muntaj Ahmad Ansari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51126 23/11/09	51, Sardar Agency Gohalpur Distt. Jabalpur
175525	Pankaj Masodkar Guleb Rav Masodkar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50949 10/11/09	Pankaj Auto Parts Badora Chowk Distt. Betul
175526	Pankaj Rajoria Thakur Das Rajoria	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50950 10/11/09	New Colony 1/215 Birla Nagar Distt. Gwalior
175527	Pankaj Shivhare Mahesh Kumar Shivhare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50810 24/08/09	267, Shivpuri Poly Clinic & Pathology Jhansi Tiraha Shivpuri
175528	Parnal Singh Sisodia Raghuvir Singh Sisodia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51080 20/11/09	DK 1/2, Danishkunj Kolar Road Bhopal
175529	Parnendra Ahiwar NP Ahiwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50781 29/07/09	E2, CSD & Workshop Bhadbhada Road Bhopal

175530	Parul Goswami Chandra Shekhar Goswami	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51296 21/01/10	F 49/22, South TT Nagar Bhopal
175531	Parul Khare RP Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51306 29/01/10	Branch Manager of Co- operative Bank Head Branch Distt. Panna
175532	Piyush Gupta Madhur Prasad Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51333 24/02/10	Batasha Merchant Jhanda Bazar Distt. Katni
175533	Pooja Agnihotri Vidhyut Bhushan Agnihotri	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2007	51331 15/02/10	KP Tiwari, 23/85, Behind Badi Dargah, Amahia Rewa
175534	Poonam Akhand PL Akhand	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51351 25/03/10	LIG 19, Bharti Niketan Govindpura Bhopal
175535	Poonam Choudhry Shobharam Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51088 20/11/09	HIG 80, Fine Avenue Phase 1 Nayapura Kolar Road Bhopal
175536	Poonam Tiwari Madan Mohan Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50794 11/08/09	C 548, Pushpa Nagar Cty Near Mahamal ka Bagh Bhopal
175537	Prachi Agnihotri Subhash Agnihotri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51130 23/11/09	5, Civil Lines Indira Colony Near Pirambara Mandir Sagar
175538	Prachi Jain Suresh Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51168 25/11/09	LIG 123/124, Mission Compound Ward No. 5, Lahar Distt. Damoh
175539	Pradip Gupta Ram Bhagat Gupta	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51009 13/11/09	Main Market, Near Post Office Distt. Umaria
175540	Pradip Kumar Gautam Krishan Kumar Gautam	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51057 18/11/09	Near Civil Line Court Nagod Distt. Satna
175541	Pradip Kumar Mahovia Nathu Lal Mahovia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50815 28/08/09	VPO Khalesar Rd Melroi Distt. Umaria
175542	Pradip Singh Solanki Mahipal Singh Solanki	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50830 07/09/09	VPO Garoli, Tehsil Naugon Distt. Chhatarpur

175543	Pradyumn Joshi Shrikrishan Joshi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50361 12/10/09	Vrindavan Colony, AB Rd Khalghat, Teh Dharampuri Distt. Dhar
175544	Pragyan Keshav Prasad Tripathi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51250 01/12/09	B 11/11, Mahananda Nagar Distt. Ujjain
175545	Prasann Jain Komal Chandra Jain	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50918 05/11/09	H No. 205, Dhanlaxmi Appt Pardeshipura Choraha Indore
175546	Prashant Patel Purushottam Lal Kumri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51292 15/01/10	E 63 Nehrui Nagar Bhopal
175547	Prashant Tiwari Sukhdev Prasad Tiwari	BAMS Bharti Vidyapeeth Pune 2007	51282 06/01/10	F 1, Shakti Apartment Right Town Gate No. 4 Jabalpur
175548	Pratibha Gajbhiyen Raghunath Gajbhiyen	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51172 25/11/09	Indira Gandhi Ward No. 15 Sarkari Hos. Sonsar, Distt. Chhindwara
175549	Pratiksha Bhangre Mahendra Bhangre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51200 27/11/09	Near Saiyana Shankar Pandhama Distt. Chhindwara
175550	Pratima Dabhor Joseph Dabhor	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51119 23/11/09	A 2, Mangal Vihar Colony Rajiv Nagar Distt. Ratlam
175551	Praveen Kumar Dange Ajabray Dange	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50796 12/08/09	Super E 714 Mathardev Cty Saml Distt. Betul
175552	Pravesh Bhardwaj Dinesh Kumar Bhardwaj	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50843 16/09/09	Officers Colony, Thandla Tehsil Thandla Distt. Jhabua
175553	Pravesh Shrivastava OP Shrivastava	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51144 24/11/09	Nanaji Wali Gali, Ward No. 2 Freeganj Ganjbasoda Distt. Vidisha
175554	Prem Lata Parmar Rokar Singh Parmar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50960 11/11/09	EWS 383, Indira Nagar Mandip Distt. Raisen
175555	Prem Narayan Ahirwar Raghuvar Prasad	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2007	50917 05/11/09	Vill. Chachawali PO Patharam, Distt. Tikamgarh

175556	Prem Narayan Singh Thakur Khilan Singh Thakur	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50892 03/11/09	Shivaji School, Indira City Civil Ward No.2 Damoh
175557	Prem Shankar Ghormare Gokul Prasad Ghormare	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51280 06/01/10	VPO Badora Distt. Betul
175558	Pritesh Kharte Sumer Singh Kharte	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51034 16/11/09	B 14 Goridham Colony Distt. Khargone
175559	Priti Chandraia Santosh Kumar Chandraia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51128 23/11/09	EE 413, Deen Dayal Nagar Distt. Gwalior
175560	Priti Shilpi Rewaram Shilpi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51208 27/11/09	HIG, 3, 543, Arvind Vihar Bagmugalla Distt. Bhopal
175561	Pritu Tiwari Ganesh Kumar Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50746 02/07/09	VIII. Sorahia PO Gondri Distt. Rewa
175562	Priya Shrivastava RK Shrivastava	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51236 30/11/09	1573, Napier Town, Home Science, Coll. Rd Distt. Jabalpur
175563	Priyanka Dhurve Gopal Singh Dhurve	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51020 16/11/09	Pratik Sadan Rajender Ward Betul Ganj Distt. Betul
175564	Priyanka Gupta Ramesh Chandra Gupta	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51249 01/12/09	2 A, Tilak Nagar, NK Hospital, Zavra Chaupati Rd Distt. Ratlam
175565	Priyanka Jharwade BR Jharwade	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50982 12/11/09	Near Chitra Type Chandra Shekhar Ward Distt. Betul
175566	Priyanka Khare Ramratan Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51309 03/02/10	220, Chitranshu Colony Mau Road Distt. Tikamgarh
175567	Priyanka Sharma Harlom Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50755 14/07/09	Priyanka Medical Stores Shujalpur Mandi Distt. Shajapur
175568	Priyanka Tiwari Santosh Kumar Tiwari	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51251 04/12/09	Shivraj Singh Colony Tilli Distt. Sagar

175569	Priyanka Zakra Mohan Lal Zakra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51064 19/11/00	124, Pushp Kunj Aradhana Kotra Sultanabad Bhopal
175570	Pushpendra Kumar Soni Dharam Das Soni	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50942 10/11/00	Hanuman Ganj Soni Mohalla Mianpur Distt. Umaria
175571	Raghendra Kumar Dubey Vinod Kumar Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50773 28/07/09	Opp. 17th Battalion 3rd Gate Itawa Rd Bhind
175572	Ragini Sharma Ram Prakash Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50855 05/10/00	AGH 2, Krishi Vibhag Parisar Dehat Thana Rd Distt. Vidisha
175573	Rahul Bansod P.S. Bansod	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50776 28/07/09	Military Dairy Farm Mandla Rd Distt. Jabalpur
175574	Rahul Gupta Ramesh Chandra Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51187 27/11/00	Shri Babu Lal Gandhi Road Tigelia Deroga Wali Gali Datia
175575	Rahul Zadia Jagdish Prasad Zadia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50730 19/05/09	C-294, Shahpura C Sec. Opp. Ayushman Bhopal
175576	Raj Kumar Patel Gajodhar Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	51136 24/11/00	Near Nai Krishi Upaj Mandi Sagar Naka Distt. Damoh
175577	Raj Kumar Patidar Badrilal Patidar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	51209 27/11/00	Patidar Restaurant B. Stand Singhania Teh. Manavar Distt. Dhar
175578	Rajendra Bhai Thakur Param Lal Thakur	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50894 03/11/09	Kanji House Wali Gali VPO Vara, Teh. Vanda Belal, Distt. Sagar
175579	Rajenrar Kumar Anya Lallu Prasad	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50972 12/11/09	VPO Sohanwal Uprahri Tola Distt. Satna
175580	Rajesh Ankre CS Ankre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal, Jabalpur 2008	50931 06/11/09	63, Gomati Colony Nehru Nagar Bhopal
175581	Rajesh Jogi Jiwan Ram Jogi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51038 17/11/09	16/2, Tejpur Gachvadi Rajender Nagar Distt. Indore

175582	Rajesh Singh Keshav Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51035 16/11/09	PO Hardua Thana Badi Seimaila, Tehsil Simor Distt. Rewa
175583	Rajesh Singh Bhadoria Dhirendra Pratap Singh Bhadoria	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50860 12/10/09	Surya Roshani Limited Malanpur Distt. Bhind
175584	Rajesh Singh Yadav Rani Prasad Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50878 26/10/09	Ward No. 12, Gohadi Gate Gohadi Distt. Bhind
175585	Rajkumar Patel Rajendra Singh Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51275 23/12/09	VPO Kheirua Teh. Gadaiwara Distt. Narsinghpur
175586	Rajkumar Raghuvanshi Prayag Singh Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51145 24/11/09	Harion Kirana Stores, Belot, Bypass Road Ganj Basoda Vidisha
175587	Rajkumari Parthar AR Parthar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51246 01/12/09	47, Siddharth Nagar, Itawa Ujjain Rd Distt. Dewas
175588	Rajrani Aggarwal Sunil Aggarwal	BAMS Nagpur Univ., Nagpur 1990	50763 23/07/09	Jindal Diagnostic Nehru Rd Budhwari Bazar Distt. Siwani
175589	Rakesh Kumar Mounya Sunder Lal Mounya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51154 24/11/09	H 34, Barkatullah Vish. BU Campus Distt. Bhopal
175590	Rakesh Patidar Babulal Patidar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	51210 27/11/09	Vill. Lohari, Teh. Kasrabad Distt. Khargon
175591	Rakhi Choudhry Gokul Prasad Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51202 27/11/09	Ahmad Nagar, Gopalgunj Distt. Segar
175592	Ram Kumar Patel Narmada Prasad Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51135 24/11/09	Near Nai Gali Mandi Sagar Naka Distt. Damoh
175593	Ramesh Prasad Gupta Sipahi Sahu	BAMS Pt. R. S. Shukla Univ., Raipur 2003	51079 20/11/09	Q. No. C/19, Kapiwadhara PO Bijuri Distt. Anuppur
175594	Ranjana Rai Vishnu Prasad Rai	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51102 20/11/09	H 77, Shahanshah Garden Govindpura Bhopal

175595	Ranu Jain Prakash Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51111 23/11/09	Dwara Mahavir General Stores Khari Phatak ke Bahar Vidisha
175596	Ratan Priya Shrivastava Subodh Shrivastava	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51161 25/11/09	50, Behind Kamla Bhavan Natthu Khedi Distt. Guna
175597	Ratan Singh Dhurve Gariba Singh Dhurve	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50866 13/10/09	VIII. Bhapsa, PO Dhan wantari Teh. & Distt. Dindori
175598	Ratnakar Pandey Lal Bihari Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50741 25/06/09	VIII. Bhabharaha PO Devraha Tah. Raminagar Distt. Satna
175599	Ratnesh Tiwari Raghunandan Tiwari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51229 27/11/09	LIG 40, Rajiv Nagar Colony, Shivaji Ward, Distt. Sagar
175600	Ravendra Singh Shivadhar Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50847 30/09/09	VPO Aver Distt. Satna
175601	Ravi Prakash Singh Om Prakash Singh	BAMS Kanpur Univ., Kanpur 1992	50785 30/07/09	C 124, New Milan Residency JK Road Bhopal
175602	Ravindra Kumar Babele Dashrath Prasad Babele	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51297 21/01/10	Vishweshwaria Samiti Campus Saman, NH 7, Distt. Rewa
175603	Raviraj Singh Parihar Nagendra Singh Parihar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51103 20/11/09	VPO Amkul Thana Jaso Tehsil Nagod Distt. Satna
175604	Reena Gupta Shyam Lal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51166 25/11/09	Shyam Trading Company Gandhi Chowk Distt. Shivpuri
175605	Reena Jain Mahendra Kumar Jain (Thaggan)	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51056 18/11/09	Thaggan Krishi Sewa Kendra Pradhanpura Distt. Tikamgarh
175606	Rekha Gupta Bhanu Pratap Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50737 11/06/09	VIII. Gujnaya Bada Malhara Distt. Chhatarpur
175607	Rekha Raut Shankar Rav Raut	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50870 14/10/09	Raut Genda Chowk, Itarsi Road Sadar Distt. Betul

175608	Rekha Swadu Avadh Ram Swadu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50991 12/11/09	H No. 154, C Sangam Garden Phase 2 Khajurikalan, Piplani Bhail Bhopal
175609	Renuka Devi Ahirwar Dayaram Ahirwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51241 30/11/09	HIG 19, Shiv Kalp Colony Ayodhya Bypass Rd Bhopal
175610	Renuka Korwate Jagdev Korwate	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51235 30/11/09	46 APR Colony Vilhari Rd Mandla Road Distt. Jabalpur
175611	Richa Dhurve RP Dhurve	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51032 16/11/09	Om Nivas, Behind Kanchhedi Colony Vichhla Katra Road Mandla
175612	Richa Dwivedi Madan Mohan Dwivedi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51260 08/12/09	ACF Research & Extension Forest Vibhag Distt. Rewa
175613	Richa Patidar Badrilal Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51326 09/02/10	14, Ved Vyas Colony Distt. Ratlam
175614	Rimjhim Patel Mangal Singh Patel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51299 28/01/10	H No. 636/1 A, Sudama Ngr, Amanpur Distt. Jabalpur
175615	Rishi Kumar Yadav Shiv Charan Yadav	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50927 06/11/09	Ward No. 3, Yadav City Tendukheda Distt. Damoh
175616	Rishi Mishra Narendra Kumar Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51045 18/11/09	346, Rohit Nagar, Phase 1 E Distt. Bhopal
175617	Rita Malviya Shankar Lal Malviya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50772 28/07/09	Vijay Luxmi Niwas Medhnath Chowk, Tikari Betul
175618	Ritesh Bauskar Nemraj Bauskar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50765 20/07/09	S Shivam Sundaram Ngr P.G. Coll. Rd Distt. Chhindwara
175619	Ritesh Kumar Patidar BR Patidar	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	51349 25/03/10	Sanjivni Hospital Siria Distt. Dhar
175620	Ritu Thakur Raghuvir Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51159 25/11/09	3/23, Daktar Colony Bhadbhada Road Bhopal

175621	Rituraj Verma Shirad Chandra Verma	BAMS RGUHS Sciences, Bangalore 2007	50848 30/09/09	31, Rama Colony, Distt. Khandwa
175622	Ruhi Mishra Shiv Narayan Mishra	BAMS RGUHS Sciences, Bangalore 2007	51127 23/11/09	903, Scheme No.51, Near Sangam Nagar Distt. Indore
175623	Rupendra Singh Kaushal Vijay Singh Kaushal	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51268 14/12/09	172, Kishi Vihar, Hawa Bangla Rd Distt. Indore
175624	Sachin Chouhan Babulal Chouhan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50952 10/11/09	3059, E Sector, Sudaina Nagar Distt. Indore
175625	Sachin Kumar Jain Gyan Chandra Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51058 18/11/09	VPO Sehrai Tehsil Mungawalli Distt. Ashok Nagar
175626	Sachin Kumar Savner Shiv Kumar Savner	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50760 14/07/09	VIII, Annapura, PO Bhamgarh Teh. Khandwa Distt. Purvi Nimad
175627	Sachindra Singh Ghureiya BS Ghureiya	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50770 28/07/09	58, Aditya Nagar Church, Mall Rd, Murai Distt. Gwalior
175628	Sadhna Pawar Gangaram Pawar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51300 28/01/10	VIII, Badikhurd, PO Bhagyapur Teh Bhagwanpura Distt. Khargon
175629	Sajit Soman KN Soman	BAMS RGUHS Sciences, Bangalore 2007	50840 14/09/09	Sukhchain Ward Devri Kalan Distt. Sagor
175630	Sania Lodi Nasrullah Khan Lodi	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51134 24/11/09	D 16/220, KV Sub Station Khandwa Road Indore
175631	Samiksha Sarpot Narendra Sarpot	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51201 27/11/09	Sube ki Goth, Kailash Talkies, Lashkar Gwalior
175632	Samim Khan Amin Khan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51276 25/12/09	60/18, Behind Bus Stand, Ward No. 18 Balpurwa Distt. Shehdoi
175633	Samir Suneri Tej Lal Suneri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50877 26/10/09	MP Housing Board Colony EIG 18 Distt. Balaghat

175634	Sandhya Dwivedi Ashwini Kumar Dwivedi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50850 30/09/09	Anand Nagar Neem Choraha Bodabagh Distt. Rewa
175635	Sandhya Sahu Rameshwar Prasad Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51055 18/11/09	100, Chhatrapati Shivaji Cty Chuna Bhatti, Kolar Road Bhopal
175636	Sandhya Verma Jageshwar Dayal Verma	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	50928 06/11/09	C/o Shri Vikas Verma, B 3, Anand Nagar Bhopal
175637	Sandip Kumar Khankre Ram Sahai Khankre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50867 13/10/09	Vill. Khapa, PO Purali, Athner Teh. Bhainsdehi Distt. Betul
175638	Sandip Kumar Sahu Nilaya Gopal Sahu	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50941 10/11/09	Sali Chowka Road Tehsil Gadawara Distt. Narsinghpur
175639	Sandip Rane Balkrishan Rane	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50946 10/11/09	4 Vrij Vihar Colony Distt. Khargon
175640	Sandipini Ulke Ram Ulke	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51218 27/11/09	Barghat Road, Footatal, Kanhiwada Siwani
175641	Sangita Namdev Ram Sushil Namdev	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50767 20/07/09	VPO Chansura Teh. Manpur Distt. Umaria
175642	Sangita Pandey Shivraj Pandey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51223 27/11/09	MIG 752, New Housing Board Colony Distt. Murena
175643	Sangita Parmar Chamrelal Parmar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50925 06/11/09	806, Sudama Nagar Distt. Indore
175644	Sanjay Baghel Panna Lal Baghel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50900 04/11/09	187 A, Prajapat Ngr Neel Kantheshwar Mandir Indore
175645	Sanjay Kumar Kurechia Sardar Kurechia	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51199 27/11/09	H No. 639, Purushottam Ngr Samra Gate Bhopal
175646	Sanjay Patel Kadwaji Patel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50913 05/11/09	Patel Medical Stores, Jawahar Marg, Sanawad Distt. Khargon

175647	Sanjiv Kumar Dwaria Rattilal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51110 23/11/09	270 Lal Bahadur Shastri Nagar 5 Puranpura Distt. Vidisha
175648	Santosh Kumar Koushal Sitaran Koushal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50818 31/08/09	H No. 146, Gali 2, Tractor Offi. Mohangiri Vidisha
175649	Santosh Kumar Singh Bhau Ram Kummvanshi	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51043 18/11/09	Gali No. 1, Umri PO Mehdeva Distt. Satna
175650	Sapan Dubey Anil Dubey	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51279 06/01/10	VII. Kartaj, PO Singhpur (Bada) Teh. Kareli Distt. Narsinghpur
175651	Sapna Ahirwar PN Ahirwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51087 20/11/09	H No. 34, Rajiv Vward Beena Distt. Sagar
175652	Sapna Gupta Shyam Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50756 14/07/09	Ward No. 3, Boras Rd Udalpura Distt. Raisen
175653	Sarika Nag Dharamvir Singh Nag	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51319 05/02/10	Dwarka Nagar Gali No. 1 Distt. Siwani
175654	Sarika Singh Satyendr Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51158 25/11/09	Komal Singh Rajput, Kabir Ward, Khurai Sagar
175655	Satish Dubey Dayavant Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51291 18/01/10	Q. No. 5/50, Vijuri State City Near Hospital Anuppur
175656	Satish Kumar Patel Sadha Gulab Patel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51062 18/11/09	H No. 6/333, Bansghat Bus Stand Distt. Rewa
175657	Satish Patwa Kishori Sharan Patwa	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50758 14/07/09	Behind S. Vidyia Mandir Bharatgarh Distt. Datia
175658	Satya Narayan Patidar Shalagram Patidar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51177 25/11/09	VPO Khokar Kalan Teh. Kalapipal Distt. Shajapur
175659	Satya Prakash Gupta Mishrilal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51278 01/01/10	Keshri Transport Services Chakghat Distt. Rewa

175660	Satyendra Kumar Panika Ram Manohar Panika	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51016 16/11/09	VPO & Tehsil Sarai Distt. Singroli
175661	Savita Ahirwar BS Ahirwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50754 14/07/09	H No. 67, Rohtas Nagar, Khajoori Rd, Piplani Bhopal
175662	Savita Dabar ML Dabar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50948 10/11/09	6/10, Devalaya Marg Jobat Distt. Alirajpur
175663	Sayra Bano Abdul Razzack	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51089 20/11/09	Shop No. 616, Raja Nikhil Binding Mohammad. Distt. Jabalpur
175664	Robin Aggarwal Mahesh Aggarwal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51026 16/11/09	Sadar Bazar Sewda Distt. Datla
175665	Seema Jain Ashok Kumar Jain	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50924 06/11/09	Hitender Kunj, Krishnapuram Colony Distt. Shivpur
175666	Seema Kori TR Kori	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51162 25/11/09	G 10, Tawa Colony Distt. Hoshangabad
175667	Seema Mishra Rajesh Mishra	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51255 07/12/09	Saluja Hospital 2, Putlighat, Shahajahanaba Bhopal
175668	Seema Padliyar Brijesh Kumar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51093 20/11/09	151, Dr. Ambedkar Nagar Distt. Indore
175669	Seema Patidar Madan Lal Patidar	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51004 13/11/09	Puran Bank of India, Nevri, Bagli Marg, Hatpipalya Distt. Dewas
175670	Shahid Hussain Bismillah Ansari	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51132 23/11/09	H No. 661/1, Nai Basil Gohalpur Distt. Jabalpur
175671	Shailesh Singh Chouhan Wansh Rup Chouhan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51216 27/11/09	H No. 742, Cherital, Gujrati Lal Jabalpur
175672	Shalender Singh Thakur Vishal Singh Thakur	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51283 06/01/10	DDA Office, Jaswadi Road Distt. Khandwa

175673	Shalendra Singh Narwaria Ramdhun Singh	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	50842 16/09/09	Blind Road, Melgaon Distt. Blind
175674	Sharad Kumar Verma Maniraj Verma	BAMS Pt.R.S.Shukla Univ., Raipur 2004	51286 06/01/10	Q.No.5/13, Dakshin Van Mandal Forest Colony, Gandhi Chowk Shehdol
175675	Sharad Suhane BK Suhane	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50820 31/08/09	Naya Bazar, Malthon Distt. Sagar
175676	Sheikh Zuber Motuddin	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51039 17/11/09	Dr. Bharat Patel S 478, Katju Nagar Distt. Ratlam
175677	Shelendra Singh Sikanwar Santosh Singh Sikanwar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50800 17/08/09	Shri Jitender Rav Santoshi Matawali Gali Gandhi Ward Beena, Sagar
175678	Shikha Khare Murari Lal Khare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50751 07/07/09	Flat No.201, Plescent Apartment, E 7 Bhopal
175679	Shilpi Gupta Omeshwar Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50874 26/10/09	Bhawani Marketing Society Anupganj Savdha Distt. Datia
175680	Shital Gupta Mohan Lal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50806 20/08/09	Kamal Stores, 9, New Bus Stand, Pachor Distt. Raigarh
175681	Shital Kumar Solanki Laxman Singh Solanki	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	50975 12/11/09	VIII. Chacharia Patti Tehsil Sendhwa Distt. Badwani
175682	Shital Prakash Vyas Mohan Kishor Vyas	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	50904 04/11/09	Sokulesh Photo Studio Sadar Bazar, Kolaras, Shivpuri
175683	Shiv Kumar Bhola Nath	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51212 27/11/09	Near Ambada Mohan Office Teh. Parasia Chhindwara
175684	Shiv Kumar Patel Chhakori Lal Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51104 20/11/09	VIII. Zarha, PO Tamradash Distt. Rewa
175685	Shivendra Pratap Singh Kushwah Surendra Pratap Singh Kushwah	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50778 28/07/09	R 11/A, Sarika Nagar Thathipur Murar Distt. Gwalior

175686	Shivraj Singh Chandel Jai Pal Singh Chandel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51027 16/11/09	02, Sharma Colony, Namade Road Badwah Distt. Khargon
175687	Shobharam Jat Harchand Jat	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	50915 05/11/09	VPO Nevri Tehsil Bagli Distt. Dewas
175688	Shraddha Jain Sanfosh Kumar Jain	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51302 29/01/10	CBS Convent School Vijay Nagar Cty, Makronia Distt. Sagar
175689	Shraddha Tiwari Ramesh Kumar Tiwari	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50985 12/11/09	Sub Centre Punasa Distt. Khandwa
175690	Shrawan Kumar Sharma Brij Kishore Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51063 18/11/09	H No. 267, Ambedkar Colony Sabalgarh Murena
175691	Shreya Manoj Choudhry Manoj Choudhry	BAMS Amravati Univ., Amravati 2008	51308 03/02/10	IDBI Bank Farisar Shanwara Gate Distt. Burhanpur
175692	Shuchi Soni RP Soni	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51189 27/11/09	455, Kalpana Nagar Raisen Road Bhopal
175693	Shweta Baghel Nemi Singh Baghel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51015 16/11/09	198, Patel Ward Sadar Betul Distt. Betul
175694	Shweta Jain Jinesh Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51167 25/11/09	Shri JK Jain 797 Panchsheel Nagar, Near Jain Mandir Bhopal
175695	Shweta Jamra Bharat Singh Jamra	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51000 12/11/09	32, Kailash Nagar Indore Road Distt. Dhar
175696	Shweta Raghuvanshi RS Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51152 24/11/09	C 150, C Sector, Shahpura Distt. Betul
175697	Shyam Sunder Prajapati Ramadhin	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50749 02/07/09	VIII, Hararai (West) PO Baladhan Distt. Singrol
175698	Siddharth Choudhry Keshri Choudhry	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50846 30/09/09	Vidhayak Colony Bhander Distt. Datia

175699	Smita Sharma Chandra Shekhar Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50817 31/08/09	408 B, Railway Colony Habibganj, Shakti Nagar Bhopal
175700	Smriti Gupta Nathu Lal Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2007	50727 13/05/09	Near Gayatri Mandir Hardua Colony, Nagod Satna
175701	Snehal Thakre VR Thakre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50981 12/11/09	Bada Chowk Pipra Narayan Teh. Sonsar Distt. Chhindwara
175702	Sohan Pawar Harji Pawar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51133 24/11/09	Vill. Tonki, Tehsil Manavar Distt. Dhar
175703	Sonia Jain Santosh Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50769 28/07/09	106, Mahabali Ngr Kolar Rd Bhopal
175704	Soumitra Kumar Goswami Rajendra Kumar Goswami	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51252 04/12/09	Behind Shubham Hotel, Jhunku Ward, Devi Distt. Sagar
175705	Soumitra Narayan Budholla Rajendra Budholla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51155 25/11/09	Mudlan ka Kuan Dawoya ka Pathla Distt. Datia
175706	Soumya Yadav Krishan Kant Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50763 20/07/09	123, Vineet Kunj Akbarpur Kolar Rd Bhopal
175707	Sourabh Chourasia SC Chourasia	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50993 12/11/09	2181, Saket Nagar, MR 4 Road Jabalpur
175708	Sourabh Prakash Tripathi Dilip Kumar Tripathi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50762 20/07/09	HIG 597 Housing Board Cty Distt. Murena
175709	Sourabh Sharma Suman Sharma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50750 03/07/09	Subhash Rd Joura Distt. Murena
175710	Sourabh Vikram KL Vikram	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51120 23/11/09	Honey Beauty Parlour Kramank 30 Vidisha
175711	Sourabh Vyas Basant Kumar Vyas	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51205 27/11/09	HI No. 366, Ekta Colony Near Stadium Distt. Sagar

175712	Srishti Shihare Jai Narayan Shivhare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50757 14/07/09	Gautam Ward Marupura Mohalla PO Sohagpur Distt. Hoshangabad
175713	Subodh Jain Raj Kumar Jain	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50995 12/11/09	Near ABS School Maganj Ward No. 4 Distt. Damoh
175714	Sudha Patel Gajraj Singh Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51085 20/11/09	VIII. Luharra, PO Nirtala Distt. Sagar
175715	Sudha Patel Chhidami Lal Patel	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51243 30/11/09	Diwan Colony, D 2 Jamani Rd Purani Itarsi Hoshangabad
175716	Sulabh Khare Subhash Khare	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	50744 29/06/09	Kamla Medi. Hall Katra Bazar Distt. Sagar
175717	Sulochana Bagana Balwant Singh Bagana	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50934 10/11/09	Bhopal Naka Mugli Road Ashta Distt. Sihor
175718	Suman Aggarwal Kapur Chandra Aggarwal	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50889 31/10/09	Ward No. 10, Behind Saraswati School PO Bareilly, Katni
175719	Sumit Kanoongo Sunil Kanoongo	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50766 20/07/09	Anil Traders Sendhwa Distt. Badwani
175720	Sumit Suryavanshi Sehdev Singh Suryavanshi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51010 16/11/09	Untkhana Mohalla Near Pani ki Tanki Distt. Chhindwara
175721	Sunil Kumar Patel Bhagwat Sharan Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51332 15/02/10	VIII. Chhindli, PO Bijori, Teh. Devri Distt. Sagar
175722	Sunil Kumar Punde Jagannath Punde	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51076 20/11/09	Azad Nagar Mines Q. No. 553 Pathakhara, Teh. Ghods Congri Betul
175723	Sunil Tiwari Ramesh Kumar Tiwari	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50886 27/10/09	Ward No. 6, Rest House Katni Main Rd Amanganj Distt. Panna
175724	Sunila J. Deharla Ashish Deharla	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2003	50875 26/10/09	Mukesh Mansata Bhavan Station Ganj Distt. Narsinghpur

175725	Suraj Ahirja Ramesh Ahirja	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51191 27/11/09	40, Virat Nagar Musakhedi Distt. Indore
175726	Surendra Singh Rajput Ramesh Singh Rajput	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50747 02/07/09	Sindhia Nagar Shabd Pratap Ashraim Distt. Gwalior
175727	Surendra Singh Yadav Ram Swarup Yadav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50997 12/11/09	Shri Gulab Singh Patel Jiwaji Ganj Murena
175728	Suresh Chouhan Motilal Chouhan	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	50914 05/11/09	Vill. Dedla, PO Borud, Tehsil Manavar Distt. Dhar
175729	Sushil Kumar Mewalal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50782 30/07/09	F-83/19, Tulsi Ngr TT Nagar Bhopal
175730	Sushil Kumar Tiwari Kailash Prasad Tiwari	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51044 18/11/09	Sagar Road, Purani Tehri Distt. Tikamgaon
175731	Sushma Taiwade Prabhakar Taiwade	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51173 25/11/09	C/o HC Shrivastava E7/577 Areia Colony Bhopal
175732	Swadesh Sharma Choudhry Awdhesh Sharma	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50858 09/10/09	VPO Kapargaon Teli, Gadavara Distt. Narsinghpur
175733	Swatantra Kumar Parteli Laxman Prasad Parteli	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50865 13/10/09	Bazar Chowk, Gangiwara Distt. Chhindwara
175734	Swati Chouhan DK Chouhan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50969 11/11/09	Sector 40, Vikas Tower Ind. Complex, Navlakha Distt. Indore
175735	Swati Gujrathi Dinesh Chandra Gujrathi	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51254 05/12/09	148, Rajpura Daliawada Distt. Burhanpur
175736	Tanin Kumar Dubey Madhav Prasad Dubey	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51213 21/11/09	Naya Plot Semri Harchand Distt. Hoshangabad
175737	Tanin Patidar Mahesh Patidar	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50974 12/11/09	Am II, Pt. Deendayal Nagar Sukthalia Distt. Indore

175738	Tarun Singh Ram Kumar Singh	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51182 25/11/09	Ward Kramank 32, Bypass Road Shehdol
175739	Tej Singh Taram Kabal Singh Taram	BAMS Rani Durgawati Univ., Jabalpur 2008	51311 03/02/10	Vill. Nanda, PO Amarapur Tehsil Dindori Distt. Dindori
175740	Tinu Sahu Ram Kumar Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51047 18/11/09	K 14 Basant Vihar Colony Distt. Bagar
175741	Tripati Bansal Nimal Kumar Bansal	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51083 20/11/09	Indira Nagar Colony, Behind Chintakaran Mandir, Distt. Shivpuri
175742	Trishna Vinkar Dharmendra Kumar Vinkar	BAMS Delhi Univ., Delhi 2001	50729 13/05/09	SH 11, Uddhav Das Mehta Parisar, Nehru Nagar Bhopal
175743	Triveni Shankar Yogi Anemath Yogi	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	50745 29/06/09	Vill. Karodia PO Agurli, Teh. Ragli Distt. Dewas
175744	Triveni Shouri SS Shouri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50790 07/08/09	H No. 13/10, Awadhipuri P. II Khajoori Kalan, Bhopal
175745	Tulsi Ram Tumdam Shankar Tumdam	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50391 31/10/09	Vill. Vasanya Dhana PO Ghoda Dongri Teh. & Distt. Betul
175746	Udal Singh Rathor Haridas Rathor	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2007	50841 14/09/09	Shri RD Rathor, BM 142 Deendayal Nagar Gwalior
175747	Upender Raghuvanshi Viendra Raghuvanshi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51266 10/12/09	Rajkumar Colony Near Zila Panchayat, Guna Rd, Ashok Nagar
175748	Valbhav Panthi Krishan Des Panthi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50319 31/08/09	Dayal Medical Store, Biyawani Chouraha Distt. Ujjain
175749	Valbhav Patil Ravindra Patil	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2006	51295 15/01/10	38, Silampura, Chauraha Burhanpur Distt. Burhanpur
175750	Vaishali Dixit Dinesh Dixit	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51007 13/11/09	6 A, Krishi Vihar Flat No. G1 Atrivavila Appt Indore

175751	Vandana Singh Patel Moti Singh Patel	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50926 06/11/09	C/o Shri Natthu Lal Patel Station Road, Mehar Distt. Satna
175752	Varsha Soni Narendra Kumar Soni	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51156 25/11/09	NH 26, Bus Stand Gorhamar Distt. Sagar
175753	Varun Verma Girish Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50864 13/10/09	Siddhi Vinayak, Link Rd Chandra Shekhar Ward, Tikari Betul
175754	Vedang Dev Goswami Shri Prakash Goswami	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	51160 25/11/09	E 7/105, Ashoka Society, Arera Colony Bhopal
175755	Vibhuti Vaghels Shiv Ram Vaghela	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50872 20/10/09	New Master Colony, Sanavadi Road Distt. Khargon
175756	Vijay Kumar Verma Tarun Kumar Verma	BAMS P.R.S. Shukla Univ., Raipur 2006	51230 30/11/09	VPO Garroli, Tehsil Naugon Distt. Chhatarpur
175757	Vijay Mahajan Ashok Mahajan	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51157 25/11/09	C/o Ashish Jain, Sanmati Hos. Phawwara Chowk Burhanpur
175758	Vijay Patel Raj Kumar Patel	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	50970 11/11/09	Shri DP Patel Teen Gulli Distt. Damoh
175759	Vijay Singh Marskole Mohan Singh Marskole	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51211 27/11/09	Sihar Patrod Baihar Teh. Baihar Distt. Balaghat
175760	Vijaya Meshram Neelkanth Meshram	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51006 13/11/09	Saraswati Nagar, Ward No. 28 Distt. Balaghat
175761	Vijayata Kulshreshtha Yudhishathar Kulshreshtha	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51112 23/11/09	R 1, X, Scheme No. 71 Sector C Gumasta Nagar Distt. Indore
175762	Vijayendra Singh Kaushik Ganesh Singh Kaushik	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50994 12/11/09	Thakur Dwar, Hanuman Nagar Rasulia Distt. Hoshangabad
175763	Vijendra Vishwakarma Nageshwar Vishwakarma	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51137 24/11/09	85, Luxmi Colony, Beenpura Road Mahinderpur Distt. Ujjain

175764	Vikas Rav Uke BC Uke	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50862 13/10/09	Karve Colony, Under Dalsagar Talab, Bheroganj Siwri
175765	Vikesh Asati Jagdish Prasad Asati	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51042 17/11/09	Mandir Dhanushdhar Mandir Badagaun, Ghasana Distt. Tikamgarh
175766	Vikesh Jatav MK Jatav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51113 23/11/09	4427, Gramin Vidhyut Man. Gali Kalabagh, Ganjbasoda Vidisha
175767	Vikram Wagh Parmole Bagri	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50779 28/07/09	Room No. 25, Post Matric Mosam Ciy, Bhadbhada Rd Bhopal
175768	Vinay Chouhan Kallash Chandra Chouhan	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	51048 18/11/09	3, Hathipala Chouraha Near Post Office, Junior Engineer Distt. Indore
175769	Vinay Prakash Gupta Durga Prasad Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50871 15/10/09	Sankat Mochan Chowk Gahol Colony, Distt. Katni
175770	Vineet Singh Kushwaha Puttan Singh Kushwaha	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	50808 22/08/09	Kushwaha Niwas Panch No. 1, Itawa Rd Distt. Bhind
175771	Vinita Gupta GD Gupta	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51097 20/11/09	Vinita Pustak Sadan Hospital Road Range Pichhor Distt. Shivpuri
175772	Vinita Mahadule Salik Ram Mahadule	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51095 20/11/09	VPO Mandvi Tehsil Athner Distt. Betul
175773	Vinita Wathre Mohan Lal Wathre	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51124 23/11/09	Sardar Patel Pura, Ward No. 3, Purani Itarsi, Itarsi Distt. Hoshangabad
175774	Vinod Bhati Brahm Prakash Bhati	BAMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	51342 12/03/10	E 95, Deendayal Nagar Distt. Ratlam
175775	Vinod Kumar Gupta Shri Bhagwan Gupta	BAMS Jiwaji Univ., Gwalior 2007	50838 14/09/09	Ghas Mandi Distt. Gwalior
175776	Vinod Kumar Sahu Ram Narayan Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50996 12/11/09	Main Road Athner Tehsil Bhainsdehi Distt. Betul

175777	Vipika Thakur Badan Lal Thakur	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51101 20/11/09	174, Sanchi Road, Dandapura Distt. Vidisha
175778	Vipin Kumar Malviya Chhaganlal Malviya	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	51053 18/11/09	74/4, Nagda Road Walgarth Distt. Dewas
175779	Vipin Kumar Singh Tomar Narendra Singh Tomar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51019 16/11/09	VPO Rachhed Tehsil Porsa Distt. Murena
175780	Vishal Gautam Vishnu Prasad Gautam	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51029 16/11/09	21, Panchvati Vikram Marg Khanchrod Distt. Ujjain
175781	Vishal Kumar Jain Rajendra Kumar Jain	BAMS Vikram Univ., Ujjain 2008	51190 27/11/09	V 14, Hari Har Nagar Samber Road Distt. Ujjain
175782	Vishal Saxena Rajendra Kumar Saxena	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51131 23/11/09	Near Ramilla Maidan Ward No. 5, Lahur Distt. Bhind
175783	Vishal Sharma Satyanarayan Sharma	BAMS RGUHS Sciences, Bangalore 2007	50887 27/10/09	VIII, Dehri Teli, Kukshi Distt. Dhar
175784	Vishal Shivhare Narendra Shivhare	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50828 04/09/09	Shivhare Clinic, Mahavir Con. Nai Sarak, Yadav Talkies Lashkar, Gwalior
175785	Vishal Verma Shiv Gopal Verma	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50961 11/11/09	Dwarka Nagar, Budora Chowk Distt. Betul
175786	Vivek Kumar Jain Deep Chandra Jain	BAMS KSDS Univ., Darbhanga 2007	50854 05/10/09	VPO Nayakhara Distt. Datia
175787	Vivek Sahu Bhagwan Lal Sahu	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50801 18/08/09	Naka Chandravadni Gali Lashkar, No. 1 Distt. Gwalior
175788	Vrakesh Kumar Rajput Ram Prakash Rajput	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore 2008	50990 12/11/09	R 118 Radio Colony Purani Bachhada Road Bhopal
175789	Yogendra Kaurav Virendra Singh Kaurav	BAMS Rani Durgawati Univ., 2008	50930 06/11/09	Plot No. J3, H No. 817/15A, Sank Society, Shakti Nagar Distt. Jabalpur

175790	Yogesh Vyas Umeshankar Vyas	BAMS Davi Ahilya Univ., Indore 2008	50884 27/10/09	VPO Maharajpur PO Devrikalan Distt. Sagar
175791	Yogesh Chokkar Baliram Chokkar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51017 16/11/09	Behind Old F 329 Sami Distt. Betul
175792	Yogesh Kumar Dangi Atma Ram Dangi	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51106 23/11/09	Mohalla Dangiana Niwadi Distt. Tikamgarh
175793	Yogesh Kumar Khatakar Shri Krishan Rav Khatakar	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	50869 14/10/09	Dwarka Nagar, Badora Chowk Distt. Betul
175794	Yogesh Kumar Raghav Om Prakash Raghav	BAMS Barkatulla Univ., Bhopal 2008	51081 20/11/09	H No. 229, Ward No. 10 Shivaji Ward Kendali Distt. Narsinghpur

PREMRAJ SHARMA

Registrar

MADHYA PRADESH PART-II-UNANI

CR No.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION/ AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN NO. & DATE	ADDRESS
23524	Aadil Ansari Manjur Hussain Ansari	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50852 05.10.09	Lohar Mandi Road Pandari Mashjid ki Gali Distt. Burhanpur
23525	Aarju Khan A. Waheed Khan	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51325 09.02.10	G 70/1 Opposite Modal Higher Secondary School South T Nagar Bhopal
23526	Ajma Ashfaq Syed Ashfaq Ali	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2010	51321 06.02.10	H. No. 59, C Sector Bhag Umrao dullah Bhopal
23527	Atif Saadiq Khurshid Alam	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51314 03.02.10	H. No. 199 Opposite. Tollwari Mashjid Alok Press Road Bhudwara

23528	Busra Sidhiqui Mateen Ahamd	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51317 05.02.10	H. No. 8 Idgaah Hills Bhopal
23529	Fayaza Fatma Khaliq Ahmad	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50793 10.08.09	H. No. 54, Near Post office Thana Road Shahjahanabad Bhopal
23530	Gazala Asmat Malik Abdul Haq	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51329 15.02.10	S. 2 Altmash Appt. Near I.P. Collage Shahjahanabad Bhopal
23531	Meer Ahsaan Ali Zafri Meer Mohd. Ali	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	50943 10.11.09	Sindhupura Road Distt Burhanpur
23532	Meer Jubel Ali Meer Muzaffar Ali	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	51294 15.01.10	70 Regiment Road Shahjahanabad Bhopal
23533	Mohd. Arif Ansari Abdul Mannan Ansari	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50559 09.10.09	H. No. 163 Lallu Sunar ki Gali Lohar Mandi Distt Burhanpur
23534	Mohd. Sajid Ahamd Mohd. Mateen	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50881 26.10.09	Khan ki Mashjid Naya Mohalla Distt Burhanpur
23535	Munbbar Gouri Mashuq Gouri	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51318 05.02.10	H. No. 43 Gali No. 5 Ahamd Ali Colony Aish Bagh Stadium Bhopal
23536	Naazneen Mansuri Sheikh Sabbeer Mansuri	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51346 19.03.10	G. 10/121 New 228 Quarters South T T Nagar Bhopal
23537	Nadeem Khan Hyder Khan	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50880 26.10.09	H. No. 15 Gali No. 4 Ahmad Ali Colony Aish Bagh Stadium Bhopal
23538	Nikhat Parveen Mohd. Rasheed Mansuri	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	51072 19.11.09	3272 Aadarsh Nagar Colony Adhartaal Distt Jabalpur
23539	Quddush Ahmad Abdul Razack	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	50932 07.11.09	Opposite Moharganj Distt. Raisen

23540	Rajneeti Sengar Ghanshyam Singh Sengar	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2001	50989 12.11.09	H.No. Out of Lohar Mandi Gate Aalamganj Distt Burhanpur
23541	Razi Faraz Khan Riyaz Khan	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51330 15.02.10	H. No. 42 Saajide Nagar Karbala Road Bhopal
23542	Rizwana Gull Gull Mohmmad	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51334 03.03.10	H. No. 30 Near Peer Sahab Masjid Peerlat Bhopal
23543	Sakib Ahamd Siddiquee Sabbeer Mohd Siddiquee	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51313 03.02.10	Kazipura, Jafara Distt Tiakerngarh
23544	Shaheen Kishwar Abdul Aziz Khan	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	50988 12.11.09	Apex Avenue G 2 (A) Behind Motia Park Moti Masjid Retghat Bhopal
23545	Sheikh Almas Saifudeen	BUMS M U H S Nasik 2007	51327 09.02.10	Alfarid Relief Centre 191 Sanjay Nagar Distt Khargoan
23546	Sheikh Shazia Bano Sheikh Fubaad	BUMS M U H S Nasik 2004	50728 13.05.09	58 Imalipura. Distt Khandwa Bhopal
23547	Shohail Ahamd Khan Basir Ahamd Khan	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2008	51240 30.11.09	Kherati Bazar Road Opposite Indor Bekari Distt Burhanpur
23548	Tehseen Jahan Mohd. Shafiq	BUMS Barkatullah Univ., Bhopal 2007	51018 16.11.09	H. No. 10. Behind Saiphia Collage Bhopal

PREMRAJ SHARMA

Registrar

No. 20-22/2012 –CR (West Bengal) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of West Bengal and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to West Bengal state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from February 2009 to February 2010 by inserting serial No. 175795 of Ayurveda onwards after the existing last Serial No. 175901 of Ayurved which to be published in the Gazette of India for general information.

Note:- While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (West Bengal) from February 2009 to February 2010 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/ correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

PREMRAJ SHARMA

Registrar

WEST BENGAL
PART I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
175795	Abantika Pal Dipak Kumar Pal	BAMS University of Calcutta 2008	11770 27/08/09	58/H, Jessore Road (South) PO Hindaypur North 24 Parganas, Kolkata
175796	Abdula Hili Kafi Sukunuddin	BAMS University of Calcutta 2008	11751 12/08/09	VPO Manikchak PS Lalgola Dist. Murshidabad
175797	Abhijit Biswas Adwaita Biswas	BAMS University of Calcutta 2008	11778 10/09/09	VPO & PS Gangnapur Nadia
175798	Abhinanyu Das Ashok Das	BAMS University of Calcutta 2008	11790 17/09/09	91, GN Mukherjee Road Bansbaria PO Bansbaria, Hooghly
175799	Abhishek Ghosh Sadhan Ch. Ghosh	BAMS University of Calcutta 2008	11746 05/08/09	Vill. Dhopabaria PO Garakupi PS North 24 Parganas
175800	Abhishek Kumar Ojha Abhay Shankar Ojha	BAMS University of Calcutta 2008	11758 20/08/09	7/1, Nilmadhab Bhattacharya Lane Kamarhati Kolkata
175801	Afsar Ali Asgar Ali	BAMS University of Calcutta 2007	11735 26/02/09	Vill. Singhojora PO Bhagabatipuri PS Chanditala Hooghly
175802	Ahmed Ali Ansari Md. Ghulam Jeehani Ansari	BAMS University of Calcutta 2008	11741 05/08/09	59 A/D Block, Line No. 4 PO Fort Gloster PS Bauna, Howrah
175803	Ajay Kumar Tripathi Tarak Nath Tripathi	BAMS University of Calcutta 2008	11759 20/08/09	17, Deodai Street Kolkata
175804	Ajay Kumar Tripathi Ravindra Kant Tripathi	BAMS University of Calcutta 2008	11826 06/01/10	64, Madhab Babu Lane, Ghusuri Howrah
175805	Amit Kumar Das Sumangal Das	BAMS University of Calcutta 2008	11771 27/08/09	38/2, Attapara Lane PO Sinterree, Kolkata

175806	Amit Kumar Mondal Narayan Chandra Mondal	BAMS University of Calcutta 2007	11731 18/02/09	27/36e, Joychand RD, PO Khagra Berhanpur Murshidabad
175807	Amitava Acharya Tarun K. Acharya	BAMS University of Calcutta 2008	11782 16/09/09	VIII. Nona PO & PS Uluberia Howrah
175808	Aniruddh Biswas Ashok Biswas	BAMS University of Calcutta 2008	11814 25/11/09	VIII. Mahisa Muslandapur PO Kumra Kashipur North 24 Parganas
175809	Anjan Kumar Chowdhury Sunil K. Chowdhury	BAMS University of Calcutta 2008	11832 18/02/10	Durganagar PO Madral North 24 Parganas
175810	Anupam Mukherjee Amar Mukherjee	BAMS University of Calcutta 2008	11788 17/09/09	VPO Bluhati PS Domjur Distt. Howrah
175811	Amab Mukherjee Mihir Ranjan Mukherjee	BAMS University of Calcutta 2008	11822 09/12/09	96/2, Baruipara Lane PO Alambazar Kolkata
175812	Arvind Kumar Gupta Ashok Kumar Gupta	BAMS University of Calcutta 2008	11760 26/08/09	Marwarikal Chowmatha Hajinagar North 24 Parganas
175813	Ashok Kumar Haider Ajit Kumar Haider	BAMS University of Calcutta 2008	11789 17/09/09	VIII. Vibekanda Pally PO & PS Sonarpur South 24 Parganas, Kolkata
175814	Azmal Bari Moinuddin	BAMS University of Calcutta 2008	11743 05/08/09	VIII. Akuni (Mirpara) PO Akuni, PS Chanditala Hooghly
175815	Baladitya Mandal Braja Nath Mandal	BAMS University of Calcutta 2008	11800 04/11/09	VIII. Shantinagar PO Madenpur, PS Kalyani Nadia
175816	Bapi Haque Mahabul Haque	BAMS University of Calcutta 2008	11784 17/09/09	VPO Saninoti Nagar Bazar Distt. Murshidabad
175817	Bapi Nath Late Rabi Nath	BAMS University of Calcutta 2007	11737 16/04/09	VIII. Basakpara PO Bongaon North 24 Parganas
175818	Basanti Maji Sufal Kumar Maji	BAMS University of Calcutta 2008	11742 05/08/09	E/5, Lake View Park Kolkata

175819	Biswanath Pramanik Niberan Pramanik	BAMS University of Calcutta 2008	11821 02/12/09	VIII. Ganesya PO Vivekanandapur South 24 Parganas, Kolkata
175820	Chandan Kumar Gupta Mohanalal Gupta	BAMS University of Calcutta 2008	11806 18/11/09	11/7, Musalmen Para Lane PO Kadamtala PS Bantra Howrah
175821	Charu Mihir Biswas Jayanta Kumar Biswas	BAMS University of Calcutta 2007	11736 18/03/09	Nabapally Boys School Rd PO Nabapally North 24 Parganas
175822	Chinnmoy Mandal Chitta Ranjan Mandal	BAMS University of Calcutta 2008	11823 09/12/09	VPO Tangra Colony PS Bangaon North 24 Parganas
175823	Chitrasri Bhattacharyya Chandra Sekhar Bhattacharyya	BAMS University of Calcutta 2008	11835 22/12/09	20, Raja Ramimohan Roy, Sarani Kolkata
175824	Comea Saha Nantu Kumar Saha	BAMS University of Calcutta 2008	11757 20/08/09	Saha Banchatra Road, Near Ratal Gate PO Guriahat 2 Coochbehar
175825	Deb Narayan Maity Lakshmi Narayan Maity	BAMS University of Calcutta 2008	11783 17/09/09	54, Srinagar Main Road PO Panchasayer, PS Sonarpur Kolkata
175826	Debajyoti Bhattacharyya Bimal Jyoti Bhattacharyya	BAMS University of Calcutta 2008	11740 05/08/09	A-2/78, Kalyani, Nadia, Flat No.9, PO Kalyani Nadia
175827	Debasis Paik Ramlal Paik	BAMS University of Calcutta 2008	11831 18/02/10	Hatiara Shorif R.N.Nagar PO Ghuni Kolkata
175828	Debayan Bandyopadhyay Dhirendra Krishna Bandyopadhyay	BAMS University of Calcutta 2008	11761 26/08/09	2, Jublee Park Brahmapur Battala, PO Brahmapur Kolkata
175829	Debdas Mukherjee Kaikinkar Mukherjee	BAMS University of Calcutta 2008	11828 03/02/10	VIII. Doulatpur, PO Chandur Arambagh Distt. Hooghly
175830	Debyendu Das Adhikary Manas Ranjan Das	BAMS University of Calcutta 2008	11825 16/12/09	57/19/1, Baksara, VIII. Road PO Baksara PS Shibpur Distt. Howrah
175831	Dheeraj Kumar Hriday Narayan Singh	BAMS University of Calcutta 2008	11812 25/11/09	SP Mukherjee Road Titagarh North 24 Parganas

175832	Dibyendu Sarkar Nikhil Ranjan Sarkar	BAMS University of Calcutta 2008	11810 18/11/09	Rajakiya West, Ramakrishna Road PO & Distt. Burdwan
175833	Haider Fariduddin Parvez Enamul Kabir Haider	BAMS University of Calcutta 2008	11805 18/11/09	VPO Akuni PS Chanditala Hoochly
175834	Hari Shankar Pathak Dharmi Deo Pathak	BAMS University of Calcutta 2007	11733 18/02/09	Ganpati Vihar, Block No 1, Flat No. 105 Asminagar Beguthati
175835	Indrani Basak Hari Gopal Basak	BAMS University of Calcutta 2008	11769 27/08/09	F/e-7, Vidyasagar Pally Sal Apartment Kolkata
175836	Joydeb Barman Jogajyoti Barman	BAMS University of Calcutta 2008	11792 17/09/09	A-7, Vill. Basudevpur PO Khajanchok (Haldia) East Midnapur
175837	Kalyan Bhowmik Ashok Kumar Bhowmik	BAMS University of Calcutta 2008	11762 26/08/09	VPO Kushgerie, Distt. Paschim Midnapur
175838	Kausik Sinha Gopal Das Sinha	BAMS University of Calcutta 2008	11803 18/11/09	B-5/16, Kalyani Nadia
175839	Kousik Basak Kamalesh Basak	BAMS University of Calcutta 2007	11730 18/02/09	Vill. Sriman Tapur PO & PS Lalgola Murshidabad
175840	Lakshmi Kanto Mandal Late Anil K. Mandal	BAMS University of Calcutta 2008	11797 24/09/09	Vill. Kriparampur PO Bishnupur Pool (Amtala) South 24 Parganas
175841	Mahasweta Ghosh Manindra Nath Ghosh	BAMS University of Calcutta 2008	11766 26/08/09	3/9, Sahid Mangal Panday Sarani, Barrackpore Kolkata
175842	Manish Kumar Tiwari Sachchidananda Tiwari	BAMS University of Calcutta 2008	11829 03/02/10	Taratola Cpt. City East Side Market, Plot No. 7 Kolkata
175843	Manoj Kumar Mondal Abhilash Ch. Mondal	BAMS University of Calcutta 2008	11802 05/11/09	Vill. Durgapal PO Dharamberia FS Hasnabad Distt. North 24 Parganas
175844	Mathur Ballav Susen Ballav	BAMS University of Calcutta 2007	11738 17/04/09	Vill. Kadagola PO Ratnapur Bankura

175845	Md. Joyral Abedin Md. Nazimuddin	BAMS University of Calcutta 2008	11750 12/08/09	VIII Ambha, PO Kaluna Distt. Birbhum P.S. Margram
175846	Md. Abdul Farrah Molla Md. Akbar Ali Molla	BAMS University of Calcutta 2008	11820 02/12/09	VIII Pipur, PO Ghent Raypur, P.S. Dholahat South 24 Parganas
175847	Md. Monirul Islam Md. Abdul Latif Molla	BAMS University of Calcutta 2008	11818 02/12/09	Bhangar College Road South 24 Parganas
175848	Mithun Kumar Roy Gautam Narayana Roy	BAMS University of Calcutta 2008	11793 17/09/09	VIII, 4 No. Patakhawa, PO Dakshin JChakawekhethi alpaiguri
175849	Mohasin Mondal Asgar Ali Mondal	BAMS University of Calcutta 2008	11785 17/09/09	VIII, Chapra (Ranaband Rd) PO Bangalini P.S. Chapra Nadia
175850	Nandini Kapoor Surendra Nath Kapoor	BAMS University of Calcutta 2008	11763 26/08/09	38/3/1, Ram Tanu Bose Lane Kolkata
175851	Nirdesh Kumar Tiwari Munni Lal Tiwari	BAMS University of Calcutta 2008	11813 25/11/09	31, Ashu Bose Lane Distt. Howrah
175852	Nirmal Adak Niranjana Adak	BAMS University of Calcutta 2008	11808 18/11/09	VIII, Chistipur Veri PO Mangala Mam P.S. Patashpur Purba Medinipur
175853	Parimal Mahata Radhakrishnan Mahata	BAMS University of Calcutta 2008	11794 23/09/09	VIII, Banda PO & P.S. Jhaigram Distt. Paschim Medinipur
175854	Parimal Sarkar Nepal Sarkar	BAMS University of Calcutta 2008	11744 05/08/09	VIII, Dhopabanta PO Gerakupi P.S. Basirhat, North 24 Parganas
175855	Piyush Kr. Dwivedi Ram Narayan Dwivedi	BAMS University of Calcutta 2008	11778 10/09/09	A-4/3A, Hind Motoros Colony PO Hind Motor Distt. Hooghly
175856	Prahlad Hait Jaihar Lal Hait	BAMS University of Calcutta 2008	11815 25/11/09	VPO Kulbatpur, PS Pursurah Vila Tarakeswar Distt. Hooghly
175857	Prasenjit Kabiraj Prasanta Kumar Kabiraj	BAMS University of Calcutta 2008	11772 02/09/09	Kabiraj Bhagabandh Para, PO Namopara Purulia Distt. Purulia

175859	Pratap Kunti Dinesh Ch. Kunti	BAMS University of Calcutta 2008	11758 59/05/09	Vill. Kanyanagar PO Kanyanagar, PS Bachampur 24 Parganas
175860	Prasen Jha Vinod Jha	BAMS University of Calcutta 2008	11634 07/07/09	150, Abhitola Street Near P.O. 2nd Floor Kolkata
175861	Priyanka Ghosal Sambhu Nath Ghosal	BAMS University of Calcutta 2008	11755 20/08/09	Vill. Kalidasa PO Halasranapur PS Ajambagh Hooghly
175862	Pooja Mandal Partha Sarathi Mandal	BAMS University of Calcutta 2008	11747 05/09/09	Vill. Titumtala PO Maslandapur PS Habra 24 Parganas
175863	Rajdeep Bhattacharjee Partha Pratim Bhattacharjee	BAMS University of Calcutta 2008	11779 10/09/09	(Ground Floor, 9, Bankim Chandra Rd. Hakimdara Suguri Darjeeling
175864	Rajesh Kumar Sikia Omprakash Shukla	BAMS University of Calcutta 2008	11819 02/12/09	17, Devdar Street, Kolkata
175865	Rajib Basu Ranjit Kumar Basu	BAMS University of Calcutta 2008	11748 05/03/09	Vill. Palla Colony No. 2 PO Palai Burdwan
175866	Ramkrishna Saha Tapas Kumar Saha	BAMS University of Calcutta 2008	11786 17/09/09	199/A, Becharam Chatterjee Rd. Behala, South 24 Parganas Kolkata
175867	Ritesh Giri Shyam Behari Giri	BAMS University of Calcutta 2008	11804 18/11/09	53, B. Dr. Priya Natha Ghosh Road Bally Hooghly
175868	Sanjit Kumar Ghosh Lata Dharendra Nath Ghosh	BAMS University of Calcutta 2008	11781 10/09/09	Vill. Purba Dhanla PO Masunda PS Andalga North 24 Parganas
175869	Santanu Basak Lakshikanta Basak	BAMS University of Calcutta 2008	11827 13/01/10	200, Oladevi Tala PO PS Nazadomp Dist. Nadia
175870	Sanup Rudra Sucha Sindhu Rudra	BAMS University of Calcutta 2008	11830 03/02/10	VPO Barashymbazar PS Mondokote Dist. Burdwan
175871	Savendra Tiwari Bal Govind Tiwari	BAMS University of Calcutta 2008	11824 01/11/09	31, Ashu Bose Lane, Howrah

175871	Sayani Mania Pradip Kumar Mania	BAMS University of Calcutta 2008	11780 10/09/09	Nona (Sarada Pally) Uluberia Howrah
175872	Shah Nawaz Kabir Ainul Kabir	BAMS University of Calcutta 2008	11798 04/11/09	Vill. Jotchidam PO Sadikhan's Dearth PS Jalangi Distt. Murshidabad
175873	Shah Riar Haque Samsul Haque	BAMS University of Calcutta 2008	11811 18/11/09	Vill. Chakranprasad PO Hare Krishna Nagar Murshidabad
175874	Shankar Kumar Pramanik Manoranjan Pramanik	BAMS University of Calcutta 2008	11774 02/09/09	VPO Bamanpukur North 24 Parganas
175875	Sharmila Bandyopadhyay Ashoke Kumar Bandyopadhyay	BAMS University of Calcutta 2008	11763 26/08/09	VPO Khamarchandi PS Haripal Distt. Hooghly
175876	Shaswati Joarder Samir Kumar Joarder	BAMS University of Calcutta 2007	11732 18/02/09	531/1, RBC Rd Rajbandighar, PO Garifa 24 Parganas
175877	Sonali Mandal Saktipada Mandal	BAMS University of Calcutta 2008	11767 26/08/09	C/o Saktipada Mandal, PO Khatra Nabarunpalli Bankura
175878	Soumendra Mondal Gopal Chandra Mondal	BAMS University of Calcutta 2008	11816 25/11/09	Vill. Ishlapur PO Mirpur PS Nandamumar Purba Medinipur
175879	Soumitra Maji Bijoy Kumar Maji	BAMS University of Calcutta 2008	11752 12/08/09	VPO Rudrani Distt. Hooghly
175880	Soumya Kanti Bhattacharya Saroj Bhattacharya	BAMS University of Calcutta 2008	11787 17/09/09	Khan Road, Chaitali Apt. Mamkundu PS Bhadrashwar
175881	Souradip Pal Gangadhar Pal	BAMS University of Calcutta 2008	11773 02/09/09	Vill. Aduria, PO Aduria Distt. Burdwan
175882	Subhasis Saha Dilip Kumar Saha	BAMS University of Calcutta 2008	11799 04/11/09	50/31, Rabindra Avenue PO & Distt. Malda
175883	Subhramshu Mondal Subodh Ch. Mondal	BAMS University of Calcutta 2008	11817 26/11/09	13/16, Gurunanak Road A-Zone Durgapur, Burdwan PO

175884	Subir Karmakar Dwijoy Karmakar	BAMS University of Calcutta 2008	11739 05/08/09	VPO Hatbasantapur PS Arambagh Hooghly
175885	Subrata Debbarma Umesh Debbarma	BAMS University of Calcutta 2008	11749 12/08/09	50/31, Rabindia Avenue PO & Distt Malda Malda
175886	Sufajit Bhattacharyya Swapan Kr. Bhattacharyya	BAMS University of Calcutta 2008	11791 17/09/09	VIII Debpur PO Radhakantapur PS Mamari, Distt. Burdwan
175887	Sukalyan Ray Suresh Chandra Roy	BAMS University of Calcutta 2008	11753 12/08/09	Chowmatha PO Hajinagar Distt. North 24 Parganas
175888	Suman Chakraborty Jiben Chakraborty	BAMS University of Calcutta 2008	11795 23/09/09	Chhotanur (Paschim) PO Sripally Distt. Burdwan
175889	Sumana Paul Phanindra Kishore Paul	BAMS University of Calcutta 2008	11754 12/08/09	Chowmatha PO Hajinagar Distt. North 24 Parganas
175890	Surajit Paul Chittaranjan Paul	BAMS University of Calcutta 2008	11801 04/11/09	VIII Bhandarberia PO Kulberia PS Tamruk Purba Medinipur
175891	Sushama Tiwari Shri Vijoy Tiwari	BAMS University of Calcutta 2007	11734 18/02/09	H No. 24, BK No. 13 PO Kakinar North 24 Parganas
175892	Sushmita Choudhury Debabrata Choudhury	BAMS University of Calcutta 2008	11764 26/08/09	2, Jubilee Park, Brahmapur Battala PO Brahmapur Kolkata
175893	Susovan Sen Debdas Seb	BAMS University of Calcutta 2008	11766 23/09/09	Nbutanganj Cinema Road, Bankura PO & Distt. Bankura
175894	Suvasis Jana Bishnupada Jana	BAMS University of Calcutta 2007	11729 12/02/09	VPO Madhusudan Chak PS Royadighat Distt. South 24 Parganas
175895	Swatillekha Panja Rabindra Nath Panja	BAMS University of Calcutta 2008	11765 26/08/09	Mariya Mohiary, Churaimonj para Abdul-Mouri, Andul Howrah
175896	Tamal Tripura Harendra Kumar Tripura	BAMS University of Calcutta 2008	11745 05/08/09	VIII Diopaberia PO Carakupt PSEasihat, North 24 Parganas

175897	Vikash Raman Sahdeo Prasad	BAMS University of Calcutta 2008	11833 21/04/10	Durganagar PO Maderal North 24 Parganas
175898	Virendra Vikram Singh Fathe Bahadur Singh	BAMS University of Calcutta 2008	11807 18/11/09	239/2, Belitious Road, PO & PS Howrah
175899	Vishal Kumar Saha Jawahar Prasad Saha	BAMS University of Calcutta 2008	11775 02/09/09	48/23, Premchand Ngr Road PO, Kankinara North 24 Parganas
175900	Zafar Iqbal Iqbal Ahmad	BAMS University of Calcutta 2008	11809 18/11/09	Azadnagar, PO Kullii PS Kullii Distt. Burdwan
175901	Ziaur Rahman Faridi Mohd. Tariq Faridi	BAMS University of Calcutta 2008	11777 10/09/09	44, AB Road, Fingapara PS Jagatdal North 24 Parganas

PREMRAJ SHARMA
Registrar

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961) the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is pleased to amend the regulations as under :—

1. This regulations may be called as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General (Amendment) Regulations, 2012.

2. On the commencement of this regulations, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961 shall have effect subject to the following amendments, namely :—

(i) Form 'A' and Form 'B' in the schedule to the Regulations shall be substituted by new 'Form A' and 'Form B'.

(Established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

(Regulation 18—Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on the 31st March

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) and CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(Rs. in million)

Previous Year		LIABILITIES		Previous year		ASSETS	
DIF	CGF			DIF	CGF	DIF	CGF
		1.	Fund (Balance at the end of the year)			1.	Balance with the Reserve Bank of India
		2.	Surplus (Balance as per Revenue Account Annexed)			2.	Cash in Transit
		3.	Investment Reserve			3.	Investments in Central Government Securities (at cost)
			Balance at the beginning of the year				
			Add: Amount provided for during the year			DIF	CGF
			Balance at the end of the year				
							Face value
							Market value
		4.	Investment Fluctuation Reserve			4.	Interest accrued on investments
			Balance at the beginning of the year				
			Add: Amount provided for during the year				
			Balance at the end of the year				
		5.	Claims Intimated & Claims admitted but Not paid			5.	Advance to DIF/CGF (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
		6.	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted*			6.	Advance to DIF/CGF (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
		7.	Advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)			7.	Other Assets**

(Rs. in million)

Previous Year		LIABILITIES	Previous year				ASSETS
DIF	CGF		DIF	CGF	DIF	CGF	
		8. Advance from DIF/CGF (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)			8.		Deficit (Balance as per Revenue Account Annexed)
		9. Advance from DIF/CGF (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)					
		10. Insured deposits remaining unclaimed					
		11. Insured Deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled					
		12. Other Liabilities**					
		TOTAL					TOTAL

Note 1. *The estimated liability for claims intimated to the Corporation but not admitted has been computed after deducting from the claims actually lodged, an amount equal to.....percent of the gross claims on account of usual rejections/withdrawal

2. **Details of each item indicating its nature may be given under these heads

3. Appropriate note regarding subrogation rights and provision against the same to be given

(Regulation 18—Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on the 31st March

II. GENERAL FUND (GF)

(Rs. in million)

Previous Year		LIABILITIES	Previous Year		ASSETS
		1. Capital: Provided by the Reserve Bank of India (RBI) under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)			1. CASH (i) In hand (ii) With Reserve Bank of India
		2. Reserves (A) General Reserve Balance at the beginning of the year Add: Surplus transferred from the Revenue Account			2. Investment in Central Government Securities (At Cost) (Face Value : Rs.....) (Market Value : Rs.....)
		(B) Investment Reserve Balance at the beginning of the year Add: Amount provided for during the year			3. Interest accrued on Investments
					4. Advance to DIF/CGF, if any (vide Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

(Rs. in million)

Previous Year	LIABILITIES	Previous Year	ASSETS
	(C) Investment Fluctuation Reserve	5.	Other Assets*
	Balance at the beginning of the year		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)
	Add: Amount provided for during the year		Stock of Stationery
3.	Other Reserves		Prepaid Expenses
4.	Current Liabilities and Provisions		Sundry Debtors
	Staff Provident Fund		
	Staff Gratuity Fund		
	Other Liabilities*		
	Staff Leave/Retirement Fare Concession		
	Outstanding Expenses		
	Sundry Creditors		

*Details of each items indicating its nature may be given under these heads

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended 31st March

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) and CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(Rs. in million)

Previous Year	EXPENDITURE	Previous Year	INCOME
DIF CGF		DIF CGF DIF CGF	DIF CGF
	To Claims:		By Balance of Fund at the beginning of the year
	(a) Paid during the year		
	(b) Admitted but Not Paid		
	Add: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year		By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)
	Less: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year		By Guarantee Fees (including interest on overdue guarantee fees)
	Net claims		By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/Guarantee claims paid
	To Provision for depreciation in the value of investments credited to Investment Reserve		By Income from Investments*
	To Interest on advance from Reserve Bank of India (Section 26 of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)		By Net deficit carried down
	To interest on advance from DIF/CGF (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)		

(Rs. in million)

Previous Year	EXPENDITURE	Previous Year	INCOME
DIF CGF	DIF CGF	DIF CGF	DIF CGF
	To Interest on advance from DIF/CGF (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)		
	To balance of fund at the end of the year		
	To Net Surplus Carried Down		
	To Net deficit brought down		By Net Surplus Brought Down
	To Balance brought forward from last year		By Balance brought forward from last year
	To Transfer to DIF/CGF		By Transfer from DIF/CGF
	To Provision for Income-Tax		
	To Transfer to Investment Fluctuation Reserve		
	To Balance carried to Balance Sheet		By Balance carried to Balance Sheet

*Profit or loss on sale of Central Government Securities and provisions for depreciation on investments may be added or deducted as the case may be

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended 31st March

II. GENERAL FUND (GF)

(Rs. in million)

Previous Year	EXPENDITURE	Previous Year	INCOME
	To Salaries and allowances and contributions to Staff Provident Fund		By Income from Investments*
	To Contribution to Staff Gratuity Fund		By Interest on Advances to DIF/CGF
	To Directors' and Committee Members' Fees		By Miscellaneous Receipt
	To Directors' and Committee Members' Travelling and other allowances		By balance being excess of Expenditure over Income, if any, transferred to Balance Sheet
	To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.		
	To Establishment—Travelling & Halting Allowances		
	To Printing and Stationery		
	To Postage, Telegrams and Telephones		
	To Auditors' Fees		
	To Legal Charges		
	To Provision for Depreciation in value of Investment		
	To Miscellaneous Expenses		
	To Depreciation		

Previous Year	EXPENDITURE	Previous Year	INCOME
	To Advertisement		
	To Balance being excess of income over expenditure carried down		
	To Transfer to General Reserve		By Balance being excess of income over expenditure-brought down
	To Transfer to Investment Fluctuation Reserve		
	To Transfer to Other Reserves (give details)		

*Profit or Loss on sale of Government Securities and provision for depreciation on investments may be added or deducted as the case may be.

VIJAY KUMAR MAURYA
D. G. M.

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 2013

General Notice is hereby given to all the Registered practitioners included in Parts-I & II of the Central Register of Homoeopathy (Published in Gazette of India on 09.10.2004) maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 that they have to make an application to the Registrar for continuance of their names on the said Register as provided in regulation 9(1) of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, framed under the said Act.

Individual notices alongwith the prescribed form of application are being sent under Registered Post to every such Registered practitioner to the address entered in the said Register. An application in Form 'F' for continuation of the name in the Register should be returned to the undersigned duly completed within 30 days of the issue of this notice. Any Registered practitioner not receiving the Form 'F' by post may obtain it from the office of the Registrar.

LALIT VERMA
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013